

श्री कुन्दकुन्दाचार्यविरचित

❀ अष्टपाहुड ❀

संस्कृत छाया तथा भाषानुवाद सहित.

हिन्दी अनुवादक—

पारसदास जैन न्यायतीर्थ,

धर्माध्यापक जैन अनाथाश्रम देहली ।

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गच्छी ।

मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तुमंगलम् ॥

प्रकाशक—

भारतवर्षीय अनाथरक्षक जैन सोसायटी,

दर्यागंज—देहली ।

प्रथम संस्करण

१०००

वी० नि० सं० २४६९.

ई० सन् १९४३.

मूल्य

डेढ़ रुपया

PART I.
ENGLISH TRANSLATION WITH INTRODUCTION.
BY
JAGAT PERSHAD M. A., B. SC. C. I. E.

“The Eight Presents—This is a free but full, expressive and faithful rendering in English by Mr. Jagat Pershad M. A., B. Sc. C. I. E., of Ashta-Pahuda, the extremely helpful treatise on jaina philosophy in Prakrit by Kunda Kunda Acharya.

Kunda Kunda has, as stated by the author, the warmth and fervour of an original author who was a saint, a sage, a poet and a preacher, all combined, and who writes not merely to instruct but also to convince, move and elevate his readers. The treatise is divided into eight chapters, faith, scripture, Conduct, Enlightenment, Realization, Emancipation, Insignia and Virtue. A condensed and yet exhaustive presentation of the subject matter in the introduction has very greatly enhanced the value of this brochure. The learned translator has very aptly observed that the differences between the Digambara and Svetambara sects relate only to some trivial details in the daily routine prescribed for monks, which do not affect any principle what ever. It is a very useful book for jainas and non jainas who are interested in the study of the Principles of jain philosophy, and is available from the “Jain Orphanage society, Darya Ganj, Delhi.”

Jaina Gazette.

ग्रन्थानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना हिन्दी अनुवाद	१—२१
१ दर्शन पाहुड	१—१०
२ सूत्र पाहुड	११—१८
३ चारित्र पाहुड	१९—३२
४ बोध पाहुड	३३—५०
५ भाव पाहुड	५१—६८
६ मोक्ष पाहुड	६९—१२८
७ लिंग पाहुड	१२९—१३५
८ शील पाहुड	१३६—१४७

अनुवादक का वक्तव्य

विज्ञ पाठको ! जैन सिद्धान्त के उत्तम ग्रन्थ अष्टपाहुड के रचयिता श्री कुन्द-कुन्दाचार्य के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है, कारण कि उक्त आचार्य के नाम से समाज का प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। यद्यपि इनके जन्म स्थान और ग्रंथ रचना के काल में लोगों के भिन्न २ मत हैं, तथापि यहाँ केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उपर्युक्त आचार्य का जन्म विक्रम की दूसरी शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी के मध्यकाल में हुआ है। तथा इन्होंने दक्षिण भारत के कौण्ड-कौण्ड नामक स्थान को अपने जन्म से विभूषित किया, उसी स्थान के नाम से इनका नाम भी कुन्दकुन्द आचार्य प्रसिद्ध हुआ। इनके जन्मादि विषयक ऐतिहासिक बातों का पूरा वर्णन इस ग्रन्थ के अंग्रेजी अनुवादक श्रीमान् बाबू जगत-प्रसाद जी जैन C. I. E. महोदय ने अपनी भूमिका में भली भाँति कर दिया है।

यद्यपि इस ग्रंथ पर हिन्दी और संस्कृत की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, तथापि भावों की अस्पष्टता और रीति की प्राचीनता के कारण आधुनिक पाठकों को अधिक रुचिकर प्रतीत नहीं हुईं। इसलिए जैन साहित्य के प्रेमी और उदार-चित्त श्रीमान् बाबू जगत प्रसाद जी C. I. E. जनरल मैक्रेटरी अनाथाश्रम देहली की प्रेरणा से मैंने यह सरल व संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद करने का साहस किया है। इस ग्रंथ का अनुवाद करने में मुझे श्री १०८ भुतसागर सूरि रचित षट्पाहुड की संस्कृत टीका, पं० सुरज भान जा की हिन्दी टीका और जयपुर निवासी पं० जयचन्द्र जी छावड़ा का प्राचीन हिन्दी टीका से पर्याप्त सहायता मिली है। जिसके लिये मैं उपर्युक्त महानुभावों का हृदय से आभार मानता हूँ। ग्रंथ की मूल गाथाओं और संस्कृत छाया का सशोधन उपर्युक्त मुद्रित ग्रंथों से मिलाकर किया गया है। यद्यपि इस ग्रंथ की कोई प्राचीन हस्तलिखित शुद्ध व प्रामाणिक प्रति हमें प्राप्त न हो सकी, तथापि ग्रंथ को शुद्धतापूर्वक छपवाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है। प्रेस का असावधानी से जो कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं उनका शुद्धिपत्र ग्रन्थ के प्रारम्भ में लगा दिया गया है। आशा है कि विचारशील पाठक हमारी भूल पर ध्यान न देकर क्षमा प्रदान करेंगे और ग्रन्थ शुद्ध करके पढ़ेंगे। यदि समाज के उदारचित्त महानुभावों ने इस अनुवाद को अपनाया तो मैं अपने परिश्रम को कृतार्थ समझूंगा। तथा अन्य उपयोगी ग्रन्थों का अनुवाद करने का साहस करूंगा।

अन्त में समाज के विद्वानों और महानुभावों से अपनी त्रुटियों की क्षमा याचना करता हुआ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ—इत्यल विस्तरेण।

अक्टूबर १९४३

समाज सेवक—
पारसदास जैन न्यायतीर्थ।

लक्ष्मी प्रेस, देहली।



* अष्टपाहुड * —>❁❁❁<—

(१) दर्शन पाहुड

गाथा— काऊण णमुक्कारं जिणवरवसहस्स वड्डमाणस्स ।

दंसणमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेण ॥ १ ॥

छाया— कृत्वा नमस्कारं जिनवरवृषभस्य वर्द्धमानस्य ।

दर्शनमार्गं वक्ष्यामि यथाक्रमं समासेन ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीकुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि मैं आदि तीर्थंकर श्रीवृषभदेव और अन्तिम तीर्थंकर श्रीवर्द्धमानस्वामी को नमस्कार करके सम्यग्दर्शन के मार्ग को क्रमपूर्वक संक्षेप से कहूंगा ।

गाथा— दंसणमूलो धम्मो उवड्डट्ठोजिणवरेहिं सिस्साणं ।

तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिव्वो ॥ २ ॥

छाया— दर्शनमूलो धर्मः उपदिष्टः जिनवरैः शिष्याणाम् ।

तं श्रुत्वा स्वकर्णे दर्शनहीनो न वन्दितव्यः ॥ २ ॥

अर्थ—श्री जिनेन्द्रभगवान् ने गणधरादि शिष्यों के लिये दर्शनमूल धर्म का उपदेश दिया है । इसलिये हे भव्य जीवो ! उस दर्शनमूलधर्म को अपने कानों से सुनो और जो सम्यग्दर्शन रहित है उसको नमस्कार न करो ।

गाथा— दंसणभट्टा भट्टा दंसणभट्टस्स णत्थि णिव्वाणं ।

सिज्जन्ति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिज्जन्ति ॥ ३ ॥

छाया— दर्शनभ्रष्टाः भ्रष्टाः दर्शनभ्रष्टस्य नास्ति निर्वाणम् ।

सिध्यन्ति चारित्रभ्रष्टाः दर्शनभ्रष्टाः न सिध्यन्ति ॥ ३ ॥

अर्थ—जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट ही हैं । क्यों कि—जिनका सम्यग्दर्शन

नष्ट हो गया है उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है । तथा जिनका चारित्र गुण नष्ट होगया है और सम्यग्दर्शन बना हुआ है, उनको तो चारित्र की प्राप्ति होकर मोक्ष प्राप्त होसकता है, किन्तु जिनका सम्यग्दर्शन नष्ट हो गया है, उनको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

गाथा— सम्मत्तरयणभट्टा जाणंता बहुविहाई सत्थाई ।
आराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव ॥ ४ ॥
छाया— सम्यक्त्वरत्नभ्रष्टा जानन्तो बहुविधानि शास्त्राणि ।
आराधनाविरहिता भ्रमन्ति तत्रैव तत्रैव ॥ ४ ॥

अर्थ—जिन पुरुषों को सम्यग्दर्शन रूप रत्न प्राप्त नहीं हुआ है, वे अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी चार प्रकार की आराधना को प्राप्त न करने से चतुर्गतिरूप संसार में भ्रमण करते रहते हैं ॥४॥

गाथा— सम्मत्तविरहिया एं सुट्टु वि उग्गं तवं चरंता एं ।
ए ल्हंति बोहिलाहं अवि वाससहस्स कोडीहिं ॥ ५ ॥
छाया — सम्यक्त्वविरहिता एं सुष्ठु अपि उग्रं तपः चरंतोणं ।
न लभन्ते बोधिलाभं अपि वर्षसहस्सकोटिभिः ॥ ५ ॥

अर्थ—जो पुरुष सम्यक्त्वरहित हैं वे यदि भली प्रकार हजार कोटि वर्ष तक भी कठिन तपश्चरण करें तो भी उन्हें रत्नत्रय प्राप्त नहीं होता है ॥५॥

गाथा— सम्मत्तणाणदंसाणबलवीरियवड्ढमाण जे सव्वे ।
कलिकलुसपावरहिया वरणाणी होति अइरेण ॥ ६ ॥
छाया — सम्यक्त्वज्ञानदर्शनबलवीर्यवर्द्धमानाः ये सर्वे ।
कलिकलुपपापरहिताः वरज्ञानिनः भवन्ति अचिरेण ॥ ६ ॥

अर्थ—जो मनुष्य सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, बल, वीर्य आदि गुणों से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं और कलियुग के मलिन पाप से रहित हैं, वे सब थोड़े ही समय में उत्कृष्ट ज्ञानी अर्थात् केवल ज्ञानी हो जाते हैं ॥६॥

गाथा— सम्मत्तसलिलपवहो शिखं हियए पवहए जस्स ।
कम्मं बालुयवरणं बंधुच्चिय एासए तस्स ॥ ७ ॥

छाया—सम्यक्त्वसलिलप्रवाहः नित्यं हृदये प्रवर्तते यस्य ।

कर्म बालुकावरणं बद्धमपि नश्यति तस्य ॥ ७ ॥

अर्थ—जिस पुरुष के मन में हर समय सम्यक्त्वरूपी जल का प्रवाह बहता रहता है, उसका पूर्व में बँधा हुआ भी कर्मरूपी धूल का आवरण नष्ट हो जाता है ॥ ७ ॥

गाथा—जे दंसणोसु भट्टा णणोभट्टा चरित्तभट्टा य ।

एदेभट्ट विभट्टा सेसं पि जणं विणासंति ॥ ८ ॥

छाया—ये दर्शनेषु भ्रष्टाः ज्ञानेभ्रष्टाः चरित्रभ्रष्टाः च ।

पते भ्रष्टान् अपि भ्रष्टाः शेषं अपि जनं विनाशयन्ति ॥ ८ ॥

अर्थ—जो पुरुष दर्शन, ज्ञान, और चारित्र्य इन तीनों गुणों से भ्रष्ट (रहित) हैं, वे अत्यन्त भ्रष्ट (पतित) हैं। तथा वे अपने उपदेश से अन्य लोगों को भी भ्रष्ट करते हैं ॥ ८ ॥

गाथा—जां कोवि धम्मसीलो संजमतवणियमजोगगुणधारी ।

तस्स य दोस कहंता भग्गा भग्गत्तणं दिति ॥ ९ ॥

छाया—यः कोऽपि धर्मशीलः संयमतपोनियमयोगगुणधारी ।

तस्य च दोषान् कथयन्तः भग्नाः भग्नत्वं ददति ॥ ९ ॥

अर्थ—जो कोई धर्मात्मा पुरुष संयम, तप, नियम, योग आदि गुणों को धारण करता है, उसके गुणों में दोषों का आरोप करते हुए पापी पुरुष आप भ्रष्ट हैं और दूसरे धर्मात्माओं को भी भ्रष्ट करना चाहते हैं ॥ ९ ॥

गाथा—जहमूलम्मि विणट्ठे दुमस्स परिवार णत्थि परवड्डी ।

तह जिणदंसणभट्टा मूलविणट्ठा ण सिज्झंति ॥ १० ॥

छाया—यथामूले विनष्टे द्रुमस्य परिवारस्य नास्ति परिवृद्धिः ।

तथा जिनदर्शनभ्रष्टाः मूलविनष्टाः न सिध्यन्ति ॥ १० ॥

अर्थ—जैसे वृक्ष की जड़ नष्ट हो जाने पर उसकी शाखा, पत्र, फल, फूल आदि की वृद्धि नहीं होती, वैसे ही जो पुरुष जिनमत के श्रद्धान से रहित है उनका मूलधर्म नष्ट हो गया है, इसलिये वे मोक्ष रूपी फल को नहीं पाते हैं ॥ १० ॥

गाथा—जह मूलान्त्रो खंधो साहापरिवार बहुगुणो होई ।

तह जिणदंसण मूलो णिहिट्ठो मोक्खमग्गस्स ॥ ११ ॥

छाया—यथा मूलान् स्कन्धः शाखापरिवारः बहुगुणः भवति ।

तथा जिनदर्शनं मूलं निर्दिष्टं मोक्षमार्गस्य ॥ ११ ॥

अर्थ—जैम वृक्ष की जड़ से शाखा, पत्र, फल, फूल आदि बहुत गुण वाला स्कन्ध उत्पन्न होता है, वैसे ही मोक्षमार्ग का मूल कारण जिन धर्म का श्रद्धान है, ऐसा गणधरादि देवों ने कहा है । ॥ ११ ॥

गाथा—जे दंसणेसु भट्टा पाए पाडंति दंसणधराणं ।

ते होति लल्लमूआ बोही पुण दुल्लहा तेसि ॥ १२ ॥

छाया—ये दर्शनेषु भ्रष्टाः पादयोः पातयन्ति दर्शनधरान् ।

ते भवन्ति लल्लमूकाः बोधिः पुनः दुर्लभा तेषाम् ॥ १२ ॥

अर्थ—जो मिथ्यादृष्टि पुरुष सम्यग्दृष्टि जीवों को अपने चरणों में नमस्कार करते हैं, वे परभव में लूले और गूंगे होते हैं । उनको रत्नत्रय प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है । ॥ १२ ॥

गाथा—जेवि पडंति च तेसि जाणंता लज्जागरवभयेण ।

तेसि पि णत्थि बोही पावं अणुमोयमाणानं ॥ १३ ॥

छाया—येऽपि पतन्ति च तेषां जानन्तः लज्जागरवभयेन ।

तेषामपि नास्ति बोधिः पापं अनुमन्यमानानाम् ॥ १३ ॥

अर्थ—दर्शन को धारण करने वाले जो पुरुष दर्शनभ्रष्ट पुरुषों को मिथ्या दृष्टि जानते हुए भी लज्जा, गौरव और भय के कारण नमस्कार करते हैं, वे भी पाप की अनुमोदना करने के कारण रत्नत्रय को प्राप्त नहीं करते हैं ॥ १३ ॥

गाथा—दुविहं पि गंधचायं तीसुवि जोयेसुसंजमो ठादि ।

गाणम्मि करणसुद्धे उट्ठमसणे दंसणं होई ॥ १४ ॥

छाया—द्विविधः अपिग्रन्थत्यागः त्रिषु अपि योगेषु संयमः तिष्ठति ।

ज्ञाने करणशुद्धे उद्भोजने दर्शनं भवति ॥ १४ ॥

अर्थ—जहां बाह्य और अन्तरङ्ग दोनों प्रकार की परिशुद्धि का त्याग होता है, शुद्ध मन, वचन, काय से संयम पाला जाता है, कृत, कारित व अनुमोदना से

ज्ञान में विकार भाव नहीं होता है और खड़े होकर आहार किया जाता है, ऐसा मूर्तिमान् दर्शन पूजने योग्य है । ॥ १४ ॥

गाथा—सम्मत्तादो गणं गणादो सव्वभाव उवलद्धी ।

उवलद्धपयत्थे पुण सेयासेयं वियागोदि ॥ १५ ॥

छाया—सम्यक्त्वान् ज्ञानं ज्ञानात् सर्वभावोपलब्धिः ।

उपलब्धपदार्थे पुनः श्रेयो ऽश्रेयो विजानाति ॥ १५ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन से ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है और सम्यग्ज्ञान से सब पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है तथा पदार्थों के जानने से यह जीव अपनी भलाई बुराई को पहचानने लगता है । ॥ १५ ॥

गाथा—सेयासेयविदग्ह उद्धदुस्सील सोलवतो वि ।

शीलफलेण्भुदयं तत्तो पुण लहइ णिव्वाणं ॥ १६ ॥

छाया—श्रेयाऽश्रेयोवेत्ता उद्धृतदुःशील. शीलवानपि ।

शीलफलेनाभ्युदयं ततः पुनः लभते निर्वाणम् ॥ १६ ॥

अर्थ—भलाई और बुराई के मार्ग को जानने वाला पुरुष मिथ्यात्व स्वभाव को नष्ट कर सम्यक्त्व स्वभाव वाला हो जाता है तथा सम्यक्त्व के प्रभाव से ही तीर्थंकर आदि अभ्युदय पद पाकर अन्त में निर्वाण पद पाता है ॥ १६ ॥

गाथा—जिणवयणमोसहमिणं विसयमुहविरेयणं अमिदभूयं ।

जरमरणवाहिहरणं खयकरणं सव्वदुक्खाणं ॥ १७ ॥

छाया—जिनवचनमौषधमिदं विषयसुखविरेचनममृतभूतम् ।

जरामरणव्याधिहरणं क्षयकरणं सर्वदुःखानाम् ॥ १७ ॥

अर्थ—यह जिन भगवान् का वचन विषयसुख को दूर करने वाली औषधि है । तथा जन्म, बुढ़ापा, मरण आदि रोगों को हरने और सब दुःखों को नाश करने के लिये अमृत के समान है ॥१७॥

गाथा—एगं जिणम्म रुवं वीयं उक्किट्ठावयाणं तु ।

अवरट्टियाणं तइयं चउत्थ पुण लिंगदंसणं एत्थि ॥ १८ ॥

ज्ञाया— एकं जिनस्य रूपं द्वितीयं उत्कृष्टश्रावकाणां तु ।

अवरस्थितानां तृतीयं चतुर्थं पुनः लिंगदर्शनं नास्ति ॥ १८ ॥

अर्थ— जिनमत में तीन लिंग (भेष) बताये हैं । उनमें पहला तो जिनेन्द्रदेव का निर्घन्थलिंग है । दूसरा भेष उत्कृष्ट श्रावक का है और तीसरा भेष आर्यिक का है । इसके सिवाय चौथा भेष कोई नहीं है ॥ १८ ॥

गाथा— ब्रह्म दब्ब एवपयत्था पंचत्थी सत्त तच्च णिहिट्ठो ।

सहहइ ताण रूवं सो सहिट्ठी मुण्येयव्वो ॥ १९ ॥

ज्ञाया— षट् द्रव्याणि नव पदार्थाः पंचास्तिकायाः सप्ततत्त्वानि निर्दिष्टानि ।

श्रद्धधाति तेषां रूपं स सदृष्टिः ज्ञातव्यः ॥ १९ ॥

अर्थ— ब्रह्म द्रव्य, नव पदार्थ, पांच अस्तिकाय, और सात तत्व जैन शास्त्रों में बताये गये हैं । जो पुरुष इनका यथार्थ श्रद्धान करता है उसको सम्यग्दृष्टि सम्पन्ना चाहिये ॥ १९ ॥

गाथा— जीवादी सहहणं सम्मत्तं जिणवरेहि पण्णत्तं ।

ववहारा णिच्चयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥ २० ॥

ज्ञाया— जीवादीनां श्रद्धानं सम्यक्त्वं जिनवरैः प्रह्वत्तम् ।

व्यवहारात् निश्चयतः आत्मैव भवति सम्यक्त्वम् ॥ २० ॥

अर्थ— जिनेन्द्र भगवान् ने जीवादि सात तत्त्वों के श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दर्शन बताया है और केवल शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना तो निश्चय सम्यग्दर्शन है ॥ २० ॥

गाथा— एवं जिणपण्णत्तं दंसणरयणं धरेह भावेण ।

त्सारं गुणरयणत्तय सोपाणं पढम मोक्खस्स ॥ २१ ॥

ज्ञाया— एवं जिनप्रणीतं दर्शनरत्नं धरत भावेन ।

त्सारं गुणरत्नत्रये सोपानं प्रथमं मोक्षस्य ॥ २१ ॥

अर्थ— इस प्रकार जिन भगवान् का कहा हुआ सम्यग्दर्शन रत्नत्रय में उत्तम रत्न है और मोक्षमहल की पहली सीढ़ी है । इसलिये हे भव्यजीवो ! तुम इस सम्यग्दर्शन को अन्तरङ्ग भाव से (भक्तिपूर्वक) धारण करो ॥ २१ ॥

गाथा— जं सकृद् जं कीरद् जं च ण सकृद् तं च सहहर्णं ।

केवलजिणेहिं भणियं सहहमाणस्स सम्मत्तं ॥२२॥

छाया— यत् शक्नोति तत् क्रियते यत् च न शक्नुयात् तस्य च भद्धानम् ।

केवलजिनैः भणितं भद्धानस्य सम्यक्त्वम् ॥२२॥

अर्थ—ज्ञितना चारित्र धारण करने की शक्ति है उतना तो धारण करना चाहिये और बाकी का भद्धान करना चाहिए । क्योंकि जिनभगवान् ने भद्धान करने वाले के सम्यग्दर्शन बताया है ॥२२॥

गाथा— दंसणणाणचरित्ते तवविणये णिक्कालसुपसत्था ।

एदे दु वंदणीया जे गुणवादी गुणधराणं ॥२३॥

छाया— दर्शनज्ञानचारित्रे तपोविनये नित्यकालसुप्रसत्थाः ।

एते तु वन्दनीया ये गुणवादिनः गुणधराणाम् ॥२३॥

अर्थ—जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और विनय आदि में अच्छी तरह लीन हैं और आराधनाओं के धारक गुणधरादि आचार्यों का गुणगान करने वाले हैं वे ही नमस्कार करने योग्य हैं ॥२३॥

गाथा— सहजुप्पणं रूपं दट्ठुं जो मण्णए ण मच्छरिओ ।

सोसंजमपडिवणो मिच्छादट्ठी हवइ एसो ॥२४॥

छाया— सहजोत्पन्नं रूपं दृष्टुं यः मन्यते न मत्सरी ।

सः संयमप्रतिपन्नः मिथ्यादृष्टी भवति एषः ॥२४॥

अर्थ—जो जिनेन्द्रभगवान् के दिग्म्बर रूप को देखकर ईर्ष्याभाव से उसका विनय नहीं करता है वह संयम धारण करने पर भी मिथ्यादृष्टी ही है ॥२४॥

गाथा— अमराण वंदियाणं रूपं दट्ठुणं शीलसहियाणं ।

ये गारवं करंति य सम्मत्तविवज्जिया होति ॥२५॥

छाया— अमरैः वन्दितानां रूपं दृष्टुं शीलसहितानाम् ।

ये गौरवं कुर्वन्ति च सम्यक्त्वविवर्जिताः भवन्ति ॥२५॥

अर्थ—शील सहित और देवों से नमस्कार योग्य जिनेश्वर के रूप को देखकर जो पुरुष अपना गौरव रखते हैं वे भी सम्यक्त्व रहित हैं ॥२५॥

गाथा— असंजदं ण वंदे वच्छविहीणोवि तो ण वंदिज्ज ।

दोण्णिवि होति समाण। एगो वि ण संजदो होदि ॥२६॥

छाया— असंयतं न वन्देत वच्छविहीनोऽपि स न वन्द्यते ।

द्वौ अपि भवतः समानौ एकः अपि न संयतः भवति ॥२६॥

अर्थ—असंयमी को नमस्कार नहीं करना चाहिये और भावसंयमरहित बाह्य नग्न-
रूप धारण करने वाला भी नमस्कार योग्य नहीं है। क्योंकि ये दोनों संयम-
रहित होने से समान हैं, इनमें एक भी संयमी नहीं है ॥२६॥

गाथा— णवि देहो वंदिज्जइ णवि य कुलो णवि य जाइसंजुत्तो ।

को वंदमि गुणहीणो णहु सबणोणेव सावओ होइ ॥२७॥

छाया— नापि देहो वन्द्यते नापि च कुलं नापि च जातिसंयुक्तः ।

कः वन्द्यते गुणहीनः न खलु श्रमणः नैव श्रावकः भवति ॥२७॥

अर्थ—देह को कोई नमस्कार नहीं करता, उत्तम कुल और जातिसहित को भी
नमस्कार नहीं करता। सम्यग्दर्शनादि गुणरहित को कौन नमस्कार करता
है, क्योंकि इन गुणों के बिना मुनिपना और श्रावकपता नहीं
हो सकता ॥२७॥

गाथा— वंदमि तवसावण्णा सीलं च गुणं च बंभचेरं च ।

सिद्धिगमणं च तेसि सम्मत्तेण सुद्धभावेण ॥२८॥

छाया— वन्दे तपः श्रमणान् शीलं च गुणं च ब्रह्मचर्यं च ।

सिद्धिगमनं च तेषां सम्यक्त्वेन शुद्धभावेन ॥२८॥

अर्थ—श्रीकुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि मैं तप करने वाले साधुओं को, उनके मूल-
गुणों को, उत्तरगुणों को, ब्रह्मचर्य को, और मुक्तिगमन को सम्यक्त्वसहित
शुद्धभाव से नमस्कार करता हूँ ॥२८॥

गाथा—चउसट्टिचमरसहिओ चउतीसहि अइसण्हि संजुत्तो ।

अणवरबहुसत्ताहिओ कम्मक्खयकारणणिमित्तो ॥२९॥

छाया— चतुःषष्टिचमरसहितः चतुस्त्रिंशद्भिरतिशयैः संयुक्तः ।

अनवरतबहुसत्त्वहितः कर्मक्षयकारणनिमित्तः ॥२९॥

अर्थ—जो चौसठ अमरसहित हैं, चौतीस अतिशयसहित हैं, सदैव बहुत जीवों को हिल का उपदेश करने वाले हैं और कर्मक्षय के कारण हैं, ऐसे तीर्थंकर परमदेव पूजने योग्य हैं ॥२६॥

गाथा— णाणेण दंसणेण य तवेण चरियेण संजमगुणेण ।

चउहिं पि समाजोगे भोक्खो जिणसासणे दिट्ठो ॥३०॥

छाया— ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चारित्र्येण संयमगुणेन ।

चतुर्णामपि समायोगे मोक्षः जिनशासने दृष्टः ॥३०॥

अर्थ—ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र्य इन चार गुणों के संयोग से संयमगुण होता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा जिनशासन में कहा है ॥३०॥

गाथा— णाणं णरस्म सारो सारः अपि णरस्स होइ सम्मत्तं ।

सम्मत्ताओ चरणं चरणाओ होइ णिब्वाणं ॥३१॥

छाया— ज्ञानं नरस्य सारः सारः अपि नरस्य भवति सम्यक्त्वम् ।

सम्यक्त्वात् चरणं चरणात् भवति निर्वाणम् ॥३१॥

अर्थ—मनुष्य के लिये प्रथम तो ज्ञान सार है और ज्ञान से भी अधिक सम्यग्दर्शन सार है। क्योंकि सम्यक्त्व से ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान और चारित्र्य सम्यक्-चारित्र्य होता है और चारित्र्य से निर्वाण की प्राप्ति होती है ॥३१॥

गाथा— णाणम्मि दंसणम्मि य तवेण चरियेण सम्मसहियेण ।

चोएहं पि समाजोगे सिद्धा जीवा ण सन्देहो ॥ ३२ ॥

छाया— ज्ञाने दर्शने च तपसा चारित्र्येण सम्यक्त्वसहितेन ।

चतुर्णामपि समायोगे सिद्धा जीवा न सन्देहः ॥ ३२ ॥

अर्थ—ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व सहित तप और चारित्र्य इन चारों के संयोग होने पर ही जीव सिद्ध हुए हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३२ ॥

गाथा— कल्लाणपरंपरया लहंति जीवा विसुद्धसम्मत्तं ।

सम्महंसणरयणं अग्घेदि सुरासुरे लोए ॥ ३३ ॥

छाया— कल्याणपरम्परया लभन्ते जीवाः विशुद्धसम्यक्त्वम् ।

सम्यग्दर्शनरत्नं अर्घ्यते सुरासुरे लोके ॥ ३३ ॥

अर्थ—जीव विशुद्ध सम्यग्दर्शन से कल्याण की परम्परा पाते हैं । इस लिए सम्यग्दर्शनरूपी रत्न लोक में देव और दानवों के द्वारा पूजा जाता है ॥३३॥

गाथा— लद्धूण य मणुयत्तं सहियं तह उत्तमेण गुत्तेण ।

लद्धूण य सम्मत्तं अक्खयसुक्खं च मोक्खं च ॥ ३४ ॥

छाया— लब्ध्वा च मनुजत्वं सहितं तथा उत्तमेन गोत्रेण ।

लब्ध्वा च सम्यक्त्वं अक्षयसुखं च मोक्षं च ॥ ३४ ॥

अर्थ—यह जीव उत्तम गोत्र सहित मनुष्य पर्याय तथा सम्यग्दर्शन पाकर अविनाशी सुख और मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥

गाथा— विहरदि जाव जिण्णिदो सहसदुसुलक्खणेहि संजुत्तो ।

चउत्तीसअइसयजुदो सा पडिमा थावरा भणिया ॥ ३५ ॥

छाया— विहरति यावत् जिनेन्द्रः सहस्राष्टसुलक्षणैः संयुक्तः ।

चतुस्त्रिंशदतिशययुतः सा प्रतिमा स्थावरा भणिता ॥ ३५ ॥

अर्थ— केवल ज्ञान होने के बाद १००८ लक्षण और ३४ अतिशय सहित जिनेन्द्र भगवान् जितने समय तक इस लोक में विहार करते हैं, उतने समय तक उनके शरीर सहित प्रतिबिम्ब को स्थावरप्रतिमा कहते हैं ॥ ३५ ॥

गाथा— वारसविहतवजुत्ता कम्मं खविऊण बिहिवलेण स्सं ।

वोसट्ठवत्तदेहा णिव्वाणमणुत्तरं पत्ता ॥ ३६ ॥

छाया— द्वादशविधतपोयुक्ताः कर्म क्षपयित्वा विधिबलेन स्वीयम् ।

व्युत्सर्गत्यक्तदेहा निर्वाणमनुत्तरं प्राप्ताः ॥ ३६ ॥

अर्थ—जो बारह प्रकार के तप से विधिपूर्वक अपने कर्मों का नाश कर व्युत्सर्ग से शरीर को छोड़ते हैं वे सर्वोत्कृष्ट मोक्ष अवस्था को प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥



(२) सूत्र पाहुड़

गाथा— अरहंतभासियत्थं गणधरदेवेहिं गंथियं सम्मं ।
सुत्तत्थमग्गात्थं सबणा साहंति परमत्थं ॥ १ ॥

छाया— अर्हद्भाषितार्थं गणधरदेवैः प्रथितं सम्यक् ।
सूत्रार्थमार्गं गार्थं श्रमणाः साधयन्ति परमार्थम् ॥ १ ॥

अर्थ—जो अरहन्त देव के द्वारा कहा गया है, गणधरादि देवों से भलीभांति रचा गया है और सूत्र का अर्थ जानना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसे सूत्र के द्वारा मुनि मोक्ष का साधन करते हैं ॥ १ ॥

गाथा— सुत्तम्मि जं सुदिट्ठं आइरियपरंपरेण मग्गेण ।
णाऊण दुविह सुत्तं बट्टह सिवमग्ग जो भव्वो ॥ २ ॥

छाया— सूत्रे यत् सुदृष्टं आचार्यपरम्परेण मार्गेण ।
ज्ञात्वा द्विविधं सूत्रं वर्तते शिवमार्गे यः भव्यः ॥ २ ॥

अर्थ—सर्वज्ञभाषित द्वादशांग सूत्र में आचार्यों की परम्परा से जो कुछ बताया गया है उस शब्द और अर्थरूप दो प्रकार के सूत्र को जानकर जो मोक्षमार्ग में लगता है वही भव्य जीव है ॥ २ ॥

गाथा— सुत्तम्मि जाणमाणो भवस्स भवणासरां च सो कुण्णदि ।

सुई जहा असुत्ता णासदि सुत्ते सहा णोवि ॥ ३ ॥

छाया— सूत्रे ज्ञायमानः भवस्य भवनाशनं च सः करोति ।

सूची यथा असूत्रा नश्यन्ति सूत्रेण सह नापि ॥ ३ ॥

अर्थ—जो पुरुष सूत्र के जानने में चतुर है, वह संसार का नाश करता है । जैसे बिना डोरे की सुई नष्ट हो जाती और डोरे वाली सुई नष्ट नहीं होती है ॥ ३ ॥

गाथा— पुरिसो वि जो ससुत्तो ण विणासइ सो गओ वि संसारे

सच्चेयणपच्चवसं णासदि तं सो अदिसमाणो वि ॥ ४ ॥

छाया— पुरुषोऽपि यः ससूत्रः न विनश्यति स गतोऽपि संसारे ।

स्वचेतनप्रत्यक्षेण नाशयति तं सः अदृश्यमानोऽपि ॥ ४ ॥

अर्थ—जिसको अपना स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं है, वह पुरुष द्वादशांग सूत्र का ज्ञाता होकर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का अनुभव करता है । इसलिये वह गत अर्थात् नष्ट नहीं होता, किन्तु वह स्वयं प्रगट होकर संसार का नाश करता है ॥ ४ ॥

गाथा— सूत्तत्थं जिणभणियं जीवाजीवादिबहुविहं अत्थं ।

हेयाहेयं च तहा जो जाणइ सोहु सहिट्ठी ॥५॥

छाया—सूत्रार्थं जिनभणितं जीवाजीवादि बहुविधमर्थम् ।

हेयाहेयं च तथा यो जानाति स हि सदृष्टिः ॥५॥

अर्थ—जो पुरुष जिनेन्द्र भाषित सूत्र के अर्थ को, जीवाजीवादि बहुत प्रकार के पदार्थों को और इनमें त्यागने और न त्यागने योग्य पुद्गल और जीव के स्वरूप को जानता है वही वास्तव में सम्यग्दृष्टि है । ॥५॥

गाथा—जं सूत्तां जिणउत्तां ववहारो तह च जाण परमत्थो ।

तं जाणिउण जोई लहइ सुहं खवइ मलपुंज ॥६॥

छाया—यत्सूत्रं जिनोक्तं व्यवहारं तथा च जानीहि परमार्थम् ।

तन् ज्ञात्वा योगी लभते सुखं क्षिपते मलपुंजम् ॥६॥

अर्थ—जो सूत्र जिनेन्द्र भगवान् से कहा गया है उसको व्यवहार और निश्चय रूप से जानकर योगी अविनाशी सुख को पाता है और कर्मरूपी मैल के समूह को नाश करता है ॥६॥

गाथा—सूतत्थपयविणट्ठो मिच्छाइट्ठी हु सो मुण्येयव्वो ।

खेडेवि एण कायव्वं पाणिपत्तं सचेत्तस्स ॥७॥

छाया—सूत्रार्थपदविनष्टः मिथ्यादृष्टिः हि स ज्ञातव्यः ।

खेलेऽपि न कर्तव्यं पाणिपात्रं सचेत्तस्य ॥७॥

अर्थ—जो पुरुष सूत्र के अर्थ और पद में रहित है अर्थात् दिगम्बर सुदारहित है, उसे मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये। इसलिये बस्त्र सहित मुनि को हंसी में भी पाणिपात्र भोजन नहीं करना चाहिये ॥७॥

गाथा—हरिहरतुल्लोवि एणो सग्गं गच्छेइ एइ भवकोडी ।

तहवि एण पावइ सिद्धिं संसारत्थो पुणो भण्णियो ॥८॥

छाया—हरिहरतुल्यो ऽपि नरः स्वर्गं गच्छति एति भवकोटीः ।

तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनः भणितः ॥८॥

अर्थ—जो पुरुष सूत्र के अर्थ से भ्रष्ट है वह हरिहरादि के समान विभूति वाला भी स्वर्ग में उत्पन्न होता है, किन्तु मोक्ष प्राप्त नहीं करता है तथा दानादिक के फल से स्वर्ग में उत्पन्न होकर करोड़ों भव तक संसार में ही घूमता रहता है ॥८॥

गाथा—उक्कट्टसीहचरियं बहुपरियम्मो य गरुयभारो य ।

जो विहरइ सच्छन्दं पावं गच्छदि होदि मिच्छत्तं ॥९॥

छाया—उत्कृष्टसिंहचरितः बहुपरिकर्मा च गुरुभारश्च ।

यः विहरति स्वच्छन्दं पापं गच्छति भवति मिथ्यात्वम् ॥९॥

अर्थ—जो उत्कृष्ट सिंह के समान निर्भय आचरण करता है, बहुत सी तपश्चरणादि क्रिया सहित है, गुरु के पद को धारण करता है और स्वच्छन्द रूप से भ्रमण करता है वह पापी मिथ्या दृष्टि है ॥९॥

गाथा—णिच्चेत्तपाणिपत्तं उवइट्ठं परमजिणवविदेहिं ।

एक्को वि मोक्खमग्गो सेसा य अमग्गया सव्वे ॥१०॥

छाया—निश्चेलपाणिपात्रं उपदिष्टं परमजिनबरेन्द्रैः ।

एकोऽपि मोक्षमार्गः शेषाश्च अमार्गाः सर्वे ॥१०॥

अर्थ—परमोत्कृष्ट जिनेन्द्रदेव ने जो वस्त्ररहित दिगम्बर मुद्रा और पाणिपात्र
आहार करने का उपदेश दिया है, वह एक अद्वितीय मोक्षमार्ग है, शेष
सब मिथ्यामार्ग हैं ॥१०॥

गाथा—जो संजमेसु सहिओ आरंभपरिग्रहेसु विरओ वि ।

सो होइ वंदणीओ ससुरासुरमाणुसे लोए ॥११॥

छाया—यः संयमेषु सहितः आरंभपरिग्रहेषु विरतः अपि ।

सः भवति वन्दनीयः ससुरासुरमानुषे लोके ॥१२॥

अर्थ—जो सब प्रकार के संयमों को धारण करता है और समस्त आरम्भ तथा
परिग्रह से विरक्त रहता है; वही इस सुर असुर और मनुष्य सहित लोक
में नमस्कार करने योग्य है ॥११॥

गाथा—जे बावीसपरीसह सहति सत्तीसपहिं संजुता ।

ते होति वंदणीया कम्मक्खयणिज्जरा साहू ॥१२॥

छाया—ये द्वाविंशतिपरीषहान् सहन्ते शक्तिशतैः संयुक्ताः ।

ते भवन्ति वन्दनीयाः कर्मक्षयनिर्जरासाधवः ॥१२॥

अर्थ—जो मुनि सैकड़ों शक्ति सहित हैं, चुधादिक बाईस परीषहों को सहते हैं और
कर्मों के एक देश क्षयरूप निर्जरा करने में चतुर हैं, वे साधु नमस्कार
करने योग्य हैं ॥१२॥

गाथा—अवसेसा जे लिंगी दंसणणाणेण सम्म संजुत्ता ।

चेत्तेण य परिगहिया ते भणिया इच्छणिज्जाय य ॥ १३ ॥

छाया—अवशेषा ये लिंगिनः दर्शनज्ञानेन सम्यक् संयुक्ताः ।

चेत्तेन च परिगृहीताः ते भणिताः इच्छाकारयोग्याः ॥ १३ ॥

अर्थ—दिगम्बर मुद्रा के सिवाय जो अन्य लिंगी हैं अर्थात् उत्कृष्ट भावक का भेष
धारण करते हैं, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित हैं तथा वस्त्र मात्र
परिग्रह रखते हैं, वे इच्छाकार करने योग्य कहे गये हैं । अर्थात् उनको
'इच्छामि' कह कर नमस्कार करना चाहिये ॥ १३ ॥

गाथा— इच्छायारमहत्त्वं सुत्तठिञ्चो जो हु छंडए कम्मं ।

ठाणे ठियसम्मत्तं परलोयसुहं करो होई ॥ १४ ॥

छाया— इच्छाकारमहार्थं सूत्रस्थितः चः स्फुटं त्यजति कर्म ।

स्थाने स्थितसम्यक्त्वः परलोकसुखं करो भवति ॥ १४ ॥

अर्थ—जो पुरुष जिनसूत्र में स्थित होता हुआ इच्छाकार शब्द के प्रधान अर्थ को समझता है। तथा सम्यक्त्व सहित भावक की प्रतिमा को धारण करके आरंभार्थिक कार्यों का त्याग करता है, वह परलोक में स्वर्गसुख पाता है ॥१४॥

गाथा— अह पुण अप्पा णिच्छदि धम्माइं करेइ णिरवसेसाइं ।

तहवि ण पावइ सिद्धिं संसारत्थो पुणो भण्णित्थो ॥ १५ ॥

छाया— अथ पुनः आत्मानं नेच्छति धर्मान् करोति निरवशेषान् ।

तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनः भणितः ॥ १५ ॥

अर्थ—तथा जो आत्मा को नहीं चाहता है अर्थात् आत्मस्वरूप का श्रद्धान नहीं करता है और अन्य सब धर्माचरणों को पालता है, तो भी वह मोक्ष नहीं पाता है, तथा उसको संसार में ठहरने वाला बताया गया है ॥ १५ ॥

गाथा— एएण कारणेण य तं अप्पा सहहेह तिविहेण ।

जेण य लहेइ मोक्खं तं जाणिज्जइ पयत्तेण ॥ १६ ॥

छाया— एतेन कारणेन च तं आत्मानं श्रद्धन्त त्रिविधेन ।

येन च लभध्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन ॥ १६ ॥

अर्थ—इस कारण हे भव्य जीवो ! तुम मन, वचन, काय से उस आत्मा का श्रद्धान करो। क्योंकि जिस कारण से मोक्ष प्राप्त करो उसको प्रयत्नपूर्वक जानना योग्य है ॥ १६ ॥

गाथा— बालगगकोटिमत्तं परिगहगहणं ण होइ साहूणं ।

भुंजेइ पाणिपत्ते दिखण्णं इकठणम्मि ॥ १७ ॥

छाया— बालाग्रकोटिमात्रं परिग्रहग्रहणं न भवति साधुनाम् ।

भुंजीत पाणिपात्रे दत्तमन्येन एकस्थाने ॥ १७ ॥

अर्थ—जैन शास्त्र में साधुओं के लिए बाल के अग्रभाग (नोक) के बराबर भी परिग्रह नहीं बताया गया है, क्योंकि वे तो एक ही बार अपने हाथ रूपी पात्र में दूसरे का दिया हुआ प्रासुक आहार लेते हैं ॥ १७ ॥

गाथा— जहजायरुवसरिसो तिलतुसमित्तं षु गिहदि हत्तेसु ।

जइ लेइ अप्पबहुयं तत्तो पुय्य जाइ सिग्गोदं ॥ १८ ॥

छाया— यथाजातरूपसदृशः तिलतुषमात्रं न गृह्णाति हस्तयोः ।

यदि स्नाति अल्पबहुकं ततः पुनः याति निगोदम् ॥ १८ ॥

अर्थ—जो मुनि नग्नरूप दिग्म्बर मुद्रा धारण करता है, वह अपने हाथ में तिल-
तुषमात्र अर्थात् तिल के छिलके के बराबर भी परिग्रह नहीं रखता है ।
यदि थोड़ा-बहुत परिग्रह रखता है तो उसके फल से निगोद में उत्पन्न
होता है ॥ १८ ॥

गाथा—जस्स परिग्गहगहणं अप्पं बहुयं च हवइ लिंगस्स ।

सो गरहिउ जिणवयणे परिग्गहरहिओ निरायारो ॥ १९ ॥

छाया— यस्य परिग्रहग्रहणं अल्पं बहुकं च भवति लिंगस्य ।

स गह्वरः जिनवचने परिग्रहरहितः निरागारः ॥ १९ ॥

अर्थ—जिस लिंग (भेष) में थोड़ा बहुत परिग्रह ग्रहण करना बताया गया है, वह लिंग
निन्दा के योग्य है, क्योंकि जिनागम में परिग्रह रहित को निर्दोष मुनि
कहा गया है ॥ १९ ॥

गाथा— पंचमहव्वयजुत्तो तिहिं गुत्तिहिं जो स संजदो होई ।

सिग्गंथमोक्खमग्गो सो होदि हु वंदणिज्जो य ॥ २० ॥

छाया— पंचमहाव्रतयुक्तः तिसृभिः गुप्तिभिः यः संयतो भवति ।

निर्ग्रन्थमोक्षमार्गः स भवति हि वंदनीयः च ॥ २० ॥

अर्थ—जो मुनि पांच महाव्रत और तीन गुप्ति सहित है, वह संयमी होता है । वही
परिग्रह रहित मोक्ष मार्ग है और वही नमस्कार करने योग्य है ॥२०॥

गाथा— दुइयं च उत्त लिंगं उक्किट्टं अवरसावयाणं च ।

भिक्खं भमेइ पत्ते समिदीभासेण मोणेण ॥ २१ ॥

छाया— द्वितीयं चोक्तं लिंगं उत्कृष्टं अवरभावकाणां च ।

भिक्तां भ्रमति पात्रे समितिभाषेण मौनेन ॥ २१ ॥

अर्थ—ग्यारहवीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट भावको का दूसरा लिंग (भेष) बताया गया
है, जो भिक्षावृष्टि से पात्र में आहार करता है, भाषासमित्तिरूप हितकारी
प्रियवचन बोलता है, अथवा मौन धारण करता है ॥ २१ ॥

गाथा— लिंगं इत्थीण हवदि भुंजइ पिण्डं सुपयकालम्मि ।
अज्जिय वि एकवत्था वत्थावरणेण भुंजेइ ॥ २२ ॥

छाया— लिंगं स्त्रीणां भवति भुंक्ते पिण्डं स्वेककाले ।
आर्यापि एकवत्त्रा वत्थावरणेन भुंक्ते ॥ २२ ॥

अर्थ—स्त्रियों का अर्थान् आर्यिकाओं का तीसरा भेष बताया गया है । वह दिन में एक बार भोजन करती है । आर्यिका और चुल्लिका भी एक वस्त्र धारण करती है और वस्त्रसहित ही भोजन करती है ॥ २२ ॥

गाथा— एवि सिब्भइ वत्थधरो जिणसासणे जइवि होइ तित्थयरो ।
एग्गो विमोक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥२३॥

छाया—नापि सिध्यति वस्त्रधरः जिनशासने यद्यपि भवति तीर्थकरः ।
नग्नः विमोक्षमार्गः शेषा उन्मार्गकाः सर्वे ॥ २३ ॥

अर्थ—जिन शासन में ऐसा कहा है कि यदि वस्त्र धारण करने वाला तीर्थकर भी हो, तो उसको गृहस्थ अवस्था से मुक्ति नहीं हो सकती । क्योंकि नग्नपना ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब लिंग मिथ्यामार्ग हैं ॥ २३ ॥

गाथा—लिंगम्मि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खव्वेसेसु ।
भण्णिओ सुहमो काओ तासिं कह होइ पव्वजा ॥२४॥

छाया—लिंगे च स्त्रीणां स्तनान्तरे नाभिकक्षदेशेषु ।
भणितः सूक्ष्मः कायः तासां कथं भवति प्रव्रज्या ॥२४॥

अर्थ—स्त्रियों के योनि, स्तन, नाभि, कांख आदि स्थानों में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति कही गई है । इसलिये उनके महाव्रतरूप दीक्षा कैसे हो सकती है । उनके तो उपचार से ही महाव्रत कहे गये हैं ॥२४॥

गाथा— जइ दंसणेण सुद्धा उत्ता भग्गेण सावि संजुत्ता ।
घोरं चरिय चरित्तं इत्थीसु ण पावया भणिया ॥ २५ ॥

छाया— यदि दर्शनेन शुद्धा उक्ता मार्गेण सापि संयुक्ता ।
घोरं चरित्वा चरित्रं स्त्रीषु न पापका भणिता ॥ २५ ॥

अर्थ—यदि कोई स्त्री सम्यग्दर्शन से शुद्ध है तो वह भी मोक्षमार्ग में लगी हुई है ।
कठिन तपश्चरणादि चारित्र धारण करती है, इसलिये सोलहवें स्वर्ग तक जाती है, किन्तु उनके मोक्ष प्राप्ति के योग्य दीक्षा नहीं हो सकती ॥२५॥

गाथा— चित्तासोहि ण तेसिं ढिल्लं भावं तहा सहावेण ।
विज्जदि मासा तेसिं इत्थीसु ण संकया भाणा ॥ २६ ॥

छाया— चित्ताशोधि न तासां शिथिलो भावः तथा स्वभावेन ।
विद्यते मासा तासां स्त्रीषु नाशंकया ध्यानम् ॥ २६ ॥

अर्थ—स्त्रियों का मन शुद्ध नहीं होता, उनके परिणाम स्वभाव से शिथिल होते हैं और प्रत्येक महीने में रुधिरस्राव (मासिकधर्म) होता रहता है । इस कारण स्त्रियों में शंकारहित ध्यान नहीं होता, और इसीलिये मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती ॥ २६ ॥

गाथा— गाहेण अप्पगाहा समुद्वसलिते सचेत्तत्थेण ।
इच्छा जाहु णियत्ता ताह णियत्ताइं सव्वदुक्खाइं ॥२७॥

छाया— ग्राह्येण अल्पग्राह्याः समुद्रसलिते स्वचेत्तार्थेन ।
इच्छा येभ्यो निवृत्ता तेषां निवृत्तानि सर्वदुःखानि ॥२७॥

अर्थ—जो मुनि ग्रहण करने योग्य आहारादि को भी थोड़ी मात्रा में ग्रहण करते हैं, जैसे कोई पुरुष समुद्र के जल में से केवल अपना बख धोने के लिए जल ग्रहण करता है । इसी प्रकार जिन मुनियों की इच्छा दूर हो गई है, उनके सब दुःख दूर हो गये हैं ॥ २७ ॥



॥ (३) चारित्रपाहुड ॥

गाथा— सव्वणहु सव्वदंसी णिम्मोहा वीयराय परमेट्ठी ।
 वंदित्तु तिजगवंदा अरहंता भव्वजीवेहिं ॥ १ ॥
 णाणं दसणं सम्मं चारित्तं मोहिकारणं तेसिं ।
 मुक्खाराहणहेउं चारित्तं पाहुडं वोच्छे ॥ २ ॥

छाया— सर्वज्ञान् सर्वदर्शिनः निर्मोहान् वीतरागान् परमेष्ठिनः ।
 वंदित्वा त्रिजगद्वन्दितान् अर्हतः भव्यजीवैः ॥ १ ॥
 ज्ञानं दर्शनं सम्यक् चारित्रं शुद्धिकारणं तेषाम् ।
 मोक्षाराधनहेतुं चारित्रं प्राप्तुं वदये ॥ २ ॥ युग्मम् ॥

अर्थ— आचार्य कहते हैं कि मैं सब पदार्थों को जानने और देखने वाले, मोहरहित रागद्वेषरहित, उत्कृष्ट पद में स्थित, तीनों लोक के जीवों से नमस्कार करने योग्य, भव्यजीवों के द्वारा पूजनीय अर्हन्तों को नमस्कार करके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय की शुद्धता का कारण तथा मोक्ष की प्राप्ति के उपायरूप चारित्रपाहुड को कहूंगा ॥ १-२ ॥

गाथा— जं जाणइ तं णाणं जं पिच्छइ तं च दंसणं भणियं ।
 णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होइ चारित्तं ॥ ३ ॥

छाया— यज्जानाति तत् ज्ञानं यत् पश्यति तच्च दर्शनं भणितम् ।
 ज्ञानस्य दर्शनस्य च समापन्नात् भवति चारित्रम् ॥ ३ ॥

अर्थ— जो जानता है सो ज्ञान है और जो देखता है अर्थात् श्रद्धान करता है वह दर्शन कहा गया है । तथा इन दोनों के संयोग होने से चारित्र गुण प्रगट होता है ॥ ३ ॥

गाथा— एए तिण्णवि भावा हवन्ति जीवस्स अक्खयामेया ।
 तिण्हं पि सोहण्णत्थे जिण्णभणियं दुविह चारित्तं ॥ ४ ॥

छाया— एते त्रयोऽपि भावाः भवन्ति जीवस्य अक्षयाः अमेयाः ।

त्रयाणामपि शोधनार्थं जिनभणितं द्विविधं चारित्रम् ॥ ४ ॥

अर्थ— जीव के ये ज्ञानादिक तीनों भाव अक्षय और अनन्त हैं तथा इन्हीं को शुद्ध करने के लिये जिनेन्द्र देव ने दो प्रकार का चारित्र कहा है ॥ ४ ॥

गाथा— जिणणाणदिद्विसुद्धं पढमं सम्मत्तचरण चारित्तं ।

विदियं संजमचरणं जिणणाणसदेसियं तं पि ॥ ५ ॥

छाया— जिनज्ञानदृष्टिशुद्धं प्रथमं सम्यक्त्वचरणचारित्रम् ।

द्वितीयं संयमचरणं जिनज्ञानसंदेशितं तदपि ॥ ५ ॥

अर्थ— इनमें पहला तो सम्यक्त्व के आचरण रूप चारित्र है जो जिन भाषित तत्वों के ज्ञान और श्रद्धान से शुद्ध है । तथा दूसरा संयम के आचरण रूप चारित्र है, वह भी जिनेन्द्र देव के ज्ञान से उपदेश किया हुआ शुद्ध है ॥ ५ ॥

गाथा— एवं चिय णाऊण य सव्वे मिच्छत्तदोस संकाइ ।

परिहरि सम्मत्तमला जिणभणिया तिविहजोएण ॥ ६ ॥

छाया— एवं चैव ज्ञात्वा च सर्वान् मिथ्यात्वदोषान् शंकादीन् ।

परिहर सम्यक्त्वमलान् जिनभणितान् त्रिविधयोगेन ॥ ६ ॥

अर्थ— इस प्रकार सम्यक्त्वाचरणरूप चारित्र को जानकर जिन देव से कहे हुए, मिथ्यात्व के उदय से होने वाले शंकादि दोषों को तथा ३ मूढ़ता, ६ अनायतन, ८ मद आदि सम्यक्त्व के सब मलों को मन, वचन, काय से त्याग करो ॥ ६ ॥

गाथा— णिस्संकिय णिक्कंखिय णिच्चिदिग्गिद्धा अमूढदिट्ठी य ।

उवगूहणं ठिदिकरणं वच्छल्लं पहावणा य ते अट्ट ॥ ७ ॥

छाया— निःशंकितं निःकांचितं निर्बिचिकित्सा अमूढदृष्टिश्च ।

उपगूहनं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रभावना च तेऽष्टौ ॥ ७ ॥

अर्थ— निःशंकित, निःकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सव्य और प्रभावना ये सम्यग्दर्शन के न अङ्ग शंकादि दोषों के अभाव से प्रगट होते हैं ॥ ७ ॥

गाथा— तं चैव गुणविसुद्धं जिणसम्मत्तं सुमुक्खठाणाय ।
जं चरइ णाणजुत्तं पढमं सम्मत्तचरणचारित्तं ॥ ८ ॥

छाया— तच्चैव गुणविसुद्धं जिनसम्यक्त्वं सुमोक्षस्थानाय ।
यच्चरति ज्ञानयुक्तं प्रथमं सम्यक्त्वचरणचारित्रम् ॥ ८ ॥

अर्थ— वह जिन भगवान् का श्रद्धान जष निःशंकितादि गुणों से विशुद्ध होता है और यथार्थ ज्ञान के साथ आचरण किया जाता है, वह पहला सम्यक्त्वचरण चारित्र मोक्ष प्राप्ति का प्रधान उपाय है ॥ ८ ॥

गाथा— सम्मत्तचरणसुद्धा संजमचरणस्स जइ व सुपांसिद्धा ।
णाणी अमूढदिट्ठी अचिरे पार्वति णिण्वाणं ॥९॥

छाया—सम्यक्त्वचरणशुद्धाः संयमचरणस्य यदि वा सुप्रसिद्धाः ।
ज्ञानिनः अमूढदृष्टयः अचिरं प्राप्नुवन्ति निर्वाणम् ॥९॥

अर्थ—जो ज्ञानी पुरुष मूढता रहित होकर सम्यक्त्वचरण चारित्र से शुद्ध होते हैं, यदि वे संयमचरण चारित्र से भलीभांति शुद्ध हों तो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥९॥

गाथा—सम्मत्तचरणभट्टा संजमचरणं चरन्ति जे वि णरा ।
अण्णाणणाणमूढा तहवि ण पार्वति णिण्वाणं ॥१०॥

छाया—सम्यक्त्वचरणभ्रष्टाः संयमचरणं चरन्ति ये ऽपि नराः ।
अज्ञानज्ञानमूढा तथापि न प्राप्नुवन्ति निर्वाणम् ॥१०॥

अर्थ—जो पुरुष सम्यक्त्वचरण [चारित्र] से भ्रष्ट हैं और संयम का आचरण करते हैं, वे अज्ञान से मूढदृष्टि (मिथ्यादृष्टि) होते हैं, इसलिये मोक्ष नहीं पाते हैं ॥१०॥

गाथा—वच्छल्लं विणएण य अणुक्पाए सुदाणदच्छाप ।

मग्गणगुणसंस्सणाए उवगूहण रक्खणाए य ॥११॥

एएहि लक्खणेहिं य लक्खज्जइ अज्जवेहिं भावेहिं ।

जीवो आराहतो जिणसम्मत्तं अमोहेण ॥१२॥

छाया—वात्सल्यं विनयेन च अनुकम्पया सुदानदत्तया ।

मार्गगुणशंसनया उपगूहनं रक्षणेन च ॥११॥

एतैः लक्षणैः च लक्ष्यते आर्जवैः भावैः ।

जीवः आराधयन् जिनसम्यक्त्वं अमोहेन ॥१२॥

अर्थ—जिन भगवान् के श्रद्धानरूप सम्यक्त्व को मोह रहित धारण करता हुआ सम्यग्दृष्टी जीव वात्सल्य, विनय, दान करने योग्य करुणा, मोक्षमार्ग की प्रशंसा, उपगूहन, स्थितिकरण और आर्जवभाव इन चिन्हों से जाना जाता है ॥११-१२॥

गाथा—उच्छाहभावणासंपसंसेवा कुदंसणे सद्धा ।

अण्णाणामोहमग्गे कुव्वंतो जहदि जिणसम्मं ॥१३॥

छाया—उत्साहभावनासंप्रशंसासेवाः कुदर्शने श्रद्धा ।

अज्ञानमोहमार्गे कुर्वन् जहाति जिनसम्यक्त्वं ॥१३॥

अर्थ—अज्ञान और मिथ्यात्व के मार्गरूप मिथ्यामत में उत्साह, भावना, प्रशंसा सेवा और श्रद्धान करता हुआ पुरुष जिन धर्म के श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन को छोड़ देता है ॥१३॥

गाथा—उच्छाहभावणासंपसंसेवा सुदंसणे सद्धा ।

ए जहदि जिणसम्मत्तं कुव्वंतो णाणमग्गेण ॥१४॥

छाया—उत्साहभावनासंप्रशंसासेवाः सुदर्शने श्रद्धा ।

न जहाति जिनसम्यक्त्वं कुर्वन् ज्ञानमार्गेण ॥१४॥

अर्थ—समीचीन मार्ग में ज्ञानमार्ग के द्वारा उत्साह, भावना, प्रशंसा, सेवा और श्रद्धान करता हुआ पुरुष जिनमत के श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन को नहीं छोड़ता है ॥१४॥

गाथा—अण्णाणं मिच्छत्तं वज्जहि णाणे विमुद्धसम्मत्ते ।

अह मोहं सारम्भं परिहर धम्मं अहिंसाए ॥१५॥

छाया—अज्ञानं मिथ्यात्वं वर्जय ज्ञाने विशुद्धसम्यक्त्वे ।

अथ मोहं सारम्भं परिहर धर्मे अहिंसायाम् ॥१५॥

अर्थ—हे भव्य जीव ! तू ज्ञान के होने पर अज्ञान को, निर्मल सम्यग्दर्शन के होने पर मिथ्यादर्शन को और अहिंसा-लक्षण धर्म के होने पर आरम्भ सहित मोह को छोड़ दे ॥१५॥

गाथा—पव्वज्ज संगचाए पयट्ट सुतवे सुसंजमे भावे ।

होइ सुविसुद्धभाणं णिम्मोहे वीयरायत्ते ॥१६॥

छाया—प्रव्रज्यायां संगत्यागे प्रवर्तस्व सुतपसि सुसंयमे भावे ।

भवति सुविशुद्धध्यानं निर्मोहे वीतरागत्वे ॥१६॥

अर्थ—हे भव्य जीव ! तू परिग्रह के त्यागरूप दीक्षा को ग्रहण कर और उत्तम संयम रूप भाव होने पर उत्तम तप धारण कर । क्योंकि मोहरहित वीतरागभाव होने पर निर्मल ध्यान प्राप्त होता है ॥१६॥

गाथा—मिच्छादंसणमग्गे मल्लिणे अण्णाणमोहदोसेहि ।

वज्जन्ति मूढजीवा मिच्छत्ताबुद्धिउदएण ॥ १७ ॥

छाया—मिथ्यादर्शनमार्गं मल्लिने अज्ञानमोहदोषैः ।

बध्यन्ते मूढजीवाः मिथ्यात्वाबुद्ध्युदयेन ॥ १७ ॥

अर्थ—मूढ जीव अज्ञान और मिथ्यात्व के दोषों से मलिन मिथ्यामार्ग में मिथ्या-दर्शन और मिथ्याज्ञान के उदय से प्रवृत्ति करते हैं ॥ १७ ॥

गाथा—सम्मदंसण पस्सदि जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया ।

सम्मणेण य सहहदि य परिहरदि चारित्तजे दोसे ॥ १८ ॥

छाया—सम्यग्दर्शनेन पश्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपर्यायान् ।

सम्यक्त्वेन च श्रद्धयाति च परिहरति चारित्रजान् दोषान् ॥ १८ ॥

अर्थ—यह आत्मा जब समीचीन दर्शनगुण से सत्तारूप वस्तु को देखता है, सम्यग्ज्ञान से द्रव्य और पर्याय को जानता है, तथा सम्यक्त्व से यथार्थ वस्तु का अद्धान करता है, तब चारित्र के दोषों को दूर करता है ॥ १८ ॥

गाथा— एए तिष्ठिण वि भावा हवन्ति जीवस्स मोहरहियस्स ।
शियगुणमाराहंतो अचिरेण वि कम्म परिहरइ ॥ १६ ॥

छाया— एते त्रयोऽपि भावाः भवन्ति जीवस्य मोहरहितस्य ।
निजगुणमाराधयन् अचिरेणापि कर्म परिहरति ॥ १६ ॥

अर्थ—ये सम्यग्दर्शनादि तीनों भाव मिथ्यात्वरहित जीव के होते हैं । उस समय यह जीव अपने चेतनागुण का चिन्तवन करता हुआ शीघ्र ही कर्म का नाश करता है ॥ १६ ॥

गाथा— संखिज्जमसंखिज्जगुणं च संसारिमेरूमात्ता एं ।
सम्मत्तमणुचरन्ता करन्ति दुक्खक्खयं धीरा ॥ २० ॥

छाया— संख्येयामसंख्येयगुणां संसारिमेरूमात्रां एं ।
सम्यक्त्वमनुचरन्तः कुर्वन्ति दुःखक्षयं धीराः ॥ २० ॥

अर्थ— सम्यक्त्व का आचरण करते हुए धैर्यवान् पुरुष संसारी जीवों की मर्यादा रूप कर्मों की संख्यातगुणी तथा असंख्यातगुणी निर्जरा करते हैं और कर्म के उदयजनित दुःख का नाश करते हैं ॥ २० ॥

गाथा— दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे शिरायारं ।
सायारं सगन्थे परिग्गहा रहिय खलु शिरायारं ॥ २१ ॥

छाया— द्विविधं संयमचरणं सागारं तथा भवेत् निरागारम् ।
सागारं सप्रन्थे परिग्रहाद्रहिते खलु निरागारम् ॥ २१ ॥

अर्थ— संयमचरण चारित्र दो प्रकार का है, एक सागार दूसरा निरागार । इनमें से परिग्रह सहित श्रावक के सागार चारित्र होता है और परिग्रह रहित मुनि के निरागार चारित्र होता है ॥ २१ ॥

गाथा— दंसण वय सामाइय पोसह सच्चित्त रायभनो य ।

बभारंभपरिगाह अणुमण उद्विष्ट देसविरवो य ॥ २२ ॥

छाया— दर्शनं व्रतं सामायिकं प्रोषधं सच्चित्तं रात्रिभुक्तिरच ।

ब्रह्म आरंभः परिग्रहः अनुमतिः उद्विष्टः देशविरतरच ॥ २२ ॥

अर्थ— दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सच्चित्तत्याग, रात्रिभुक्तित्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग, उद्विष्टत्याग इस प्रकार ये देश-विरत के ११ भेद हैं। इन्हें ११ प्रतिमा भी कहते हैं ॥ २२ ॥

भावार्थ— अब ग्यारह प्रतिमाओं का भिन्न २ स्वरूप संक्षेप से कहते हैं—

(१) शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित अष्टमूल गुणों का धारण करना सो दर्शन-प्रतिमा है। (२) अतीचार रहित ५ अणुव्रत, ३ गुणव्रत और ४ शिक्षा-व्रतों को पालना सो व्रतप्रतिमा है। (३) तीनों कात्त विधिपूर्वक निरति-चार सामायिक करना सो सामायिक प्रतिमा है। (४) अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में कषायादि का त्याग करना सो प्रोषधोपवास प्रतिमा है। (५) कच्चे फल फूल वनस्पति आदि के खाने का त्याग करना सो सच्चित्तत्याग प्रतिमा है। (६) रात्रि में सब प्रकार के आहार का त्याग करना सो रात्रिभोजन त्याग प्रतिमा है। (७) मन वचन काय से स्त्री-मात्र का त्याग करना सो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। (८) खेती व्यापार आदि आरंभ क्रियाओं का त्याग करना सो आरंभत्याग प्रतिमा है। (९) धन-धान्यादि परिग्रह से विरक्त होना सो परिग्रहत्याग प्रतिमा है। (१०) खेती व्यापारादि तथा विवाहादि लौकिक कार्यों में अनुमति न देना सो अनुमतित्याग प्रतिमा है। (११) वन में तप करते हुए रहना, भिक्षावृत्ति से आहार लेना, और खण्डबन्ध धारण करना सो उद्विष्टत्याग प्रतिमा है।

गाथा— पंचैवगुण्वयाइं गुणव्वयाइं हवंति तह तिरिण ।

तिरुखावथ चत्तारि य संजमचरणं च सागारं ॥ २३ ॥

छाया— पंचैव अणुव्रतानि गुणव्रतानिभवन्ति तथा त्रीणि ।

शिक्षाव्रतानि चत्तारि संयमचरणं च सागारं ॥ २३ ॥

अर्थ— पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत (इस तरह यह १२ प्रकार का सागार अर्थात् भावकों का संयमचरण चारित्र्य कहलाता है ॥ २३ ॥

गाथा— स्थूले तसकायवहे थूले मोसे अदत्तथूले य ।
परिहारो परमहिला परिगहारंभ परिमाणं ॥ २४ ॥

छाया— स्थूले तसकायवहे थूलायां मृषायां अदत्तस्थूले च ।
परिहारः परमहिलायां परिग्रहारंभपरिमाणम् ॥ २४ ॥

अर्थ— त्रस जीवों के घातरूप स्थूल हिंसा का त्याग सो अहिंसागुणत्रय है । स्थूल भूठ का त्याग सो सत्यागुणत्रय है । स्थूल चोरो का त्याग सो अचौर्यागुणत्रय है । परस्त्री का त्याग सो ब्रह्मवर्यागुणत्रय है । तथा परिग्रह और आरम्भ का परिमाण सो परिग्रहापरिमाणगुणत्रय है । ये पांच अगुणत्रय हैं ॥ २४ ॥

गाथा— दिक्षिदिक्षिमाण पढमं अणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं ।
भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिण्ण ॥ २५ ॥

छाया— दिक्षिदिक्षिमाणं प्रथमं अनर्थदण्डस्य वर्जनं द्वितीयम् ।
भोगोपभोगपरिमाणं इमान्येव गुणत्रयानि त्रीणि ॥ २५ ॥

अर्थ— दिशा विदिशा में गमन का परिमाण करना सो दिग्त्रय नाम प्रथम गुणत्रय है । अनर्थ दण्ड का त्याग करना सो अनर्थदण्डत्याग नाम दूसरा गुणत्रय है । भोग और उपभोग का परिमाण करना सो तीसरा भोगोपभोग-परिमाण नामक गुणत्रय है । इस प्रकार ये तीन गुणत्रय हैं ॥ २५ ॥

गाथा— सामाइयं च पढमं विदियं च तद्देव पोसहं भणियं ।
तइयं च अतिहिपुज्जं चउत्थ सल्लेहणा अन्ते ॥ २६ ॥

छाया— सामायिकं च प्रथमं द्वितीयं च तथैव प्रोषधः भणितः ।
तृतीयं च अतिधिपूजा चतुर्थं सल्लेखना अन्ते ॥ २६ ॥

अर्थ— राग द्वेष छोड़कर सब जीवों में समता भाव रखना सो सामायिक नाम पहला शिक्षात्रय है । अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में पाप का त्याग कर प्रोषधसहित उपवास करना सो प्रोषधोपवास नाम दूसरा शिक्षात्रय है । मुनि त्यागी आदि को आहारादि देना सो अतिधि स्तकार नाम तीसरा शिक्षात्रय है । अन्त समय में काय व कषाओं का कुरा करना सो सल्लेखना नाम चौथा शिक्षात्रय है ॥ २६ ॥

गाथा— एवं सावबधम्मं संजमचरणं उदेसियं सयलं ।
सुद्धं संजमचरणं जइधम्मं शिक्कलं वोच्छे ॥ २७ ॥

छाया— एवं श्रावकधर्मं संयमचरणं उपदेशितं सकलम् ।
शुद्धं संयमचरणं यतिधर्मं निष्कलं वक्ष्ये ॥ २७ ॥

अर्थ— इस प्रकार श्रावक के धर्म सकलसंयम अर्थात् एकदेश संयम का उपदेश किया । अब यति के धर्म शुद्ध और निष्कल संयम अर्थात् पूर्णसंयम को कहूंगा ॥ २७ ॥

गाथा— पंचेदियसंवरणं पंचवया पंचविसकरियासु ।
पंच समिदि तय गुत्ती संजमचरणं गिरायारं ॥ २८ ॥

छाया— पंचेन्द्रियसंवरणं पंच व्रताः पंचविंशतिक्रियासु ।
पंच समितयः तिस्रो गुप्तयः संयमचरणं निरागारम् ॥ २८ ॥

अर्थ— पांच इन्द्रियों का जीतना, पांच व्रत, इनकी पच्चीस भावनाएं, पांच समिति और तीन गुप्ति यह निरागार अर्थात् मुनियों का संयम चरण चारित्र्य है ॥ २८ ॥

गाथा— अमणुण्यो य मणुण्यो सजीवद्वये अजीवद्वये य ।
ण करेइ रायदोसे पंचेदियसंवरो भण्णिओ ॥ २९ ॥

छाया— अमनोज्ञे च मनोज्ञे सजीवद्रव्ये अजीवद्रव्ये च ।
न करोति रागद्वेषौ पंचेन्द्रियसंवरः भणितः ॥ २९ ॥

अर्थ— इष्ट और अनिष्ट सजीव द्रव्य स्त्रीपुत्रादि तथा अजीवद्रव्य धनधान्यादि में जो रागद्वेष नहीं करता है सो पंचेन्द्रियजय कहलाता है ॥ २९ ॥

गाथा— हिंसाविरइ अहिंसा असत्तविरई अदत्तविरई य ।
तुरियं अबंभविरई पंचमं संगमि विरई य ॥ ३० ॥

छाया— हिंसाविरतिरहिंसा असत्यविरतिः अदत्तविरतिश्च ।
तुर्यं अब्रह्मविरतिः पंचमं संगे विरतिश्च ॥ ३० ॥

अर्थ— हिंसा का सर्वथा त्याग सो अहिंसा महाव्रत है । असत्य का सर्वथा त्याग सो सत्य महाव्रत है । चोरी का सर्वथा त्याग सो अचौर्य महाव्रत है । कुशील का सर्वथा त्याग सो ब्रह्मचर्य महाव्रत है । परिग्रह का सर्वथा त्याग सो परिग्रह त्याग महाव्रत है ॥ ३० ॥

गाथा— साहति जं महल्ला आयरियं जं महल्लपुण्वेहिं ।

जं च महल्लाणि तदो महठवया इत्तहे याई ॥ ३१ ॥

छाया— साधयन्ति यन्महान्तः आचरितं यन् महत्पूर्वैः ।

यच्च महान्ति ततः महाव्रतानि एतस्माद्धेतोः एतानि ॥ ३१ ॥

अर्थ— जिनको महापुरुष आचरण करते हैं, जो पहले महापुरुषों से आचरण किये गये हैं और जो स्वयं भी महान् हैं, इस लिये ये पांच महाव्रत कहलाते हैं ॥ ३१ ॥

गाथा— वयगुत्ती मणगुत्ती इरियासमिदी सुदाणणिक्वेवो ।

अवलायभोगणाए अहिंसए भावणा होति ॥ ३२ ॥

छाया— बचोगुप्तिः मनोगुप्तिः ईर्यासमितिः सुदाननिक्षेपः ।

अवलोक्यभोजनेन अहिंसायाः भावना भवन्ति ॥ ३२ ॥

अर्थ— वचन को वश में करना सो वचन गुप्ति है । मन को वश में करना सो मनोगुप्ति है । चार हाथ आगे भूमि देख कर चलना सो ईर्यासमिति है । पीछी कमण्डलु आदि को देखभाल कर रखना और उठाना सो आदान-निक्षेपण समिति है । देखभाल कर विधिपूर्वक शुद्ध आहार करना सो एषणा समिति है । ये अहिंसा महाव्रत की ५ भावना हैं ॥ ३२ ॥

गाथा— कोहभयहासलोहा मोहाविबरीयभावणा चेव ।

विदियस्स भावणाए ए पंचेव य तद्वा होति ॥ ३३ ॥

छाया— क्रोधभयहास्यलोभमोहविपरीतभावनाः चैव ।

द्वितीयस्य भावना इमाः पंचैव च तथा भवन्ति ॥ ३३ ॥

अर्थ— क्रोध का त्याग, भय का त्याग, हंसी का त्याग, लोभ का त्याग और मिथ्या-त्वभाव का त्याग ये सत्य महाव्रत की ५ भावना हैं ॥ ३३ ॥

गाथा— सुण्णायारणिवासो विमोचितावास जं परोधंच ।

एखणसुद्धिसउत्तं साहन्मीसंबिसंवादो ॥ ३४ ॥

या— शून्यागारनिवासः विमोचितावासः यत्परोधंच ।

एषणाशुद्धिसहितं साधर्मिसमविसंवादः ॥ ३४ ॥

अर्थ—सूने घर में रहना, छोड़े हुए घर में रहना, दूसरे को न रोकना, शुद्ध आहार लेना, अपने धर्म वालों से कगड़ा न करना ये आचार्य महाव्रत की ५ भावना हैं ॥३४॥

गाथा—महिलास्त्रोषणपुष्करइक्षरणससक्तवसहि विकहाहि ।
पुट्टियरसेहि विरओभावण पंचाबि तुरयम्मि ॥३५॥

छाया—महिलास्त्रोकनपूर्वरतिस्ररणसंसक्तवसतिविकथाभिः ।
पौष्टिक रसैः विरतः भावनाः पंचापि तुर्ये ॥३५॥

अर्थ—स्त्रियों को रागभाव से देखना, पहले भोगे हुए भोगों को याद करना, बस्त्री में रहना, स्त्रियों की कथा कहना, पौष्टिक भोजन करना इन पांचों विकार भावों का त्याग करना सो ब्रह्मचर्य महाव्रत की पांच भावनाएँ हैं ॥३५॥

गाथा—अपरिग्रह समणुण्येषु सहपरिसरसरूपगणेषु ।
रायदोसाईणं परिहारो भावणा हीति ॥३६॥

छाया—अपरिग्रहे समनोज्ञेषु शब्दस्पर्शरसरूपगण्वेषु ।
रागद्वेषदीनां परिहारो भावनाः भवन्ति ॥३६॥

अर्थ—इष्ट और अनिष्ट शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध इन पांच इन्द्रियों के विषयों में रागद्वेष का त्याग करना ये परिग्रह त्याग महाव्रत की पांच भावना हैं ॥३६॥

गाथा—इरियाभासा एसण जा सा आदाण चैव णिक्खेवो ।
संजमसोहिणिमित्ते खंति जिणा पंच समिदीओ ॥३७॥

छाया—ईर्या भाषा एषणा या सा आदानं चैव निक्षेपः ।
संयमशोधिनिमित्तं क्यन्ति जिनाः पंच समितीः ॥३७॥

अर्थ—प्रमाद रहित सावधानी से आगे चार हाथ जमीन देखकर चलना ईर्या समिति है। हितकारी परिमित प्रियवचन बोलना भाषा समिति है। दोष और अन्तराय टालकर कुलीन श्रावक के घर शुद्ध आहार लेना एषणा समिति है। शास्त्रपीढ़ी कमरडलु आदि देखभाल कर रखना व उठाना

आदान निक्षेपण समिति है। जन्तुरहित स्थान में मलमूत्र करना प्रतिष्ठापना समिति है। ये पांच समिति संयम की शुद्धता के लिये कारण हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान् कहते हैं ॥३७॥

गाथा—भवजणबोद्धणत्थं जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं ।
 णाणं णाणं सरूवं अप्पाणं तं वियाणोहि ॥३८॥

छाया—भव्यजनबोधनार्थं जिनमार्धं जिनवरैः यथाभणितं ।
 ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं आत्मानं तं विजानीहि ॥३८॥

अर्थ—जिन भगवान् ने जैन मार्ग में भव्य जीवों को समझाने के लिये जैसा ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप कहा है उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को हे भव्य तू भलीभांति जान ॥३८॥

गाथा—जीवाजीवविभत्तो जो जाणइ सो हवेइ सण्णाणी ।
 रायादिदोसरहिंओ जिणसासण मोक्खमग्गुत्ति ॥३९॥

छाया—जीवाजीवविभक्तं यः जानाति स भवेत् सज्ज्ञानः ।
 रागादिदोषरहितः जिनशासने मोक्षमार्ग इति ॥३९॥

अर्थ—जो पुरुष जीव और अजीव का भेद जानता है वह सम्यग्ज्ञानी होता है तथा रागद्वेषादि दोषों से रहित होता है सो जिनशासन में मोक्षमार्ग बताया गया है ॥३९॥

गाथा—इंसणणाणचरित्तं तिण्णिवि जाणोह परमसद्धाए ।
 जं जाणिऊण जोई अहरेण लहंति णिब्बाणं ॥४०॥

छाया—दर्शनज्ञानचारित्रं त्रीण्यपि जानीहि परमश्रद्धया ।
 यत् ज्ञात्वा योगिनः अचिरेण लभन्ते निर्वाणम् ॥४०॥

अर्थ—हे भव्य ! तू दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों गुणों को अत्यन्त श्रद्धापूर्वक जान । जिसको जानकर योगी लोग शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करते हैं ॥४०॥

गाथा—पाऊण णाणसलिलं णिम्मल्लसुविसुद्धभावसंजुत्ता ।
 हुंति सिंहालयवासी तिहुबणचूडामणी सिद्धा ॥ ४१ ॥

छाया— प्राप्य ज्ञानसलिलं निर्मलमुविशुद्धभावसंयुक्ताः ।

भवन्ति शिवालयवासिनः त्रिभुवनचूडामणयः सिद्धाः ॥ ४१ ॥

अर्थ— जो पुरुष ज्ञानरूपी जल को पीकर निर्मल और पवित्र भाव धारण करते हैं वे मोक्षरूपी महल में निवास करने वाले, तीनों लोक के शिरोमणि सिद्ध परमेष्ठी होते हैं ॥ ४१ ॥

गाथा— ग्राणगुणोहिं विहीणा य लंढते ते सुहृच्छ्रियं लाहं ।

इय ग्राडं गुणदोसं तं सण्णाणं वियाणोहि ॥ ४२ ॥

छाया— ज्ञानगुणैः विहीना न लभन्ते ते स्विष्टं लाभं ।

इति ज्ञात्वा गुणदोषौ तत् सद्ज्ञानं विजानीहि ॥ ४२ ॥

अर्थ— जो पुरुष ज्ञानरहित हैं वे अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं करते हैं । ऐसा जानकर हे भव्य ! तू गुण दोषों को जानने के लिये सम्यग्ज्ञान को भली प्रकार जान ॥ ४२ ॥

गाथा— चारित्तसमारूढो अष्पासु परं य ईहए गायी ।

पावइ अइरेण सुहं अणोचमं जाण णिच्छयदो ॥ ४३ ॥

छाया— चारित्रसमारूढ आत्मनि परं न ईहते ज्ञानी ।

प्राप्नोति अचिरेण सुखं अनुपमं जानीहि निश्चयतः ॥ ४३ ॥

अर्थ— जो पुरुष ज्ञानी है और चारित्र गुणसहित है वह आत्मा में परद्रव्य को नहीं चाहता है अर्थात् उनमें रागद्वेष नहीं करता है । तथा शीघ्र ही उपमारहित सुख को पाता है ऐसा निश्चयपूर्वक जानो ॥ ४३ ॥

गाथा— एवं संखेवेण य भणियं ग्राणोण वीयरयेण ।

सम्मत्तसंजमासयदुण्हं पि उदेसियं चरणं ॥ ४४ ॥

छाया— एवं संक्षेपेण च भणितं ज्ञानेन वीतरागेण ।

सम्यक्त्वसंयमाश्रयद्वयोरपि उद्देशितं चरणम् ॥ ४४ ॥

अर्थ— इस प्रकार वीतराग देव से ज्ञान के द्वारा कहे हुए सम्यक्त्व और संयम के आश्रयरूप सम्यक्त्वचरण और संयमचरण नामक दो प्रकार के चारित्र को आचार्य ने संक्षेप में उपदेश किया है ॥ ४४ ॥

गाथा— भावेह भावसुद्धं फुडु रइयं चरणपाहुडं चैव ।

लहु चउगइ चइऊणं अइरेणऽपुणं भवा होई ॥ ४५ ॥

झाया— भावयत भावशुद्धं स्फुटं रचितं चरणप्राभृतं चैव ।

लघु चतुर्गतीः त्यक्त्वा अचिरेण अपुनर्भवाः भवत ॥ ४५ ॥

अर्थ— हे भव्यजीवो ! हमने यह चारित्र पाहुड प्रगट रूप से बनाया है, उसको तुम शुद्ध भावों से विचार करो । जिससे शीघ्र ही चारों गतियों को छोड़ कर फिर संसार में जन्मधारण न करो अर्थात् मोक्ष प्राप्त करो ॥ ४५ ॥



॥ (४) बोध पाहुड ॥

गाथा— बहुसत्थअत्थजाणे संजमसम्मत्तमुद्धतवयरणे ।

वंदिता आयरिए कसायमलवज्जिदे सुद्धे ॥ १ ॥

सयलजणबोद्धणत्थं जिणमग्गे जिणवरेहिं जहभणियं ।

वुच्छामि समासेण छक्कायसुहंकरं सुणह ॥ २ ॥

छाया— बहुशास्त्रार्थज्ञायकान् संयमसम्यक्त्वशुद्धतपश्चरणान् ।

वन्दित्वा आचार्यान् कषायमलवर्जितान् शुद्धान् ॥ १ ॥

सकलजनबोधनार्थं जिनमार्गं जिनवरैः यथा भणितम् ।

वक्ष्यामि समासेन षट्कायसुखंकरं शृणु ॥ २ ॥ युग्मम् ॥

अर्थ— आचार्य कहते हैं कि मैं बहुत से शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, संयम और सम्यक्त्व से पवित्र तपश्चरण वाले, कषायरूपी मल से रहित और शुद्ध आचार्यों को नमस्कार करके, जिन भगवान के द्वारा जैनशास्त्र में छहकाय के जीवों को सुख देने वाला जैसा कथन किया गया है, उसी प्रकार सब जीवों को ज्ञान कराने के लिये बोधपाहुड नामक ग्रन्थ को संक्षेप से कहूंगा । हे भव्यजीव ! तू उसको सुन ॥ १-२ ॥

गाथा— आयदणं चेदिहरं जिणपडिमा दंसणं च जिणबिंबं ।

भणियं सुवीतरायं जिणमुद्दा णाणमादत्थं ॥ ३ ॥

अरहंतेण सुदिट्ठं जं देवं तित्थमिह य अरहंतं ।

पावज्ज गुणविमुद्धा इथ णायव्वा जहाकमसो ॥ ४ ॥

छाया— आयतनं चैत्यगृहं जिन प्रतिमा दर्शनं च जिनबिम्बम् ।

भणितं सुवीतरागं जिनमुद्रा ज्ञानमात्मार्थम् ॥ ३ ॥

अर्हता सुदृष्टं यः देवः तीर्थमिह च अर्हन् ।

प्रव्रज्या गुणविशुद्धा इति ज्ञातव्याः यथाक्रमशः ॥ ४ ॥

अर्थ— आयतन, चैत्यगृह, जिनप्रतिमा, दर्शन, रागरहित जिनबिम्ब, जिनमुद्रा, आत्मा के प्रयोजनरूप ज्ञान, देव, तीर्थ, अरहन्त और गुणों से पवित्र दीक्षा ये ग्यारह स्थान जैसे अरहन्त भगवान् ने कहे हैं उनको यथाक्रम से जानो ॥ ३-४ ॥

गाथा— मणवयणकायदन्वा आयत्ता जस्स इंदिया विसया ।
आयदणं जिणमग्गे णिहिट्टं संजयं रूवं ॥ ५ ॥

छाया— मनोवचनकायद्रव्याणि आयत्ताः यस्य ऐन्द्रियाः विषयाः ।
आयतनं जिनमार्गे निर्दिष्टं संयत रूपम् ॥ ५ ॥

अर्थ— मन वचन काय रूप द्रव्य और पांच इन्द्रिय के विषय जिसके आधीन हैं ऐसे संयमी मुनि के रूप (देह) को जैनशास्त्र में आयतन कहा गया है ॥५॥

गाथा— मय राय दोस मोहो कोहो लोहो य जस्स आयत्ता ।
पंचमहव्यधारी आयदणं महरिसी भणियं ॥ ६ ॥

छाया— मदः रागः द्वेषः मोहः क्रोधः लोभः च यस्य आयत्ताः ।
पञ्चमहाव्रतधारी आयतनं महर्षिः भणितः ॥ ६ ॥

अर्थ— मद (घमण्ड), राग, द्वेष, मोह, क्रोध और लोभ जिसके बस में होगये हैं और जो पांच महाव्रतों को धारण करता है, ऐसा महामुनि धर्म का आयतन अर्थात् निवास स्थान कहा गया है ॥ ६ ॥

गाथा— सिद्धं जस्स सदत्थं विसुद्धभाणस्स णाणजुत्तस्स ।
सिद्धायदणं सिद्धं मुणिवरवसहस्स मुणिदत्थं ॥ ७ ॥

छाया— सिद्धं धरय सदर्थं विशुद्धध्यानय ज्ञानयुक्तस्य ।
सिद्धायतनं सिद्धं मुनिवरवृषभस्य मुनितार्थम् ॥ ७ ॥

अर्थ— विशुद्ध अर्थात् शुभध्यान करने वाले, केवल ज्ञानसहित और मुनियों में श्रेष्ठ, जिसके शुद्ध आत्मा की सिद्धि हो गई है, ऐसे समस्त पदार्थों को जानने वाले केवल ज्ञानी को सिद्धायतन कहा है ॥ ७ ॥

गाथा— बुद्धं जं बोद्धंते अप्पाणं वेदयाइं अण्णां च ।
पंचमहठ्वयसुद्धं णाणमयं जाण वेदिहरं ॥ ८ ॥

छाया— बुद्धयत् बोधयन् आत्मानं चैत्यानि अन्यथा ।
पंच महाव्रतशुद्धं ज्ञानमयं जानीहि चैत्यगृहम् ॥ ८ ॥

अर्थ— जो आत्मा को ज्ञानस्वरूप जानता हुआ दूसरे जीवों को चेतना स्वरूप जानता है । ऐसे पांच महाव्रतों से शुद्ध और ज्ञानस्वरूप मुनि को हे भव्य ! तू चैत्यगृह जान ॥ ८ ॥

गाथा— वेइय वणं भोक्खं दुक्खं सुक्खं च अप्पयं तस्स ।
चेइहरं जिणमग्गे छक्कायहिंयंकरं भणियं ॥ ९ ॥

छाया— चैत्यं बन्धं मोक्षं दुःखं सुखं च आत्मकं तस्य ।
चैत्यगृहं जिनमार्गे षट्कायहितंकरं भणितम् ॥ ९ ॥

अर्थ—बन्ध, मोक्ष, सुख और दुःख के स्वरूप का जिस आत्मा को ज्ञान हो गया हो वह चैत्य है । उसका गृह (घर) चैत्यगृह कहलाता है तथा जैनमार्ग में छक्काय के जीवों की भलाई करने वाला संयमी मुनि चैत्यगृह कहा गया है ॥ ९ ॥

गाथा— सपरा जंगमदेहा दंसण्णाणेण सुद्धचरणाणं ।
णिग्गंथवीथरागा जिणमग्गे एरिसा पडिमा ॥ १० ॥

छाया— स्वपरा जंगमदेहा दर्शनज्ञानेन शुद्धचरणानाम् ।
निर्ग्रन्थवीतराणा जिनमार्गे ईदृशी प्रतिमा ॥ १० ॥

अर्थ— दर्शन और ज्ञान से निर्मल चारित्र वाले मुनियों का परिग्रह और रागद्वेष रहित अपना और दूसरे का जो चलता फिरता शरीर है सो जैनमार्ग में प्रतिमा कही गयी है ॥ १० ॥

गाथा—जं चरदि सुद्धचरणं जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं ।
सा होइ वंदणीया णिग्गंथा संजदा पडिमा ॥११॥

छाया—यः चरति शुद्धचरणं जानाति पश्यति शुद्धसम्यक्त्वम् ।

सा भवति बंदनीया निर्ग्रन्था संयता प्रतिमा ॥११॥

अर्थ—जो शुद्ध चारित्र का आचरण करता है, यथार्थ वस्तुओं को ठीक २ जानता है और शुद्ध सम्यक्त्वरूप आत्मा को देखता है, वह परिग्रह रहित संयमी मुनि का स्वरूप जंगम प्रतिमा है, तथा वही नमस्कार करने योग्य है ॥११॥

गाथा—दंसण अणंत णाणं अणंतवीरिय अणंतसुक्खाय ।

सासयसुक्ख अदेहा मुक्का कम्मट्टबंधेहिं ॥१२॥

निरुवममचलमखोहा णिम्मिविया जंगमेण रुवेण ।

सिद्धठाणम्मि ठिया बोसरपडिमाधुवा सिद्धा ॥१३॥

छाया—दर्शनं अनंतं ज्ञानं अनन्तवीर्याः अनन्तसुखाः च ।

शाश्वतसुखा अदेहा मुक्ताः कर्माष्टकबन्धैः ॥१२॥

निरूपमा अचला अक्षोभाः निर्मापिता जंगमेन रूपेण ।

सिद्धस्थाने स्थिताः व्युत्सर्गप्रतिमाध्रुवाः सिद्धाः ॥१३॥

अर्थ— जो अनन्तदर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्तवीर्य और अनन्त सुख सहित हैं, अविनाशी सुखस्वरूप हैं, देहरहित हैं, आठकर्मों के बन्धन से रहित हैं, उपमारहित हैं, चंचलतारहित हैं, अशान्तिरहित हैं, गमनरूप से बनाये गये हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, दहरहित और स्थिर हैं ऐसे सिद्ध-परमेष्ठी स्थावर अर्थात् अचल प्रतिमा हैं ॥१२-१३॥

गाथा—दंसेइ मोक्खमग्गं सम्मत्तं संयमं सुधम्मं च ।

णिग्गंथं णाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियं ॥१४॥

छाया—दर्शयति मोक्षमार्गं सम्यक्त्वं संयमं सुधर्मं च ।

निर्ग्रन्थं ज्ञानमयं जिनमार्गं दर्शनं भणितम् ॥१४॥

अर्थ—जो सम्यक्त्वरूप, संयमरूप, उत्तमधर्मरूप, परिग्रह रहित और ज्ञानरूप मोक्षमार्ग को दिखाता है ऐसे मुनि के रूप को जैनसिद्धान्त में दर्शन कहा है ॥१४॥

गाथा—जह फुल्लं गंधमयं भवदि हु खीरं स धियमयं चापि ।
तह दंसणं हि सम्मं णाणमयं होइ रुबत्थं ॥१५॥

छाया—यथा पुष्पं गन्धमयं भवति स्फुटं क्षीरं तत् घृतमयं चापि ।
तथा दर्शनं हि सम्यग्ज्ञानमयं भवति रूपस्थम् ॥१५॥

अर्थ—जैसे फूल गन्धसहित होता है और दूध घी सहित होता है । वैसे ही दर्शन (सम्यक्त्व) अन्तरंग में तो सम्यग्ज्ञानरूप है और बहिरंग में मुनि, श्रावक और आर्यिका का भेष ही दर्शन है ॥१५॥

गाथा—जिण्बिम्बं णाणमयं संजमसुद्धं सुवीतरायं च ।

जं देइ दिक्खसिक्खा कम्मक्खयकारणे सुद्धा ॥१६॥

छाया—जिनबिम्बं ज्ञानमयं संयमशुद्धं सुवीतरागं च ।

यत् ददाति दीक्षाशिक्षे कर्मक्षयकारणे शुद्धे ॥१६॥

अर्थ—जो जिनसूत्र का जाननेवाला है, संयम से शुद्ध है, रागभावरहित है तथा जो कर्मों के नाश के कारण शुद्ध दीक्षा और शिक्षा देता है, वह आचार्य जिनबिम्ब कहलाता है ॥१६॥

गाथा—तस्स य करह पणामं सर्व्वं पुज्जं च विणय वच्छल्लं ।

जस्स च दंसणं णाणं अत्थि धुवं चेरणाभावो ॥१७॥

छाया—तस्य च कुरुत प्रणामं सर्वां पूजां च विनयं वात्सल्यम् ।

यस्य च दर्शनं ज्ञानं अस्ति ध्रुवं चेतनाभावः ॥१७॥

अर्थ—जिसके निश्चय से दर्शन, ज्ञान और चेतना भाव है उस आचार्यरूप जिनबिम्ब को प्रणाम करो, सब प्रकार से उसकी पूजा करो, उसकी विनय करो, तथा उसी से शुद्ध प्रेम करो ॥१७॥

गाथा—तववयगुणेहि सुद्धो जाणदि पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं ।

अरहंतमुइ एसा दाथारी दिक्खसिक्खा य ॥१८॥

छाया—तपोव्रतगुणैः शुद्धः जानाति पश्यति शुद्धसम्यक्त्वम् ।

अर्हन्मुद्रा एषा दात्री दीक्षाशिक्षाणां च ॥१८॥

अर्थ—जो तप, व्रत और उत्तरगुणों से शुद्ध है, सब पदार्थों को ठीक ठीक जानता है तथा शुद्ध सम्यग्दर्शन को धारण करता है, ऐसा आचार्य जिनबिम्ब है। वही दीक्षा और शिक्षा देने वाली अर्हन्त की मुद्रा है ॥१८॥

गाथा— दृढसंजममुद्राए इंदियमुद्रा कषायदृढमुद्रा ।
मुद्रा इह णाणाए जिणमुद्रा एरिसाभणिया ॥१९॥

छाया— दृढसंयममुद्रयाइन्द्रियमुद्रा कषायदृढमुद्रा ।
मुद्रा इह ज्ञानेन जिनमुद्रा ईदृशी भणिता ॥१९॥

अर्थ—संयम को स्थिरता से धारण करना सो संयम मुद्रा है, इन्द्रियों को विषयों में न लगने देना सो इन्द्रिय मुद्रा है, कषायों के बस में न होना सो कषायमुद्रा है, ज्ञान के स्वरूप में लीन होना सो ज्ञानमुद्रा है। इनको धारण करनेवाले मुनि को जिनमुद्रा शब्द से कहा गया है ॥१९॥

गाथा—संजमसंजुत्तस्सय सुम्हाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स ।
णाणेण लहदि लक्खं तम्हा णाणं च णायव्वं ॥२०॥

छाया—संयमसंयुक्तरय च सुध्यानयोग्यस्य मोक्षमार्गरय ।
ज्ञानेन लभते लक्षं तस्मात् ज्ञानं च ज्ञातव्यम् ॥२०॥

अर्थ—संयमसहित, उत्तम ध्यान के योग्य मोक्षमार्ग का लक्ष्य (निशाना) आत्मा का स्वरूप ज्ञान से प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान को अवश्य जानना चाहिये ॥२०॥

गाथा—जह णवि लहदि हु लक्खं रहिओ कंडस्य वेज्जय विहीणो ।
तह णवि लक्खदि लक्खं अण्णाणी मोक्खमग्गस्स ॥२१॥

छाया—यथा नापि लभते स्फुटं लक्षं रहितः काण्डस्य वेधकविहीनः ।
तथा नापि लक्षयति लक्षं अज्ञानी मोक्षमार्गरय ॥२१॥

अर्थ—जैसे धनुष विद्या के अभ्यास रहित पुरुष बाण के ठीक निशाने को नहीं पाता है। वैसे ही अज्ञानी पुरुष मोक्षमार्ग के निशाने अर्थात् परमात्मा के स्वरूप को नहीं पाता है ॥२१॥

गाथा—खाणं पुरिसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो ।
शाणोण लहदि लक्खं लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥२२॥

छाया—ज्ञानं पुरुषस्य भवति लभते सुपुरुषो ऽपि विनयसंयुक्तः ।
ज्ञानेन लभते लक्ष्यं लक्षयन् मोक्षमार्गस्य ॥२२॥

अर्थ—ज्ञान पुरुष के होता है और विनय सहित मनुष्य ज्ञान को पाता है तथा
ज्ञान से ही मोक्षमार्ग के लक्ष्य (निशाने) परमात्मा के स्वरूप को विचारता
हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है ॥२२॥

गाथा—मइधणुहं जस्स थिरं सुद गुण बाणा सुअत्थि रयणत्तं ।
परमत्थबद्धलक्खो ण वि चुक्कदि मोक्खमग्गस्स ॥२३॥

छाया—मतिधनुर्यस्य स्थिरं श्रुतं गुणः बाणाः सुसन्ति रत्नत्रयम् ।
परमार्थबद्धलक्ष्यः नापि स्वलति मोक्षमार्गस्य ॥२३॥

अर्थ—जिसके पास मतिज्ञानरूप स्थिर (मजबूत) धनुष है, श्रुतज्ञानरूप डोरी है,
रत्नत्रय रूपी अच्छे बाण हैं, और जिसने शुद्ध आत्मा के स्वरूप को
निशाना बना लिया है, ऐसा मुनि मोक्षमार्ग से नहीं चूकता है ॥२३॥

गाथा—सो देवो जो अत्थं धम्मं कामं सुदेइ शाणं च ।
सो देइ जस्स अत्थि हु अत्थो धम्मो य पव्वज्जा ॥२४॥

छाया—स देवः यः अर्थं धर्मं कामं सुददाति ज्ञानं च ।
स ददाति यस्य अस्ति अर्थः धर्मः च प्रव्रज्या ॥२४॥

अर्थ—जो जीवों को धर्म, अर्थ (धन), काम (भोग) और मोक्ष का कार
ज्ञान देता है वह देव है । क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है वही
दूसरे को देता है । इसलिये जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की
कारण दीक्षा हो, उसको देव जानना चाहिये ॥२४॥

गाथा—धम्मो दयाविमुद्धो पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता ।
देवो ववयगमोहो उदययरो भव्वजीवाणं ॥२५॥

छाया धर्मः दयाविशुद्धः प्रव्रज्या सर्वसंगपरित्यक्ता ।
देवः व्यपगतमोहः उदयकरः भव्यजीवानाम् ॥२५॥

अर्थ—जो दया से पवित्र है वह धर्म है और जो सब परिग्रहों से रहित है वह दीक्षा है तथा जो मोह रहित और भव्य जीवों की उन्नति करने वाला है वह देव है ॥२५॥

गाथा—वयसम्मत्त विसुद्धे पंचेन्द्रियसंजदे गिरावेक्खे ।
एहाऊण मुणी तित्थे दिक्खसिक्खासुएहाणेण ॥२६॥

छाया—व्रतसम्यक्स्वविशुद्धे पंचेन्द्रियसंयते निरापेक्षे ।
स्नातु मुनिः तीर्थे दीक्षा शिक्षासुस्नानेन ॥२६॥

अर्थ—जो पांच महाव्रत और सम्यग्दर्शन से पवित्र है पांच इन्द्रियों को जीतने वाला है और इस लोक तथा परलोक के भोगों की इच्छा से रहित है ऐसे आत्मा रूप तीर्थ में मुनि को दीक्षा और शिक्षा रूप स्नान के द्वारा पवित्र होना चाहिये ॥२६॥

गाथा—जं गिम्मलं सुधम्मं सम्मत्तं संजमं तवं गाणं ।
तं तित्थं जिणमग्गे ह्वेह जदि संतभावेण ॥२७॥

छाया—यत् निर्मलं सुधर्मं सम्यक्त्वं संयमं तपः ज्ञानम् ।
तत् तीर्थं जिनमार्गे भवति यदि शान्तभावेन ॥२७॥

अर्थ—यदि शान्तभाव से निर्मल (दोष रहित) उत्तम क्षमादि धर्म, सम्यग्दर्शन, संयम, तप और ज्ञान आदि गुणों को धारण किया जाय तो इनको जैन दर्शन में असली तीर्थ बताया गया है ॥२७॥

गाथा—णामे ठवणे हि य संदब्बे भावे हि सगुणपजाया ।
चउणागदि संपदिमे भावा भावन्ति अरहंतं ॥२८॥

छाया—नाम्नि संस्थापनायां हि च सद्व्ये भावे हि सगुणपर्यायाः ।
च्यवनमागतिः संपत् इमे भावा भावयन्ति अर्हन्तम् ॥२८॥

अर्थ—नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव इनसे गुण और पर्यायों के साथ अरहन्त जाते जाते हैं तथा च्यवन (स्वर्ग नरकादि से अवतार लेना), आगति (भरतादि क्षेत्रों में आना) सम्पत् (रत्नवृष्टि आदि) ये भाव अर्हन्तपने को जताते अर्थात् निश्चय कराते हैं ॥२८॥

गाथा—दंसण अणंत णारणे भोकखो एट्टकम्मबंधेण ।
णिरुवमगुणमारूढो अरहंतो एरिसो होई ॥२६॥

छाया—दर्शनं अनन्तं ज्ञानं मोक्षः नष्टाष्टकर्मबन्धेन ।
निरूपमगुणमारूढः अर्हन् ईदृशो भवति ॥२६॥

अर्थ—जिसके दर्शन और ज्ञान अनन्त हैं, स्थितिवन्ध और अनुभाग बन्ध की अपेक्षा आठों कर्मों का बन्ध नष्ट होने से भावमोक्ष प्राप्त हो गया है तथा उपमा रहित [बेमिसाल] गुणों को धारण करता है, ऐसा शुद्ध आत्मा नाम अर्हन्त कहलाता है ॥२६॥

गाथा—जरवाहिजम्ममरणं चउगइगमणं च पुण्य पावं च ।
हंतूण दोसकम्मे हुउ णाणमयं च अरहंतो ॥३०॥

छाया—जरान्याधिजन्ममरणं चतुर्गतिगमनं च पुण्यं पापं च ।
हत्स्वा दोषकर्माणि भूतः ज्ञानमयरचारहन् ॥३०॥

अर्थ—जो बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, चारों गतियों में गमन, पुण्य और पाप प्रकृतियों का उदय तथा रागद्वेषादि दोषों को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है वह सर्वज्ञ वीतराग नाम अर्हन्त कहलाता है ॥३०॥

गाथा— गुणठाणमग्गणेहिंय पज्जत्तीपाण जीवठाणेहिं ।
ठावण पंचविहेहिं पणयठ्ठा अरहपुरिसस्स ॥ ३१ ॥

छाया— गुणस्थानमार्गणाभिः च पर्याप्तप्राणजीवस्थानैः ।
स्थापना पंचविधैः प्रणेतव्या अर्हत्पुरुषस्य ॥ ३१ ॥

अर्थ— गुणस्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण और जीवसमास इस तरह ५ प्रकार से अर्हन्त पुरुष की स्थापना करनी चाहिये ॥ ३१ ॥

गाथा— तेरहमे गुणठाणे सजोइकेवलिय होइ अरहंतो ।
चउतीस अइसयगुणा होति हु तस्सट्ट पडिद्वारा ॥ ३२ ॥

छाया— त्रयोदशे गुणस्थाने सयोगकेवलिकः भवति अर्हन् ।
चतुस्त्रिंशत् अतिशयगुणा भवन्ति स्फुटं तस्याष्टप्रातिद्वार्याणि ॥ ३२ ॥

अर्थ—तेरहवें गुणस्थान में योगसहित केवल ज्ञानी अरहन्त होता है । उसके स्पष्टरूप से ३४ अतिशय रूप गुण और ८ प्रातिहार्य होते हैं । इस तरह गुणस्थान की अपेक्षा अरहन्त की स्थापना जानना ॥

गाथा— गइ इंदियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य ।

संजम दंसण लेस्सा भविया सम्मत्त सणिए आहारे ॥ ३३ ॥

छाया— गतौ इन्द्रिये काये योगे वेदे कषाये ज्ञाने च ।

संयमे दर्शने लेश्यायां भव्यत्वे सम्यक्त्वे संखिनि आहारे ॥ ३३ ॥

अर्थ - गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार इन १४ मार्गणाओं में अरहन्त की स्थापना जाननी चाहिये ॥ ३३ ॥

गाथा— आहारो य सरीरो इंदियमणआणपाणभासा य ।

पज्जत्तिगुणसमिद्धो उत्तमदेवो हवइ अरहो ॥ ३४ ॥

छाया— आहारः च शरीरं इन्द्रियं मनः आनप्राणः भाषा च ।

पर्याप्तिगुणसमृद्धः उत्तमदेवः भवति अरहन् ॥ ३४ ॥

अर्थ—आहार, शरीर, इन्द्रिय, मन, श्वासोच्छ्वास और भाषा इन ६ पर्याप्तिरूप गुणों से परिपूर्ण उत्तमदेव अरहन्त होता है । यह पर्याप्ति की अपेक्षा अरहन्त की स्थापना है ॥ ३४ ॥

गाथा— पंचवि इंदियपाणा मणवयकाएण तिणिए बलपाणा ।

आणप्पाणप्पाणा आडगपाणेण हौति दह पाणा ॥ ३५ ॥

छाया— पंच पि इन्द्रियप्राणाः मनोवचनकायैः त्रयो बलप्राणाः ।

आनप्राणप्राणाः आयुष्कप्राणेन भवन्ति दश प्राणाः ॥ ३५ ॥

अर्थ—स्पर्शनादि पांच इन्द्रिय, मन वचन काय तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये १० प्राण होते हैं । इस तरह प्राण की अपेक्षा अरहन्त की स्थापना है ।

गाथा— मणुष्यभवे पंचिन्द्रिय जीवदृष्टोसु होइ चउदसमे ।
पदे गुणगणजुत्तो गुणमारूढो हवइ अरहो ॥ ३६ ॥

झाया— मनुजभवे पंचेन्द्रियो जीवस्थानेषु भवति चतुर्दशे ।
एतद्गुणगणयुक्तो गुणमारूढो भवति अर्हन् ॥ ३६ ॥

अर्थ— मनुष्य गति में पंचेन्द्रिय नामका चौदहवां जीवसमास है। उसमें इन गुणों के समूह सहित तेरहवें गुणस्थान का धारी मनुष्य अर्हन्त कहलाता है ॥३६

गाथा— जरवाहिदुक्खरहियं आहारणिहारवज्जियं विमलं ।
सिंहाण खेल सेओ एत्थि दुगुंछा य दोसो य ॥ ३७ ॥
दस पाणा पज्जन्ती अट्टसहस्सा य लक्खणा भणिया ।
गोखीरसंखधवलं मांसं रूधिरं च सव्वंगे ॥ ३८ ॥
एरिसगुणेहिं सव्वं अइसयवंतं सुपरिमलामोयं ।
ओरालियं च कायं णायव्वं अरहपुरिसस्स ॥ ३९ ॥

झाया— जराव्याधिदुःखरहितः आहारनीहारवर्जितः विमलः ।
सिंहाणः खेदः स्वेदः नास्ति दुर्गन्धश्च दोषश्च ॥ ३७ ॥
दश प्राणाः पर्याप्तयः अष्टसहस्राणि च लक्षणाणि भणितानि ।
गोक्षीरशंखधवलं मांसं रूधिरं च सर्वाङ्गे ॥ ३८ ॥
ईदृशगुणैः सर्वैः अतिशयवान् सुपरिमलामोदः ।
औदारिकश्च कायः ज्ञातव्यः अर्हन्तपुरुषस्य ॥ ३९ ॥

अर्थ— जो बुद्धापा, रोग आदि दुःखों से रहित है, आहार तथा मलमूत्र रहित है और जिसमें सिंहाण (नाक का मैल), थूक, पसोना, दुर्गन्ध आदि दोष नहीं हैं ।

जिसमें १० प्राण, ६ पर्याप्ति और १००८ लक्षण बताये गये हैं । तथा जिसमें सब जगह कपूर और शंख के समान सफेद खून और मांस है ।

ऐसे सब गुण और अतिशय वाला तथा अत्यन्त सुगन्धित औदारिक शरीर अरहन्त पुरुष के समझना चाहिये । इस प्रकार द्रव्य अरहन्त का वर्णन किया ॥ ३७-३८-३९ ॥

गाथा— मथरायदोसरहिञ्चो कसायमलवज्जिञ्चो य सुविसुद्धो ।
चित्तपरिणामरहितो केवलभावे मुण्येयव्वो ॥ ४० ॥

छाया— मदरागदोषरहितः कषायमलवर्जितः च सुविशुद्धः ।
चित्तपरिणामरहितः केवलभावे ज्ञातव्यः ॥ ४० ॥

अर्थ— केवल ज्ञान रूप भाव होने पर अरहन्त मद (अमण्ड), राग, द्वेषरहित,
कषायरूप मलरहित, अत्यन्त निर्मल तथा मन के विकल्प रहित होता है ।
ऐसा भाव अरहन्त जानना चाहिये ॥ ४० ॥

गाथा— सम्महंसणि पस्सइ जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया ।
सम्मत्तगुणविसुद्धो भावो अरहस्स णायव्वो ॥ ४१ ॥

छाया— सम्यग्दर्शनैः पश्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपर्यायान् ।
सम्यक्त्वगुणविशुद्धः भावः अर्हतः ज्ञातव्यः ॥ ४१ ॥

अर्थ— अरहन्त परमेष्ठी सम्यग्दर्शन गुण से अपने और दूसरे के स्वरूप को देखता
है, ज्ञान गुण से सब द्रव्य और पर्यायों को जानता है, तथा जो सम्यक्त्व
गुण से पवित्र है, ऐसा अरहन्त का भाव जानना चाहिये ॥ ४१ ॥

गाथा— सुण्णहरे तरुहिट्ठे उज्जाणे तह मसाणवासे वा ।
गिरिगुह गिरिसिहरे वा भीमवणे अहव वसिते वा ॥ ४२ ॥

सवसासत्तं तिरुथं वचचइवालत्तयं च वुत्तेहिं ।
जिणभवणं अह वेज्जं जिणमग्गे जिणवरा विति ॥ ४३ ॥
पंचमहव्ययजुत्ता पंचिंदियसंजया णिरावेक्खा ।
सज्जायभाणजुत्ता मुणिवरवसहा णिइच्छन्ति ॥ ४४ ॥

छाया— शून्यगृहे तरुमूले उद्याने तथा श्मशानवासे वा ।
गिरिगुहायां गिरिशिखरे वा भीमवने अथवा वसती वा ॥ ४२ ॥

स्ववशासक्तं तीर्थं बभ्रश्चैन्यालयत्रिकं च उक्तैः ।
जिनभवनं अथ वेध्यं जिनमार्गं जिनवरा वदन्ति ॥ ४३ ॥
पंचमहाव्रतयुक्ताः पञ्चैन्द्रियसंयताः निरपेक्षाः ।
स्वाभ्यायभ्यानयुक्ताः मुनिवरवृषभाः नीच्छन्ति ॥ ४४ ॥

अर्थ—सूने घर में, वृक्ष की जड़ (खोखल) में, उपवन में, स्मशान में, पहाड़ की गुफा में, पहाड़ की चोटी पर, भयानक वन में और वसतिक्रम में दीक्षा-सहित मुनि रहते हैं ॥४२॥

स्वाधीन मुनियों के निवास रूप तीर्थ, उनके नाम के अक्षर रूप वक्ष, उनकी प्रतिमा रूप चैत्य, प्रतिमाओं की स्थापना का स्थान रूप आलय (मन्दिर) और कहे हुये आयतनादि के साथ जिनभवन (अकृत्रिम चैत्यालय) आदि को जिनशासन में जिनेन्द्रदेव वैद्य अर्थात् मुनियों के विचरने योग्य पदार्थ कहते हैं ॥ ४३ ॥

पांच महाव्रतसहित, पांच इन्द्रियों को जीतने वाले, इच्छारहित तथा स्वाध्याय और ध्यानसहित श्रेष्ठ मुनि ऊपर कहे हुए स्थानों को निश्चय से चाहते हैं ॥ ४४ ॥

गाथा—गिहगंधमोहमुक्ता बावीसपरीसहा जियकसाया ।
पावारंभविमुक्ता पञ्चजा एरिसा भणिया ॥४५॥

छाया—गृहग्रन्थमोहमुक्ता द्वाविंशतिपरीषहा जितकषायाः ।
पापारंभविमुक्ता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥४५॥

अर्थ—जो घर के निवास और परिग्रह के मोह से रहित है, जिसमें बाईस परीषह सही जाती हैं, कषायों को जीता जाता है और पाप के आरम्भ से रहित है, ऐसी दीक्षा जिनदेव ने कही है ॥४५॥

गाथा—धणधणवत्थदाणं हिरणसयणासणाइ छत्ताई ।
कुदाणविरहरहिया पञ्चजा एरिसा भणिया ॥४६॥

छाया—धनधान्यवस्त्रदानं हिरण्यशयनासनादि छत्रादि ।
कुदानविरहरहिता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥४६॥

अर्थ—जो धन (गाय), धान्य (अन्न), वस्त्रादि के दान, सोना, चांदी, शय्या, आसन, छत्र, चमर आदि खोटे दान से रहित है, ऐसी दीक्षा कही गई है ॥४६॥

गाथा—सत्तुमित्ते य समा पसंसण्हिदा अलद्धिलद्धि समा ।
तणकणए समभावा पञ्चजा एरिसा भणिया ॥४७॥

छाया—शत्रौ मित्रे च समा प्रशंसा निन्दा अलब्धिलब्धिसमा ।

तृणे कनके समभावा प्रव्रज्या ईदृशी भण्णिता ॥४७॥

अर्थ—जहां शत्रु और मित्र में, प्रशंसा और निन्दा में, लाभ और हानि में तथा तिनके और सोने में समानभाव रहता है, ऐसी दीक्षा कही गई है ॥

गाथा— उत्तममज्जिमगेहे दरिद्रे ईसरे गिरावेक्खा ।

सव्वत्थगिहिदपिंडा पव्वज्जा एरिसा भण्णिता ॥ ४८ ॥

छाया— उत्तममध्यमगेहे दरिद्रे ईश्वरे च निरपेक्षा ।

सर्वत्र गृहीतपिंडा प्रव्रज्या ईदृशी भण्णिता ॥ ४८ ॥

अर्थ— जहां उत्तम और मध्यम घर में, दरिद्र और धनवान् में कोई भेद नहीं है, तथा सब जगह समानभाव से आहार ग्रहण किया जाता है, ऐसी जिन दीक्षा कही गई है ॥ ४८ ॥

गाथा— शिग्गंथा शिस्सगा शिम्माणासा अराय शिहोसा ।

शिम्मम शिरहंकारा पव्वज्जा एरिसा भण्णिता ॥ ४९ ॥

छाया— निर्मन्था निःसंगा निर्मानाशा अरागा निर्द्वेषा ।

निर्ममा निरहंकारा प्रव्रज्या ईदृशी भण्णिता ॥ ४९ ॥

अर्थ— जो परिग्रह रहित है, स्त्री आदि पर पदार्थ के सम्बन्ध से रहित है, मान कषाय और भोगों की आशा से रहित है, राग रहित है, द्वेष रहित है, मोहरहित और अहंकार रहित है ऐसी जिन दीक्षा कही गई है ॥ ४९ ॥

गाथा— शिएणोहा शिल्लोहा शिम्मोहा शिव्वियार शिक्कलुसा ।

शिब्भय शिरासभावा पव्वज्जा एरिसा भण्णिता ॥ ५० ॥

छाया— निःस्नेहा निर्लोभा, निर्मोहा निर्विकारा निष्कलुषा ।

निर्भया निराशभावा प्रव्रज्या ईदृशी भण्णिता ॥ ५० ॥

अर्थ— जो पर पदार्थों में राग रहित, लोभरहित, मोहभाव रहित, विकार रहित, मलिनता रहित, भय रहित और आशा के भावों से रहित है ऐसी जिन दीक्षा कही गई है ॥ ५० ॥

गाथा— जइजायरुव सरिसा अवलंबियभुय पिराउडा संता ।

परकियणिलयणिवासा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ५१ ॥

छाया— यथाजातरूपसदृशा अवलम्बितभुजा निरायुधा शान्ता ।

परकृतनिलयनिवासा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥ ५१ ॥

अर्थ— जिसमें नग्नरूप धारण किया जाता है, कायोत्सर्ग मुद्रा से ध्यान किया जाता है, जो शस्त्र रहित है, शान्तमुद्रा सहित है और जहां दूसरे के बनाये हुए वसतिघा आदि में निवास किया जाता है, ऐसी जिन दीक्षा बताई गई है ॥ ५१ ॥

गाथा— उवसमखमदमजुत्ता सरीरसंस्कारवज्जिया रुक्खा ।

मथरायदोसरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ५२ ॥

छाया— उपशमक्षमदमयुक्ता शरीरसंस्कारवर्जिता रूक्षा ।

मदरागदोषरहिता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥ ५२ ॥

अर्थ— जो कर्मों के उपशम (फल न देना), क्षमा (क्रोध न करना), दम (इन्द्रियों को जीतना) आदि परिणाम सहित है, शरीर के संस्कार (सजावट) रहित है, तेल आदि के लेपरहित है, मद, राग और द्वेष रहित है, ऐसी जिन दीक्षा कही गई है ॥ ५२ ॥

गाथा— विपरीयमूढभावा पणट्टकम्मट्ट एट्टमिच्छत्ता ।

सम्मत्तगुणविसुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ५३ ॥

छाया— विपरीतमूढभावा प्रणष्टकर्माष्टा नष्टमिध्यात्वा ।

सम्यक्त्वगुणविशुद्धा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥ ५३ ॥

अर्थ— जिसका अज्ञानभाव दूर हो गया है, जिसमें आठों कर्मों का नाश हो गया है, और सम्यग्दर्शन रूप गुण से निर्मल है, ऐसी जिन दीक्षा बताई गई है ॥ ५३ ॥

गाथा— जिणमग्गे पव्वज्जा छहसंहणण्येसु भणिय णिमांथा ।

भावंति भव्वपुरिसा कम्मक्खयकारणे भणिया ॥ ५४ ॥

छाया— जिनमार्गे प्रव्रज्या षट्संहननेषु भण्णिता निर्ग्रन्था ।

भावयन्ति भव्यपुरुषाः कर्मक्षयकारणे भण्णिता ॥ ५४ ॥

अर्थ— जिन शासन में छहों संहनन वालों के जिन दीक्षा कही गई है। वह परिग्रहरहित है और कर्मों के नाश का कारण बताई गई है। ऐसी दीक्षा को भव्य पुरुष स्वीकार करते हैं ॥ ५४ ॥

गाथा— तिलतुसमत्तणिमित्तसम बाहिरगंधसंगहो एत्थि ।

पव्वज्ज हवइ एसा जह भण्णिता सव्वदरसीहिं ॥ ५५ ॥

छाया— तिलतुषमात्रनिमित्तसमः बाह्यग्रन्थसंग्रहः नास्ति ।

प्रव्रज्या भवति एषा यथा भण्णिता सर्वदर्शिभिः ॥ ५५ ॥

अर्थ— जिसमें तिलतुषमात्र परिग्रह का कारण रागभाव और तिलतुषमात्र बाह्य परिग्रह का ग्रहण नहीं है, ऐसी दीक्षा सर्वज्ञदेव के द्वारा कही गई है ॥५५

गाथा— उवसग्गपरिसहसहा णिज्जणदेसे हि णिच्च अत्थेइ ।

सिल कट्ठे भूमितले सव्वे आरूहइ सव्वत्थ ॥ ५६ ॥

छाया— उपसर्गपरोषहसहा निर्जनदेशे हि नित्यं तिष्ठति ।

शिलायां काष्ठे भूमितले सर्वाणि आरोहति सर्वत्र ॥

अर्थ— उपसर्ग और परोषहों को सहने वाले दीक्षा सहित मुनि हमेशा निर्जन (मनुष्य रहित) स्थान में रहते हैं। तथा वहां भी शिला (पत्थर), काष्ठ (लकड़ी) और भूमि (जमीन) पर बैठते हैं ॥ ५६ ॥

गाथा— पसुमहिलसंदसंगं कुसीलसंगं ए कुणइ विकहाओ ।

सज्जयन्नाणजुत्ता पव्वज्जा एरिसा भण्णिता ॥५७॥

छाया— पशुमहिलाषण्डसंगं कुशीलसंगं न करोति विकथाः ।

स्वाध्यायध्यानयुक्ता प्रव्रज्या ईदृशी भण्णिता ॥५७॥

अर्थ— जिसमें पशु, स्त्री, नपुंसक और व्यभिचारी पुरुषों की संगति नहीं की जाती, स्त्री कथा आदि खोटी कथा नहीं कही जाती तथा जो स्वाध्याय और ध्यान सहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ॥५७॥

गाथा—तववयगुणेहि सुद्धा संजमसम्भक्तगुणविसुद्धा य ।

सुद्धा गुणेहि सुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५८॥

छाया—तपोव्रतगुणैः शुद्धा संयमसम्यक्त्वगुणविशुद्धा च ।

शुद्धा गुणैः शुद्धा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥५८॥

अर्थ—जो १२ तप, ५ महाव्रत और ८४ लाख उत्तर गुणों से शुद्ध है, संयम, सम्यक्त्व और मूलगुणों से शुद्ध है तथा जो दीक्षा के गुणों से शुद्ध है, ऐसी शुद्ध दीक्षा कही गई है ॥५८॥

गाथा—एवं आयत्तणगुणपज्जत्ता बहुविसुद्धसम्भक्ते ।

णिग्गन्थे जिणमग्गे संखेवेणं जहाखादं ॥५९॥

छाया—एवं आत्मत्वगुणपर्याप्ता बहुविशुद्धसम्यक्त्वे ।

निर्ग्रन्थे जिनमार्गे संक्षेपेण यथाख्यातम् ॥५९॥

अर्थ—इस प्रकार आत्मभावना के गुणों से परिपूर्ण दीक्षा निर्मल सम्यक्त्व सहित और परिग्रह रहित जैसी जिनमार्ग में प्रसिद्ध है, वैसी संक्षेप में कही गई ॥५९॥

गाथा—रूपस्थं सुद्धत्थं जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणियं ।

भव्वजणबोहणत्थं छक्कायहितंकरं उत्तं ॥६०॥

छाया - रूपस्थं शुद्धयर्थं जिनमार्गे जिनवरैः यथा भणितम् ।

भव्यजनबोधनार्थं षट्कायहितंकरं उक्तम् ॥६०॥

अर्थ—जिन भगवान् ने जिन शासन में कर्मों के स्वरूप शुद्धि के लिये जैसा निर्ग्रन्थ रूप मोक्षमार्ग कहा है, छहकाय के जीवों का हित करने वाले उस मार्ग को मैंने भव्य जीवों को समझाने के लिये कथन किया ॥६०॥

गाथा—सद्वियारो हूओ भासामुत्तेसु जं जिणे कहियं ।

सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्दवाहुस्स ॥६१॥

छाया—शब्दविकारो भूतः भाषासूत्रेषु यज्जिनेन कथितम् ।

तत् तथा कथितं ज्ञातं शिष्येण च भद्रबाहोः ॥६१॥

अर्थ—शब्द के विकार से उत्पन्न हुआ जैसा शास्त्र भाषा सूत्रों में जिनेन्द्रदेव ने कहा है, श्रीभद्रबाहु के शिष्य विशाखाचार्य के द्वारा जाना हुआ वैसा ही अर्थ हमने कहा है, अपनी बुद्धि से कल्पना करके नहीं कहा है ॥६१॥

गाथा—बारसअंगवियाणं चउदसपुव्वंगविउलवित्थरणं ।

सुयणाणिभद्रबाहू गमयगुरु भयवओ जवओ ॥६२॥

छाया—द्वादशांगविज्ञानः चतुर्दशपूर्वांगविपुलविस्तरणः ।

श्रुतज्ञानिभद्रबाहुः गमकगुरुः भगवान् जयतु ॥६२॥

अर्थ—द्वादशांग के जानने वाले, १४ पूर्वों के बड़े विस्तार को समझने वाले, सूत्र के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वालों में प्रधान, श्रुतकेवली भगवान् भद्रबाहु जयवन्त हों ॥६२॥



(५) भावपाहुड़

गाथा— एमिऊण जिणवरिंदे णरसुरभवणिंदवदिप सिद्धे ।
वोच्छामि भावपाहुडमवसेसे संजदे सिरसा ॥ १ ॥

छाया— नमस्कृत्य जिनघरेन्द्रान् नरसुरभवनेन्द्रवन्दितान् सिद्धान् ।
वक्ष्यामि भावप्राभृतमवशेषान् संयतान् शिरसा ॥ १ ॥

अर्थ— आचार्य कहते हैं कि मैं चक्रवर्ती, इन्द्र और धरणेन्द्र आदि से नमस्कार करने योग्य अरहन्तों को, सिद्धों को तथा शेष आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधुओं को इस प्रकार पांचों परमेश्वरों को मस्तक से नमस्कार करके भावप्राभृत नामक ग्रन्थ को कहूंगा ॥

गाथा— भावोहि पढमलिंगं ण दव्वलिंगं च जाण परमथं ।
भावो कारणभूदो गुणदोषाणां जिणा विंति ॥ २ ॥

छाया— भावो हि प्रथमलिंगं न द्रव्यलिंगं च जानीहि परमार्थम् ।
भावः कारणभूतः गुणदोषाणां जिना विदन्ति ॥ २ ॥

अर्थ— जिन दोक्षा का प्रथम चिन्ह भाव ही है, इस लिये हे भव्य ! तू द्रव्यलिंग को परमार्थरूप मत जान, क्योंकि गुण और दोषों के उत्पन्न होने का कारण भाव ही है ऐसा जिनेन्द्र भगवान् कहते हैं ।

गाथा— भावविसुद्धिणिमित्तं बाहिरगंथस्स कीरण चाओ ।
बाहिरचाओ विहलो अब्भतरगंथजुत्तस्स ॥ ३ ॥

छाया— भावविशुद्धिनिमित्तं ब्राह्मग्रन्थस्य क्रियते त्यागः ।
बाह्यत्यागः विफलः अभ्यन्तरग्रन्थयुक्तस्य ॥ ३ ॥

अर्थ— आत्मा के भावों को शुद्ध करने के लिये धनधान्यादि बाह्य परिग्रह का त्याग किया जाता है, इस लिये रागद्वेषादि अन्तरङ्ग परिग्रह सहित जीव के बाह्य परिग्रह का त्याग व्यर्थ ही है।

गाथा— भावरहिञ्चो ण सिञ्जइ जइ वि तवं चरइ कोडिकोडीञ्चो ।
जन्मंतराइ बहुसो लंबियहत्थो गलियवत्थो ॥ ४ ॥

छाया— भावरहितः न सिद्धयति यद्यपि तपश्चरति कोटिकोटी ।
जन्मान्तराणि बहुशः लम्बितहस्तः गलितवस्त्रः ॥ ४ ॥

अर्थ— आत्मा की भावनारहित जीव यदि करोड़ों जन्म तक भुजाओं को लटका कर तथा वस्त्रों को त्याग तपश्चरण भी करे तो भी वह मोक्ष नहीं पाता है। इस लिये भाव ही मोक्ष प्राप्ति का मुख्य कारण है ॥

गाथा— परिणामम्मि असुद्धे गंथे मुंचेइ बाहिरे य जई ।
बाहिरगंथञ्चाञ्चो भावविहणस्म किं कुणइ ॥ ५ ॥

छाया— परिणामे अशुद्धे ग्रन्थान् मुञ्चति बाह्यान् चयदि ।
बाह्यग्रन्थत्यागः भावविहीनस्य किं करोति ॥ ५ ॥

अर्थ— यदि जिन लिंगधारी मुनि अशुद्ध परिणाम हाने हुए बाह्य परिग्रह का त्याग करता है, तो आत्मा की भावनारहित मुनि का वह बाह्य परिग्रह का त्याग कर्मों की निर्जरा आदि किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं करता है ॥

गाथा— जाणहि भावं पढमं किं ते लिंगेण भावरहिण्ण ।
पंथिय ! शिवपुरिपंथं जिणउवडडुं पयत्तेण ॥ ६ ॥

छाया— जानीहि भावं प्रथमं किं ते लिंगेन भावरहितेन ।
पथिक ! शिवपुरीपन्थः जिनोपदिष्टः प्रयत्नेन ॥ ६ ॥

अर्थ— हे पथिक ! शिवपुरी का मार्ग जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रयत्नपूर्वक बताया गया भाव ही है, इसलिए तू भाव ही का मोक्ष का मुख्य कारण जान। क्योंकि भावरहित द्रव्यलिंग (नग्नमुद्रा) धारण करने से तेरा क्या कार्य सिद्ध हो सकता है अर्थात् कुछ भी नहीं ॥

गाथा— भावरहिण्य सपुरिस अण्डकालं अणंतसंसारे ।

गह्विउज्झियाइं बहुसो बाहिरणिमांथरूवाइं ॥ ७ ॥

छाया— भावरहितेन सत्पुरुष ! अनादिकालं अनन्तसंसारे ।

गृहीतोऽज्झितानि बहुशः बाह्यनिर्ग्रन्थरूपाणि ॥ ७ ॥

अर्थ— हे सत्पुरुष ! आत्मस्वरूप की भावनारहित तूने अनादि काल से इस अनन्त संसार में बाह्य निर्ग्रन्थरूप (द्रव्यलिंग) अनेक बार ग्रहण किये और ढिंढे हैं ॥

गाथा— भीषणणरयगईए तिरियगईए कुदेवमणुगइये ।

पत्तोसि तिब्बदुक्खं भावहि जिणभावणा जीव ! ॥

छाया— भीषणनरकगतौ तिर्यग्गतौ कुदेवमनुष्यगत्योः ।

प्राप्नोऽसि तीव्रदुःखं भावय जिनभावनां जीव ! ॥ ८ ॥

अर्थ— हे जीव ! तूने भयानक नरकगति में, तिर्यग्गति में, नीच देवों और नीच मनुष्यों में बहुत कठोर दुःख पाये हैं । इसलिए अब तू आत्मा के स्वरूप का चिन्तन कर, जिससे तेरे सांसारिक दुःखों का अन्त हो ॥ ८ ॥

गाथा— सत्तसु णरयावासे दारुणभीमाइं अमहणीयाइं ।

भुत्ताइं सुइरकालं दुक्खवाइं णिरंतरं सहियाइं ॥ ९ ॥

छाया— सप्तसु नरकावासेषु दारुणभीषणानि असहनोयानि ।

भुक्तानि सुचिरकालं दुःखानि निरन्तरं सोढानि ॥ ९ ॥

अर्थ— हे जीव ! तूने सात नरकभूमियों के बिलों में बहुत भयानक और न सहने योग्य दुःख बहुत समय तक लगातार भोगे और सहे ॥ ९ ॥

गाथा— खणणुत्तावणधालणवेयणविच्छेयणाणिरोंहं च ।

पत्तोसि भावरहिओ तिरियगईए चिरं कालं ॥ १० ॥

छाया— खननोत्तापन्नज्वालनव्यजनविच्छेदनानिरोधं च ।

प्राप्नोऽसि भावरहितः तिर्यग्गतौ चिरं कालम् ॥ १० ॥

अर्थ— हे जीव ! आत्मा की भावना रहित तूने तिर्यग्गति में बहुत काल तक अनेक दुःख पाये ॥

भावार्थ—पृथ्वीकाय में कुदाल फावड़ा आदि से खोदने से, जलकाय में तपाने से, अग्निकाय में बुझाने से, वायुकाय में हिलाने फटकारने से, वनस्पति काय में छेदने, पकाने से, और त्रसकाय में मारने बांधने आदि से बहुत दुःख पाये ॥ १० ॥

गाथा— आगन्तुक माणसियं सहजंशारीरियं च चत्वारि ।

दुःखाइं मणुयजन्मे पत्तोसि अणंतयं कालं ॥ ११ ॥

छाया— आगन्तुकं मानसिकं सहजं शारीरिकं च चत्वारि ।

दुःखानि मनुजजन्मनि प्राप्तोऽसि अनन्तकं कालम् ॥ ११ ॥

अर्थ— हे जीव ! तूने मनुष्य गति में अनन्त काल तक आगन्तुक आदि चार प्रकार के दुःख पाये हैं ॥

भावार्थ—अकस्मात् बिजली गिरने आदि के दुःख को आगन्तुक कहते हैं । इच्छित वस्तु न मिलने पर जो दुःख होता है उसे मानसिक कहते हैं । ज्वरादि रोगों के दुःख को सहज कहते हैं । तथा शरीर के छेदने आदि के दुःख को शारीरिक दुःख कहते हैं । इस प्रकार अनेक दुःख मनुष्य गति में प्राप्त होते हैं ।

गाथा— सुरणिलयेसु सुरच्छरविश्रोयकाले य माणसं तिष्वं ।

संपत्तोसि महाजस दुःखं सुहभावणारहिश्रो ॥ १२ ॥

छाया— सुरनिलयेषु सुराप्सरावियोगकाले च मानसं तीव्रम् ।

संप्राप्तोऽसि महायशः ! दुःखं शुभभावनारहितः ॥ १२ ॥

अर्थ— हे महायश के धारक ! तूने उत्तम भावना रहित होकर स्वर्गलोक में देव और देवियों के वियोग होने पर बहुत अधिक मानसिक दुःख पाया ॥१२॥

गाथा— कंदप्पमाइयाओ पंचवि असुहादिभावणां य ।

भाऊण दव्वलिंगी पहीणदेवो दिवे जाओ ॥ १३ ॥

छाया— कान्दर्पात्यादीः पंचापि अशुभादिभावनाः च ।

भावयित्वा द्रव्यलिंगी प्रहीणदेवः दिवि जातः ॥ १३ ॥

अर्थ—हे जीव ! तू द्रव्यलिंगी होकर कान्दर्पी, कित्तिविकी, संमोही, दानवी और आभियोगिकी आदि पांच अशुभ भावनाओं का चिन्तन करके स्वर्गलोक में नीच देव हुआ ॥ १३ ॥

गाथा— पास्त्यभाषणाओ अणाइकालं अण्येवाराओ ।

भाऊण दुहं पत्तो कुभावणाभावबीएहिं ॥ १४ ॥

छाया— पार्श्वस्थभावनः अनादिकालं अनेकवारान् ।

भावयित्वा दुःखं प्राप्तः कुभावनाभावबीजैः ॥ १४ ॥

अर्थ— हे जीव ! तूने अनादिकाल से अनन्त बार पार्श्वस्थ, कुशील, संसक्त, अवसन्न और मृगचारी आदि भावनाओं का चिन्तवन करके खोटी भावनाओं के परिणामरूप बीजों से बहुत दुःख पाया ॥ १४ ॥

गाथा— देवाण गुण विहूई इड्ठी माहप्प बहुविहं दट्ठं ।

होऊण हीणदेवो पत्तो बहुमाणसं दुक्खं ॥ १५ ॥

छाया— देवानां गुणान् विभूतीः ऋद्धीः माहात्म्यं बहुविधं दृष्ट्वा ।

भूत्वा हीनदेवः प्राप्तः बहु मानसं दुःखम् ॥ १५ ॥

अर्थ— हे जीव ! तूने नीच देव होकर अन्य बड़ी ऋद्धि वाले देवों के गुण (अणिमादि), विभूति (धनादि), और ऋद्धि (इन्द्राणी आदि) की महिमा को बहुत प्रकार देख कर बहुत अधिक मानसिक दुःख पाया ॥ १५ ॥

गाथा— च उविहविकहासत्तो मयमत्तो असुहभावपयडत्थो ।

होऊण कुदेवत्तं पत्तोसि अण्येवाराओ ॥ १६ ॥

छाया— चतुर्विधविकथासक्तः मदमत्तः अशुभभावप्रकटार्थः ।

भूत्वा कुदेवत्त्वं प्राप्तः असि अनेकवारान् ॥ १६ ॥

अर्थ— हे जीव ! तू चार प्रकार की विकथाओं (स्त्री, भोजन, राज, चोर) में आसक्त होकर, आठ मर्दों से उन्मत्त होकर, और अशुभ भावनाओं का प्रयोजन धारण करके अनेक बार भवनवासी आदि नीच देवों में उत्पन्न हुआ ॥ १६ ॥

गाथा— असुहीवीहत्थेहि य कलिमलबहुलाहि गन्भवसहीहि ।

वसिओसि चिरं कालं अण्येजणणीण मुण्णिपवर ॥ १७ ॥

छाया— अशुचिबीभत्सासु च कलिमलबहुलासु गर्भवसतिषु ।

उषितोऽसि चिरं कालं अनेक जननीनां मुनिप्रवर ! ॥ १७ ॥

अर्थ— हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम अनेक माताओं के अपवित्र, घिनावने और पापरूप मल में मलिन गर्भ स्थानों में बहुत समय तक रहे हो ॥ १७ ॥

गाथा— पीओसि थण्छ्ठीरं अणंतजन्मंतराहं जणणीणं ।
अणणणणण महाजस सायरसलिलादु अहियपरं ॥ १८ ॥

छाया— पीतोऽसि स्तनक्षीरं अनन्तजन्मन्तराणि जननीनाम् ।
अन्यासामन्यासां महायशः । सागरसलिलादधिकतरम् ॥ १८ ॥

अर्थ— हे महायश वाले मुनि ! तुमने अनन्त जन्मों में भिन्न २ माताओं के स्तन का दूध इतना अधिक पीया कि यदि वह इकट्ठा किया जाय तो समुद्र के जल से भी बहुत अधिक हो जाय ॥

गाथा— तुह मरणे दुक्खेण अणणणणणं अण्यजणणीणं ।
रूणणणणण णयणणीरं सायरसलिलादु अहिययरं ॥ १९ ॥

छाया— तव मरणे दुःखेन अन्यासामन्यासां अनेकजननीनाम् ।
रूदितानां नयननीरं सागरसलिलान् अधिकतरम् ॥ १९ ॥

अर्थ— हे मुनि ! तुम्हारे मरने के दुःख से भिन्न २ जन्मों में भिन्न २ माताओं के रौने में उत्पन्न आंसुओं के आंसु यदि इकट्ठे किये जायं तो समुद्र के जल से भी अनन्तगुणो हो जायं ॥ १९ ॥

गाथा— भवसायरे अणते छिण्णुविभयकेसणहरणालट्ठी ।
पुंजइ जइ कोवि जए हवदि य गिरिसमधिया रासी ॥ २० ॥

छाया— भवसागरे अनन्ते छिन्नोष्णितकेशनखरनालारथीनि ।
पुञ्जयति यदि कोऽपि देवः भवति च गिरिसमधिका राशिः ॥ २० ॥

अर्थ— हे मुनि ! इस अनन्त संसार समुद्र में तुम्हारे शरीर के कटे और छोड़े हुए बाल, नाखून, नाल और हड्डी आदि को यदि कोई देव इकट्ठा करे तो मेरू पर्वत से ऊँचा ढेर जाय ॥ २० ॥

गाथा—जलथलसिद्धिपबणंबरगिरिसरिदरितरुवणाई सव्वत्तो ।
वसिओसि चिरं कालं तिहुवणमज्जे अणप्पवसो ॥२१॥

छाया—जलस्थलशिल्पिपबनाम्बरगिरिसरिदरीतरुवनादिषु सर्वत्र ।
उषितोऽसि चिरं कालं त्रिभुवनमध्ये ऽनात्मवशः ॥२१॥

अर्थ—हे जीव ! तूने आत्मभावना के बिना पराधीन होकर तीन लोक में जल, स्थल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, नदी, गुफा, वृक्ष और वन आदि सभी स्थानों में बहुत काल तक निवास किया ॥२१॥

गाथा—गसियाई पुग्गलाइं भुवणोदरवत्तियाई सव्वाइं ।
पत्तोसि तो ण तित्तिं पुणरुवं ताइं भुंजतो ॥२२॥

छाया—प्रसिताः पुद्गलाः भुवनोदरवर्तिनः सर्वे ।
प्राप्तोऽसि तन्न वृत्तिं पुनारूपं तान् भुञ्जानः ॥२२॥

अर्थ—हे जीव ! तूने इस लोक में स्थित सभी पुद्गल परमाणुओं को भक्षण (प्रहण) किया तथा उनको बार २ भोगता हुआ भी सन्तुष्ट नहीं हुआ ॥२२॥

गाथा—तिहुयणसलिलं सयलं पीयं तिण्हाये पीडिएण तुमे ।
तोवि ण तिण्हाच्छेओ जाओ चित्तेह भवमहणं ॥२३॥

छाया—त्रिभुवन सलिलं सकलं पीतं वृष्ण्या पीडितेन त्वया ।
तदपि न वृष्णाच्छेदो जातः चिन्तय भवमथनम् ॥२३॥

अर्थ—हे जीव ! तूने वृष्णा (प्यास) से दुःखी होकर तीनों लोकों का सारा जल पी लिया तो भी तेरी वृष्णा (प्यास) नहीं मिटी । इसलिए संसार का नश करने वाले रत्नत्रय का विचार कर ॥२३॥

गाथा—गद्धि उज्झियाईं मुणिवर कलेवराइं तुमे अणोयाइं ।
ताणं णत्थि पमाणं अणंतभवसायरे धीरः ॥२४॥

छाया—गृहीतोऽज्झितानि मुनिवर कलेवराणि त्वया अनेकानि ।
तेषां नास्ति प्रमाणं अनन्तभवसागरे धीर ! ॥२४॥

अर्थ—हे धीर ! मुनिवर ! तूने इस अनन्त संसार समुद्र में जो अनेक शरीर ग्रहण किये और छोड़े हैं उनकी कोई गिनती नहीं है ॥२४॥

गाथा—विस्ववेधणरत्तक्षयभयसत्थग्गहणसंकिलेसाराणं ।

आहारुस्ससाराणं गिरोहणा खिज्जए आऊ ॥२५॥

हिमजलणसलिलगुरूयरपव्वयतरुरूहणपडणभंगेहिं ।

रसविज्जजोयधारण अणयपसंगेहि विविहेहिं ॥२६॥

इय तिरियमणुयजम्मे सुइरं उववज्जिऊण बहुवारं ।

अवमिञ्चुमहादुक्खं तिठ्वं पत्तोसि तं मित्त ॥२७॥

छाया—विषवेदनारक्तक्षयभयशस्त्रग्रहणसंक्लेशानाम् ।

आहारोच्छ्वासानां निरोधनात् क्षीयते आयुः ॥२५॥

हिमज्वलनसलिलगुरूतरपर्वततरूरोहणपनभङ्गै ।

रसविद्यायोगधारणानयप्रसंगैः विविधैः ॥२६॥

इति तिर्यग्मनुष्यजन्मनि सुचिरं उत्पद्य बहुवारम् ।

अपमृत्युमहादुःखं तीव्रं प्राप्तो ऽसि त्वं मित्र ! ॥२७॥

अर्थ—हे मित्र ! तूने तिर्यञ्च और मनुष्य गति में उत्पन्न होकर अनादि काल से बहुत बार अकाल मृत्यु का अति कठोर दुःख पाया। आयु समाप्त होने से पहले बाह्य कारणों से शरीर छूट जाना अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु के निम्नलिखित कारण होते हैं:—

विष, तीव्र पीड़ा, रुधिर का नाश, भय, शस्त्रघात, संक्लेशपरिणाम, आहार न मिलना, श्वास का रुकना, बर्फ, अग्नि, जल, बड़े पर्वत अथवा वृक्ष पर चढ़ते समय गिरना, शरीर का नाश, रस बनाने की विद्या के प्रयोग से और अन्याय के कामों से आयु का क्षय होता है ॥२५-२६-२७॥

गाथा—छत्तीसंतिणिए सया छावट्टिसहस्सवारमरणणि ।

अंतोमुहुतमज्जे पत्तोसि निगोयवासम्मि ॥२८॥

छाया—षट्त्रिंशत् त्रीणि शतानिषट् षष्टिसहस्रवारमरणाणि ।

अन्तर्मुहूर्तमध्ये प्राप्तोऽसि निकोतवासे ॥२८॥

अर्थ—हे आत्मा ! तू निकोत अर्थात् लब्धपर्याप्तक अवस्था में एक अन्तर्मुहूर्त में
६६३३६ बार मृत्यु को प्राप्त हुआ ॥२८॥

भावार्थ—जो जीव अपने २ योग्य पर्याप्ति पूर्ण न करके अन्तर्मुहूर्त में मर जाता है
उसे लब्धपर्याप्तक कहते हैं ।

गाथा—वियलिंदिए असीदी सट्टी चालीसमेव जाणेह ।
पंचिंदिय चउवीसं खुहभवतो सुहुत्तस्स ॥२९॥

छाया—विकलेन्द्रियाणामशीतिः षष्टि चत्वारिंशदेव जानीहि ।
पंचेन्द्रियाणां चतुर्विंशतिः क्षुद्रभवा अन्तर्मुहूर्तस्य ॥२९॥

अर्थ—हे आत्मा ! अन्तर्मुहूर्त के इन क्षुद्रभवों में द्वीन्द्रियों के ८०, त्रीन्द्रियों के
६०, चतुरिन्द्रियों के ४० और पंचेन्द्रियों के २४ भव होते हैं, ऐसा
तू जान ॥२९॥

गाथा—रयणत्तये अलद्धे एवं भमिओसि दीहसंसारे ।
इय जिणवरेहिं भणिओ तं रयणत्तय समायरह ॥३०॥

छाया—रत्नत्रये अलब्धे एवं भ्रमितो ऽसि दीर्घसंसारे ।
इति जिनवरैर्भणितं तत् रत्नत्रयं समाचर ॥३०॥

अर्थ—हे जीव ! तूने रत्नत्रय प्राप्त न होने से इस प्रकार अनादि संसार में भ्रमण
किया, इसलिये तू रत्नत्रय को धारण कर ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने
कहा है ॥३०॥

गाथा—अप्या अप्पम्मि रओ सम्माइट्टी हचे इफुहु जीवो ।
जाणइ तं सएणाणं चरदिह चारित्तमगुत्ति ॥३१॥

छाया—आत्मा आत्मनि रतः सम्यग्दृष्टिः भवति स्फुटं जीवः ।
जानाति तत् संज्ञानं चरतीह चारित्रमार्ग इति ॥३१॥

अर्थ—रत्नत्रय दो प्रकार का है निश्चय और व्यवहार । यहां निश्चय रत्नत्रय
का वर्णन करते हैं । जो आत्मा आत्मा में लीन होता है अर्थात् आत्मानुभव
रूप भ्रमण करता है वह सम्यग्दृष्टि है । जो आत्मा को यथार्थ रूप

से जानता है सो सम्यग्ज्ञान है । जो आत्मा में लीन होकर आचरण करता है तथा रागद्वेष का त्याग करता है सो सम्यक् चारित्र्य है ॥३१॥

गाथा—अण्यो कुमरणमरणं अण्येयजन्मतराहं मरिञ्चोसि ।

भावाहि सुमरणमरणं जरमरणविणासणं जीव ! ॥३२॥

छाया—अन्यस्मिन् कुमरणमरणं अनेकजन्मान्तरेषु मृतोऽसि ।

भावय सुमरणमरणं जरामरणविनाशनं जीव ! ॥३२॥

अर्थ—हे जीव ! तू अन्य अनेक जन्मों में कुमरणमरण से मृत्यु को प्राप्त हुआ । इसलिये अब तू जरामरणादि का नाश करने वाले सुमरणमरण का विचार कर ॥३२॥

गाथा—सो एत्थि दव्वसवणो परमाणुपमाणमेत्तओ णिलओ ।

जत्थ ए जाओ ए मओ तियलोयपमाणिओ सव्वो ॥३३॥

छाया—स नास्ति द्रव्यश्रयणः परमाणुप्रमाणमात्रो नित्यः ।

यत्र न जातः न मृतः त्रिलोकप्रमाणकः सर्वः ॥३३॥

अर्थ—इस तीन लोक प्रमाण लोकाकाश में ऐसा कोई परमाणुमात्र भी स्थान नहीं है जहां इस जीव ने द्रव्यलिंग धारण कर जन्म और मरण नहीं पाया ॥३३॥

गाथा—कालमणंतं जीवो जन्मजरारमणपीडिओ दुक्खं ।

जिणलिंगेण वि पत्तो परंपराभावरहिणण ॥३४॥

छाया—कालमनन्तं जीवः जन्मजरामरणपीडितः दुःखम् ।

जिनलिंगेन अपि प्राप्तः परम्पराभावरहितेन ॥३४॥

अर्थ—इस जीव ने वर्धमान स्वामी से लेकर केवली श्रुतकेवली और दिगम्बर आचार्यों की परम्परा से उपदेश किये हुए भावलिंग के परिणाम रहित द्रव्यलिंग के द्वारा अनन्त काल तक जन्म जरा और मरण से पीडित होकर दुःख ही पाया ॥३४॥

गाथा—पडिदेससमयपुग्गलआउगपरिणामकालट्टं ।

गहिउंभय्याहं बहुसो अणंतभवसायरे जीवो ॥३५॥

छाया—प्रतिदेशसमयपुद्गलायुः परिणामनामकाक्षयम् ।

गृहीतोष्कितानि बहुशः अनन्तभवसागरे जीवः ॥३५॥

अर्थ—इस जीव ने इस अनन्त संसार समुद्र में लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में, समय में, पुद्गल परमाणु में, आयु में, रागद्वेषादि परिणाम में, गति जाति आदि नामकर्म के भेदों में, उत्सर्पिणी आदि काल में स्थित अनन्त शरीरों को अनन्त बार ग्रहण किया और छोड़ा ॥३५॥

गाथा—तेयात्मा तिर्य्यगसया रञ्जुणं लोयखेत्तपरिमाणं ।

मुत्तूणद्द पपसा जत्थ ण दुरुद्धुल्लिओ जीवो ॥ ३६ ॥

छाया—त्रिचत्वारिंशत् त्रीणि शतानि रञ्जूनां लोकक्षेत्रपरिमाणम् ।

मुक्त्वा ऽष्टौ प्रदेशान् यत्र न भ्रमितः जीवः ॥ ३६ ॥

अर्थ—३४३ राजू प्रमाण लोकक्षेत्र में मेरु के नीचे आठ प्रदेशों को छोड़कर ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां यह जीव उत्पन्न नहीं हुआ अथवा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ ॥३६॥

गाथा—एक्केक्केगुलि बाही छण्णवदी हीति जाण भणुयाणं ।

अवसेमे य सरीरे रोया भण कित्तिया भणिया ॥३७॥

छाया—एकैकांगुली व्याधयः षण्णवतिः भवन्ति जानीहि मनुष्याणाम् ।

अवशेषे च शरीरे रोगाः भण कियन्तः भणिताः ॥३७॥

अर्थ—मनुष्यों के शरीर में एक-एक अंगुल प्रदेश में ६६-६६ रोग होते हैं। तो बताओ शेष समस्त शरीर में कितने रोग कहे जा सकते हैं, हे जीव! तू इसको भली प्रकार जान ॥३७॥

गाथा— ते रोया विव सयत्ता सहिया ते परवसेण पुठ्वभवे ।

एवं सहसि महाजस किंवा बहुपहि लविपहि ॥ ३८ ॥

छाया— ते रोगा अपि च सकलाः सोढास्त्वया परवशेण पूर्वभवे ।

एवं सहसे महायशः ! किंवा बहुभिः लपितैः ॥ ३८ ॥

अर्थ— हे महायश के धारक मुनि ! तू ने वे पहले कहे हुए सब रोग पूर्व भव में कर्मों के आधीन होकर सहे, और अब तू उनको इस प्रकार सहता है ।

बहुत कहने से क्या लाभ है अर्थात् यदि तू अपनी इच्छा से उनको सहेगा तो कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करेगा ॥ ३८ ॥

गाथा— पित्तंतमुत्तफेफसकालिज्वयरुहिरखरिसकिमिजाले ।
उदरे वसिओसि चिरं नवदसमासेहि पत्तोहि ॥ ३९ ॥

छाया— पित्तांत्रमूत्रफेफसयकद्रुधिरखरिसकृमिजाले ।
उदरे वसितोऽसि चिरं नवदशमासैः प्राप्तैः ॥ ३९ ॥

अर्थ— हे मुनि ! तूने पित्त, आंत, मूत्र, तिल्ली, जिगर, रुधिर, खरिस (बिना पके खून से मिला बलगम) और कीड़ों के समूह से भरे हुए अपवित्र उदर में अनन्त बार पूरे नौ नौ दस दस महीने तक निवास किया ॥ ३९ ॥

गाथा— दियसंगट्टियमसणं आहारिय मायभुत्तामण्णान्ते ।
छ्दिखरिसाणमज्जे जठरे वसिओसि ञ्णणीए ॥ ४० ॥

छाया— द्विजन्मस्थितमशनं आहृत्य मातृमुक्कमन्नांते ।
छ्दिखरिसयोर्मध्ये जठरे उषितोऽसि जनन्याः ॥ ४० ॥

अर्थ— हे जीव ! तूने माता के पेट में दांतों के समीप स्थित और माता के खाने के बाद उसके खाए हुए अन्न को खाकर बमन (उल्टी) और खरिस (बिना पके रुधिर से मिले बलगम) के बीच में निवास किया ॥ ४० ॥

गाथा— सिसुकाले य अमाणे असुईमज्जमि लोलिआंसि तुमं ।
असुई असिआ बहुसो मुणिवर ! बालत्तपत्तोण ॥ ४१ ॥

छाया— शिशुकाले च अज्ञाने अशुचिमध्ये लोलितोऽसि त्वम् ।
अशुचिः अशिता बहुशः मुनिवर ! बालत्वप्राप्तेन ॥ ४१ ॥

अर्थ— हे मुनिवर ! तू अज्ञानमयी बाल्य अवस्था में अपवित्र स्थान में लोटा है । तथा बालकपन के कारण ही बहुत बार अपवित्र वस्तु (मलमूत्रादि) खा चुका है ॥ ४१ ॥

गाथा—मंसट्टिसुक्कसोणियपित्तंतसक्तकुणिमदुग्मंधं ।
खरिसवसपूयखिन्भिसभरियं चितेहि देहउडं ॥४२॥

छाया—मांसास्थिशुक्रश्रोणितपित्तांत्रसवत्कुणिमदुर्गन्धम् ।
खरिसवसापूयकिल्बिषभरितं चिन्तय देहकुटम् ॥४२॥

अर्थ—हे मुनि ! तू इस शरीर रूपी घड़े का स्वरूप विचार, जो मांस, हड्डी, वीर्य, रुधिर, पित्त, आंत से भरती हुई, मुर्दे के समान दुर्गन्ध सहित है तथा अपक्व मल सहित बलगम, चर्बी और पीप आदि अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है ॥४२॥

गाथा—भावविमुक्तो मुक्तो ण्य मुक्तो बंधवाइमित्तेण ।
इय भाविऊण उज्झसु गंधं अब्भंतरं धीर ॥४३॥

छाया—भावविमुक्तः मुक्तः न च मुक्तः बान्धवादिमित्त्रेण ।
इति भावयित्वा उज्झय गन्धमाभ्यन्तरं धीर ! ॥४३॥

अर्थ—जो मुनि रागादिभावों से मुक्त (रहित) है वही वास्तव में मुक्त है, किन्तु जो/ब्राह्म बान्धवादि कुदुम्ब से ही मुक्त है वह मुक्त नहीं कहलाता है । ऐसा विचार कर हे धीर मुनि ! तू अन्तरंग स्नेहरूप वासना का त्याग कर ॥४३॥

गाथा— देहादिवत्तसंगो माणकसाएण कलुसिओ धीर ।
अत्तावणेण जादो बाहुबली कित्तिर्य कालं ॥४४॥

छाया— देहादित्यक्तसंगः मानकषायेन कलुषितो धीर !
आतापनेन जातः बाहुबलिः कियन्तं कालम् ॥४४॥

अर्थ—हे धीर मुनि ! देहादि परिग्रह से ममत्व छोड़ने वाले बाहुबलि स्वामी ने मानकषाय से मलिनचित्त होकर कायोत्सर्ग (खड़े होकर ध्यान करना) के द्वारा कितना समय व्यतीत किया, किन्तु सिद्धि प्राप्त नहीं हुई । जब कषाय की मलिनता दूर हुई तब ही उनको केवलज्ञान प्राप्त हुआ ॥४४॥

गाथा—मधुपिङ्गो णाम मुणी देहाहारादित्थसावावारो ।
सबणत्तणं णपत्तो णियाणमित्तेण भवियणुय ॥४५॥

छाया—मधुपिङ्गो नाम मुनिः देहाहारादित्यक्तव्यापारः ।
अमणत्वं न प्राप्तः निदानमात्रेण भव्यनुत्त ! ॥४५॥

अर्थ—भव्य जीवों से नमस्कार करने योग्य हे मुनि ! शरीर और आहारादि का त्याग करने वाला मधुपिंग नामक मुनि केवल निदान के कारण भ्रमणपने (भावमुनिपने) को प्राप्त नहीं हुआ ॥४५॥

गाथा— अण्णां च वसिट्टमुणी पत्तो दुक्खं शिष्याणदोसेण ।
सोणत्थि वामठाणो जत्थ ए दुरुदुल्लिओ जीवो ॥ ४६ ॥

छाया— अन्यच्च वसिष्ठमुनिः प्राप्तः दुःखं निदानमात्रेण ।
तन्नास्ति वासस्थानं यत्र न भ्रान्तः जीव ! ॥ ४६ ॥

अर्थ—और भी एक वसिष्ठ नामक मुनि ने निदान के दोष से बहुत दुःख पाया । हे जीव ! लोक में ऐसा कोई निवास स्थान नहीं है, जहां तूने जन्म मरण के द्वारा भ्रमण नहीं किया ।

गाथा— सो णत्थि तं पएसो चउरासीलक्खजोणिवासम्मि ।
भावविरओ वि सबणो जत्थ ए दुरुदुल्लिओ जीवो ॥ ४७ ॥

छाया— स नास्ति त्वं प्रदेशः चतुरशीतिलक्षयो निवासे ।
भावविरतोऽपि भ्रमणः यत्र न भ्रान्तः जीव ! ॥ ४७ ॥

अर्थ—हे जीव ! इस संसार में चौरासी लाख योनि के स्थानों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां तूने आत्मानुभवरूप भावों के बिना द्रव्यलिंगी मुनि होकर भी भ्रमण नहीं किया ।

गाथा— भावेण होइ लिंगी णहु लिंगी होइ दव्वमित्तेण ।
तम्हा कुण्णिञ्ज भावं किं कीरइ दव्वलिंगेण ॥ ४८ ॥

छाया— भावेन भवति लिंगी नहि लिंगी भवति द्रव्यमात्रेण ।
तस्मात् कुर्याः भावं किं क्रियते द्रव्यलिंगेन ॥ ४८ ॥

अर्थ— भावलिंग से ही जिनलिंगी मुनि होता है तथा केवल द्रव्यलिंग से जिनलिंगी नहीं होता । इस लिए भावलिंग को ही धारण करो, क्योंकि द्रव्यलिंग से मुक्ति आदि क्या कार्य सिद्ध हो सकता है ॥ ४८ ॥

गाथा— दंडयणयरं सयलं ड्हिओ अरुभंतरेण दोसेण ।
जिणलिंगेण वि बाहु पडिओ सो रउरवे णरये ॥

छाया—दण्डकनगरं सकलं दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोषेण ।

जिनलिंगेनापि बाहुः पतितः स रौरवे नरके ॥४६॥

अर्थ—जिनलिंग का धारक बाहुमुनि अन्तरंग कषायों के दोष से सारे दण्डकनगर को जलाकर सातवीं नरकभूमि के रौरव नरक (बिल) में नारकी उत्पन्न हुआ ।

गाथा—अवरोचि दन्वसवणो दंसणवरणाणचरणपञ्चट्टो ।

दीवायणुन्ति णामो अणंतसंसारिओ जाओ ॥५०॥

छाया—अपरः इति द्रव्यश्रमणः दर्शनवरज्ञानचरणप्रभ्रष्टः ।

द्वीपायन इति नामा अनन्तसांसारिकः जातः ॥५०॥

अर्थ—और भी एक द्वीपायन नामक द्रव्यलिंगी मुनि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से भ्रष्ट होकर अनन्तसंसारी ही बना रहा ॥५०॥

गाथा—भावसमणो य धीरो जुवईजणवेड्ढिओ विसुद्धमई ।

णामेण सिवकुमारो परीत्तसंसारिओ जादो ॥५१॥

छाया—भावश्रमणश्चधीरः युवतिजनवेष्टितः विशुद्धमतिः ।

नाम्ना शिवकुमारः परित्यक्तसांसारिकः जातः ॥

अर्थ—भावलिंग का धारक धीर वीर शिवकुमार मुनि अनेक युवतियों के द्वारा चलायमान करने पर भी विशुद्ध ब्रह्मचर्य का धारक संसार का त्याग करने वाला अर्थात् निकटभन्व्य होगया ॥५१॥

गाथा—अंगाई दस य दुण्णिय चउदसपुव्वाई सयलसुयणाणं ।

पढिओ अ भवसेणो ण भावसवणत्तणं पत्तो ॥५२॥

छाया—अज्ञानि दश च द्वे च चतुर्दशपूर्वाणि सकलश्रुतज्ञानम् ।

पठितश्रभव्यसेनः न भावश्रमणत्वं प्राप्तः ॥५२॥

अर्थ—एक भव्यसेन नामक मुनि ने बारह और चौदहपूर्व रूप सम्पूर्ण श्रुतज्ञान को पढ़ लिया, तो भी भावमुनिपने को प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात् यथार्थ तत्त्वों के अज्ञान बिना अनन्त संसारी ही बना रहा ॥५२॥

गाथा—तुसमासं घोसंतो भावविमुद्धो महाणुभावो य ।
 णामेण य सिवभूर्हं केवलणाणी फुडं जाओ ॥५३॥

छाया—तुषमाषं घोषयन् भावविशुद्धः महानुभावश्च ।
 नाम्ना च शिवभूतिः केवलज्ञानी स्फुटं जातः ॥५३॥

अर्थ—विशुद्ध परिणाम वाले और अत्यन्त प्रभावशाली शिवभूति मुनि 'तुषमाषं'
 इस पद को रटते हुए केवलज्ञानी होगए यह बात सब जगह प्रसिद्ध
 है ॥५३॥

गाथा—भावेण होइ णग्गो बाहिरलिंगेण किं च णग्गेण ।
 कम्मपयड्डीयणियरं णासइ भावेण द्रव्येण ॥५४॥

छाया—भावेन भवति नग्नः बहिर् लिंगेन किं च नग्नेन ।
 कर्मप्रकृतीनां निकरं नश्यति भावेन द्रव्येण ॥५४॥

अर्थ—भाव से ही निर्ऋन्थरूप सार्थक है किन्तु केवल बाह्य नग्नमुद्रा से कोई मोक्ष
 आदि कार्य सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि भाव सहित द्रव्यलिंग से ही कर्म-
 प्रकृतियों का समुदाय नष्ट होता है ॥५४॥

गाथा—णग्गत्तणं अकज्जं भावररहियं जिणेहिं पण्णत्तं ।
 इय णाऊण य णिच्चं भाविज्जहि अप्पयं धीर ! ॥५५॥

छाया—नग्नत्वं अकार्यं भावरहितं जिनैः प्रह्लप्तम् ।
 इति ज्ञात्वा च नित्यं भावयेः आत्मानं धीर ! ॥५५॥

अर्थ—भावरहित नग्नपना निष्फल (व्यर्थ) है, ऐसा जिन भगवान् ने कहा है ।
 ऐसा जानकर हे धीर मुनि ! सदा आत्मा के स्वरूप का चिन्तन कर ॥५५॥

गाथा—देहादिसंगरहिओ माणकसाण्हिं सयलपरिचत्तो ।
 अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिंगी ह्वे साहू ॥ ५६ ॥

छाया—देहादिसंगरहितः मानकषायैः सकलपरित्यक्तः ।
 आत्मा आत्मनि रतः स भावलिंगी भवेत् साधुः ॥ ५६ ॥

अर्थ—जो शरीरादि परिग्रहों से रहित है, भान कषाय से सब प्रकार छूटा हुआ है और जिसका आत्मा आत्मा में लीन रहता है वह भावलिङ्गी साधु है ॥५६॥

गाथा— ममत्ति परिवर्जामि णिम्ममत्तिमुषट्ठिदो ।
आलंबणं च मे आदा अबसेसाहं बोसरे ॥ ५७ ॥

छाया— ममत्वं परिवर्जामि निर्ममत्वमुपस्थितः ।
आलम्बनं च मे आत्मा अवशेषानि व्युत्सृजामि ॥ ५७ ॥

अर्थ—भावलिङ्गी मुनि ऐसा विचार करता है कि मैं ममत्वभाव (यह मेरा है, मैं इसका हूँ) का त्याग करता हूँ । आत्मा ही मेरा आलम्बन (सहारा) है, इस लिए आत्मा से भिन्न रागद्वेषादि परिणामों का त्याग करता हूँ ॥ ५७ ॥

गाथा— आदा खु मज्झणाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।
आदा पक्खवाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ ५८ ॥

छाया—आत्मा खलु मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चरित्रे च ।
आत्मा प्रत्याख्याने आत्मा मे संवर योगे ॥ ५८ ॥

अर्थ—भावलिङ्गी मुनि विचार करता है कि निश्चय से मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन और चरित्र में आत्मा है, प्रत्याख्यान (भविष्य में दोषों का त्याग) में आत्मा है और संवर तथा ध्यान में भी आत्मा ही है ।

भावार्थ—ये ज्ञानादि गुण मेरा स्वरूप है और मैं इन गुणस्वरूप हूँ ॥ ५८ ॥

गाथा— एगो मे सत्सदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो ।
सेसा मे बाहिर भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥ ५९ ॥

छाया— एको मे शाश्वतः आत्मा ज्ञानदर्शनलक्षणः ।
शेषा मे बाह्या भावाः सर्वे संयोगलक्षणाः ॥ ५९ ॥

अर्थ—भावलिङ्गी मुनि विचार करता है कि मेरा आत्मा एक है, नित्य है, और ज्ञानदर्शन लक्षण वाला है । शेष सब रागद्वेषादिभाव बाह्य हैं और परत्रय के संयोग से प्राप्त हुए हैं ॥ ५९ ॥

गाथा— भावेह भावमुद्रं अप्या सुविसुद्धणिम्मलं चैव ।

लहु चउगइ चइइणं जइ इच्छसि सासयं सुक्खं ॥ ६० ॥

छाया— भावय भावशुद्धं आत्मानं सुविशुद्धनिर्मलं चैव ।

लघु चतुर्गतिं च्युत्वा यदि इच्छसि शाश्वतं सौख्यम् ॥ ६० ॥

अर्थ—हे भव्यजीवो ! यदि तुम शीघ्र ही चतुर्गतिरूप संसार को छोड़ कर अविनाशी सुख रूप मोक्ष को चाहते हो तो शुद्ध भावों के द्वारा पवित्र और कलंकरहित आत्मा का चिन्तन करो ॥ ६० ॥

गाथा— जो जीवो भावंतो जीवसहावं सुभावसंजुत्तो ।

सो जग्मरणविणासं कुडइ फुडं लहइ णिव्वाणं ॥ ६१ ॥

छाया— यः जीवः भावयन् जीवस्वभावं सुभावसंयुक्तः ।

मः जरामरणविनाशं करोति स्फुटं लभते निर्वाणम् ॥ ६१ ॥

अर्थ—जो भव्यजीव उत्तमभावसहित आत्मा के स्वभाव का चिन्तन करता है, वह जरा मरण आदि दोषों का नाश कर निश्चय से निर्वाण पद प्राप्त करता है ।

गाथा— जीवो जिणपणत्तो णाणसहाओ य च्चेयणासहिओ ।

सो जीवो णायव्वो कम्मक्खयकारणणिमित्तो ॥ ६२ ॥

छाया— जीवः जिनप्रब्रह्मः ज्ञानस्वभावः च चेतनासहितः ।

सः जीवः ज्ञातव्यः कर्मक्षयकारणनिमित्तः ॥ ६२ ॥

अर्थ—जीव ज्ञानस्वभाव वाला और चेतनासहित है ऐसा जिन भगवान् ने कहा है । ऐसे स्वभाव वाला आत्मा ही कर्मों के क्षय करने का कारण है ॥ ६२ ॥

गाथा— जेसि जीवसहावो णत्थि अभावो य सव्वहा तत्थ ।

ते ह्येति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमतीदा ॥ ६३ ॥

छाया— येषां जीवस्वभावः नास्ति अभावश्च सर्वथा तत्र ।

ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धाः वचोगोचरातीताः ॥ ६३ ॥

अर्थ—जो भव्य जीव आत्मा का स्वभाव अस्तित्वरूप (मौजूदगी) मानते हैं तथा बिल्कुल अभावरूप नहीं मानते । वे जीव शरीररहित और वचन से न कहने योग्य सिद्ध होते हैं ॥ ६३ ॥

गाथा—अरसमरूपमगन्धं अव्यक्तं चेतनागुणमसदं ।
जाणमलिंगमहृणं जीवमणिदिद्रुसंठाणं ॥६४॥

छाया—अरसमरूपमगन्धं अव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम् ।
जानीहि अलिंगप्रहृणं जीवमनिर्दिष्ट संस्थानम् ॥६४॥

अर्थ—हे भव्य जीव ! तू जीव का स्वरूप ऐसा जान कि वह रस, रूप और गन्ध रहित है, इन्द्रियों से प्रगट नहीं जाना जाता, चेतना गुण सहित, शब्द, लिंग रहित तथा आकार रहित है ॥३४॥

गाथा—भावहि पंचयारंगणं अण्णणणसणं सिग्घं ।
भावणभावियसहिओ दिवसिवमुहभायणो होइ ॥६५॥

छाया—भावयपंचप्रकारं ज्ञानं अज्ञाननाशनं शीघ्रम् ।
भावनाभावितसहितः दिवशिवसुखभाजनं भवति ॥

अर्थ—हे भव्य जीव ! तू आत्मा की भावना सहित होकर अज्ञान का नाश करने वालं पंच प्रकार के ज्ञान का शीघ्र ही चिन्तन कर, जिससे जीव स्वर्ग और मोक्ष के सुख का पात्र होता है ॥६५॥

गाथा—पठिएणवि किं कीरइ किंवा सुणिएण भावरहिण्ण ।
भावो कारणभूदो सायारणयारभूदाणं ॥६६॥

छाया—पठितेनापि किं क्रियते किंवा श्रुतेन भावरहितेन ।
भावः कारणभूतः सागरानगारभूतानाम् ॥६६॥

अर्थ—भावरहित ज्ञान के पढ़ने और सुनने से क्या कार्य सिद्ध होता है अर्थात् स्वर्ग मोक्षादि रूप कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता । इसलिए श्रावकपने और मुनिपने का कारण भाव ही जानना चाहिए ॥६६॥

गाथा—द्रव्येण सयत्नणग्गा णारयतिरिया य सयत्तसंघाया ।
परिणामेण अमुद्धा ण भावसवणत्तणं पत्ता ॥६७॥

छाया—द्रव्येण सकला नग्नाः नारकतिर्यञ्चरचसकल संघाताः ।
परिणामेन अमुद्धाः न भावश्रमणत्वं प्राप्ताः ॥६७॥

अर्थ—बाह्य रूप से तो सभी जीव नग्न रहते हैं । नारकी, तिर्यञ्च और मनुष्यादि का समुदाय नग्न रहता है । किन्तु परिणाम अशुद्ध होने से भावमुक्तिपने (भावलिङ्गपने) को प्राप्त नहीं होते ॥६७॥

गाथा—णग्गो पावइ दुक्खं णग्गो संसारसायरे भमई ।
णग्गो ण लहइ बोहिं जिणभावणवज्जियं सुइरं ॥६८॥

छाया—नग्नः प्राप्नोति दुःखं नग्नः संसारसायरे भ्रमति ।
नग्नः न लभते बोधिं जिनभावनावर्जितः सुचिरम् ॥६८॥

अर्थ—जिनभगवान् की भावना रहित नग्न जीव बहुत काल तक दुःख पाता है, संसार समुद्र में भ्रमण करता है, और रत्नत्रय को भी नहीं पाता है ॥६८॥

गाथा—अयसाण भायणेण य किते णग्गेण पापमल्लिणेण ।
पेसुण्णहासमच्छरमायाबहुलेण सबणेण ॥६९॥

छाया—अयशासां भाजनेन किते नग्नेन पापमल्लिनेन ।
पैशून्यहास्यमत्सरमायाबहुलेन श्रमणेन ॥६९॥

अर्थ—हे मुनि ! ऐसे नग्नपने और मुनिपने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, जो अयश (बुराई) के योग्य है, पाप से मलिन है तथा पैशून्य (दूसरों का दोष कहना) हंसी, ईर्ष्या, मायादि बहुत से विकारों से परिपूर्ण है ॥६९॥

गाथा—पयडहिं जिणवरलिंणं अम्भितरभावदोसपरिसुद्धो ।
भावमल्लेण य जीवो बाहिरसंगम्भिम मयत्तियई ॥७०॥

छाया—प्रकटय जिनवरलिंणं अभ्यन्तरभावदोषपरिशुद्धः ।
भावमल्लेन च जीवः बाह्यसंगे मल्लिनयति ॥७०॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू अन्तरंग भावों के दोषों से सर्वथा शुद्ध होकर जिनलिंग (नग्नमुद्रा) को प्रकट कर। कारण कि जीव भावों की मलिनता से बाह्य परिग्रह में परिणामों को मलिन करता है ॥७०॥

गाथा—धम्मम्मि शिष्यवासो दोसावासो य इच्छुपुल्लसमो ।
शिष्यफलशिग्गुणयारो णउसवणो णगरूवेण ॥७१॥

छाया—धर्म निप्रवासः दोषावासश्च इक्षुपुष्पसमः ।
निष्फलनिर्गुणकारः नटश्रमणः नग्नरूपेण ॥७१॥

अर्थ—दयालक्षण, आत्मस्वभाव, दशलक्षण रूप और रत्नत्रय रूप धर्म में जिसका निवास है, जो ईश्वर के फूल के समान मोक्षादि फल रहित और ज्ञानादि गुणरहित है, वह नग्नपत्ने के भेष में नाचने वाला भाण्ड है ॥७१॥

गाथा—जे रागसंगजुत्ता जिणभावणरहियद्व्वणिग्गंथा ।
ए लहंति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमले ॥ ७२ ॥

छाया—ये रागसंगयुक्ताः जिनभावनारहितद्रव्यनिर्ग्रन्थाः ।
न लभन्ते ते समाधिं बोधिं जिनशासने विमले ॥

अर्थ—जो मुनि रागभावरूप परिग्रह सहित हैं और आत्मस्वरूप की भावना रहित निर्ग्रन्थ रूप को धारण करते हैं, वे पवित्र जिनमार्ग में कहे हुये ध्यान और रत्नत्रय को नहीं पाते हैं ॥

गाथा—भावेण होइणम्मो मिच्छन्ताई य दोस चइऊणं ।
पच्छा दव्वेण मुणी पयडदि लिंगं जिणाराणए ॥ ७३ ॥

छाया—भावेन भवति नग्नः मिथ्यात्वादीश्च दोषान् त्यक्त्वा ।
पश्चात् द्रव्येण मुनिः प्रकटयति लिंगं जिनाज्ञया ॥

अर्थ—मुनि पहले मिथ्यात्वादि दोषों को छोड़कर शुद्धभाव से अन्तरंग रूप से नग्न होता है, पीछे जिन भगवान् की आज्ञा से बाह्यलिंग को धारण करता है ।

भावार्थ—भाव पवित्र होने पर ही नग्न रूप धारण करना सार्थक हो सकता है ॥

गाथा— भावो वि दिव्यसिवसुक्त्वभायणो भाववज्जिभ्रो सवणो ।
कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयभायणो पावो ॥ ७४ ॥

छाया— भावः अपि दिव्यशिवसौग्यभाजनं भाववर्जितः श्रमणः ।
कर्ममलमलिनचित्तः तिर्यगालयभाजनं पापः ॥ ७४ ॥

अर्थ—शुद्धभाव ही स्वर्गमोक्षादि का सुख दिलाने वाला है, तथा भावरहित मुनि कर्मरूपी मैल से मलिन चित्तवाला, तिर्यञ्च गति के योग्य और पापात्मा होता है ॥

गाथा— खयरामरमण्यकरंजलिमालाहिं च संधुया विउला ।
चक्कहररायलच्छी लब्भइ बोही सुभावेण ॥ ७५ ॥

छाया— खचरामरमनुजकरंजलिमालाभिरच संस्तुता विपुला ।
चक्रधरराजलक्ष्मीः लभ्यते बोधिः सुभावेन ॥ ७५ ॥

अर्थ—उत्तम भाव के द्वारा जीव विद्याधर, देव, मनुष्य आदि के हाथों की अंजुलि से स्तुति की गई बहुत बड़ी चक्रवर्ती राजा की लक्ष्मी को तथा रत्नत्रय को भी प्राप्त करता है ॥

गाथा— भावं तिविहपयारं सुहासुहं सुद्धमेव णायव्वं ।
असुहं च अट्टरुइं सुह धम्मं जिणवरिंदेहिं ॥ ७६ ॥

छाया— भावः त्रिविधप्रकारः शुभोऽशुभः शुद्ध एव ज्ञातव्यः ।
अशुभश्च आर्तरौद्रं शुभः धर्म्यं जिनवरेन्द्रैः ॥ ७६ ॥

अर्थ—भाव तीन प्रकार का जानना चाहिए— शुभ, अशुभ और शुद्ध । इनमें आर्त-
ध्यान और रौद्रध्यान तो अशुभभाव है तथा धर्मध्यान शुभभाव है, ऐ-
जिनेन्द्र देव ने कहा है ॥

गाथा— सुद्धं सुद्धसहावं अप्पा अप्पम्मि तं च णायव्वं ।
इदि जिणवरेहिं भणियं जं सेयं तं समायरह ॥ ७७ ॥

छाया— शुद्धः शुद्धरवभाषः आत्मा आत्मनि सः च ज्ञातव्यः ।
इति जिनवरैः भणितं यः श्रेयात् तं समाचर ॥ ७७ ॥

अर्थ—शुद्धस्वभाव वाला आत्मा आत्मा में ही है, सो शुद्धभाव जानना चाहिये।
इनमें जो भाव कल्याणरूप (हितकारी) है उसको स्वीकार करो, ऐसा
जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है ॥७७॥

गाथा—पयलियमाणकसाओ पयलियमिच्छत्तमोहसमचित्तो ।
पावइ तिहुवणसारं बोही जिणसासणे जीवो ॥ ७८ ॥

छाया—प्रगलितमानकषायः प्रगलितमिध्यात्वमोहसमचित्तः ।
आप्नोति त्रिभुवनसारं बोधिं जिनशासने जीवः ॥७८॥

अर्थ—जिन शासन में मानकषाय को पूर्णरूप से नष्ट करने वाला तथा मिध्यात्व के
उदय से होने वाले मोहभाव के नष्ट होने से समान हृदय वाला (रागद्वेष-
रहित) जीव तीन लोक में सारभूत (उत्तम) रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग को
पाता है ॥७८॥

गाथा—विसयविरत्तो सवणो छइसवरकारणाइंभाऊण ।
तिच्छयरणांमकम्मं बंधइ अइरेण कालेण ॥ ७९ ॥

छाया—विषयविरक्तः श्रमणः षोडशवरकारणानि भावयित्वा ।
तीर्थकरनामकर्म बध्नाति अचिरेण कालेन ॥ ७९ ॥

अर्थ—पांच इन्द्रियों के विषयों से उदासीन मुनि सोलह कारण भावनाओं का
चिन्तन करके थोड़े ही समय में तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करता है ॥

गाथा—बारसविहतवयरणं तेरसकिरियाउ भाव तिविहेण ।
धरहि मणमत्तदुरियं णाणांकुत्सएण मुणिएववर ॥८०॥

छाया—द्वादशविधतपश्चरणां त्रयोदश क्रियाः भावय त्रिविधेन ।
धर मनोमत्तदुरितं ज्ञानाङ्कुशेन मुनिश्रवर ! ॥८०॥

अर्थ—हे मुनिश्रेष्ठ ! तू १२ प्रकार के तप और १३ प्रकार की क्रियाओं को मन,
वचन, काय से चिन्तन कर तथा मनरूपी मत्त हाथी को ज्ञानरूपी अङ्कुश से
बश में कर । अनशन, ऊनोदर, ब्रतपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्र
शय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित्त, बैयावृत्य, स्वाध्याय, विनय, व्युत्सर्ग
और ध्यान ये १२ तप हैं । ५ महाव्रत, ५ समिति और ३ गुप्ति ये १३
प्रकार की क्रिया हैं ॥८०॥

गाथा—पंचविहचेलचायं खिदिसयणं दुविहसंजमं भिक्खु ।

भावं भाविय पुवं जिणलिंगं शिम्मलं सुद्धं ॥८१॥

छाया—पंचविधचेलत्यागं क्षितिशयनं द्विविधसयमं भिक्षुः ।

भावं भावयित्वा पूर्वं जिनलिंगं निर्मलं शुद्धम ॥८१॥

अर्थ—जहां रेशम, ऊन, सूत, छाल और चमड़ा इन पांच प्रकार के वस्त्र का त्याग किया जाता है, भूमि पर सोया जाता है, दो प्रकार का संयम (इन्द्रिय संयम और प्राण संयम) पाला जाता है, भिक्षावृत्ति से भोजन किया जाता है और पहले आत्मा के शुद्ध भावों का विचार किया जाता है, ऐसा अन्तरंग और बहिरंग भ्रूलरहित जिनलिंग होता है ॥८१॥

गाथा—जह रयणाणं पवरं वज्जं जह तरूगणाण गोसीरं ।

तह धम्माणं पवरं जिणधम्मं भावि भवमहणं ॥८२॥

छाया—यथा रत्नानां प्रवरं वज्रं यथा तरूगणानां गोशीरम् ।

तथा धर्माणां प्रवरं जिनधर्मं भावय भवमथनम् ॥८२॥

अर्थ—जैसे सब रत्नों में उत्तम वज्र अर्थात् हीरा है और जैसे सब पेड़ों में उत्तम चन्दन है, वैसे ही सब धर्मों में उत्तम जिनधर्म है, जो संसार का नाश करने वाला है । हे मुनि ! तू उस उत्तम जिनधर्म का चिन्तन कर ॥८२॥

गाथा—पूयादिमु वयसहियं पुण्यं हि जिणेहिं सासणे भणियं ।

माहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो ॥

छाया—पूजादिषु व्रतसहितं पुण्यं हि जिनैः शासने भणितम् ।

मोहक्षोभविहीनः परिणामः आत्मनः धर्मः ॥८३॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान् ने उपासकाध्ययन शास्त्र में, ऐसा कहा है कि पूजा आदि धर्म क्रियाओं का व्रत सहित होना पुण्य है अर्थात् इनको नियमपूर्वक करना पुण्यबन्ध का कारण है । तथा मोह और चिन्त की चंचलता रहित आत्मा का परिणाम धर्म है ॥८३॥

गाथा—सदहदि य पत्तेदि य रोचेदिय तह पुणो वि फासेदि ।

पुण्यं भोयणिमित्तं ण हु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥८४॥

छाया—अहधाति च भ्रत्येति च रोचते च तथा पुनरपि स्पृशति ।

पुण्यं भोगनिमित्तं नहि तत् कर्मक्षयनिमित्तम् ॥८४॥

अर्थ—जो पुरुष पुण्य क्रियाओं को धर्म रूप भद्रान करता है अर्थात् मोक्ष का कारण समझता है । वैसा ही जानता प्रेम करता है, और आश्रय करता है, उसका पुण्य भोग का ही कारण है, कर्मों के नाश का कारण नहीं है ॥ ८४ ॥

गाथा—अप्पा अप्पम्मि रओ रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो ।

संसारतरणहेदू धम्मोत्ति जिणेहिं णिद्धिं ॥ ८५ ॥

छाया—आत्मा आत्मनि रतः रागादिषु सकलदोषपरित्यक्तः ।

संसारतरणहेतुः धर्म इति जिनैः निर्दिष्टम् ॥ ८५ ॥

अर्थ—रागद्वेषादि सब दोषों से रहित होकर जो आत्मा आत्मा में लीन होता है वह धर्म है और संसार समुद्र से पार होने का कारण है ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ ८५ ॥

गाथा—अह पुण अप्पा णिच्छदि पुण्णाइं करेदि णिरवसेसाइं ।

तह वि ण पावदि सिद्धिं संसारत्थो पुणो भणित्तो ॥८६॥

छाया—अथ पुनः आत्मानं नेच्छति पुण्यानि करोति निरवशेषानि ।

तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनः भणितः ॥८६॥

अर्थ—अथवा जो पुरुष आत्मा के स्वरूप का विचार नहीं करता है और पूजादानादि सब पुण्य क्रियाओं को करता है, तो भी वह मोक्ष को नहीं पाता है । उसको संसारी ही कहा गया है ॥ ८६ ॥

गाथा—एण कारणेण य तं अप्पा सहहेह तिविहेण ।

जेण य लभेह मोक्खं तं जाणिज्जह पयत्तेण ॥ ८७ ॥

छाया—एतेन कारणेन च तं आत्मानं अदत्त त्रिविधेन ।

येन च लभष्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन ॥ ८७ ॥

अर्थ—इसी कारण तुम मन, बचन, काय से उस आत्मा का भद्रान करो और उसको यत्नपूर्वक जानो जिससे तुम मोक्ष को प्राप्त करो ॥ ८७ ॥

गाथा—मच्छो वि सालिसित्यो असुद्धभावो गत्रो महाणरयं ।
इय एतं अप्पाणं भावह जिणभावसं शिखं ॥ ८८ ॥

छाया—मत्स्यः अपि सालिसित्यः अशुद्धभावः गतः महानरकम् ।
इति ज्ञात्वा आत्मानं भावय जिनभावनां नित्यम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—तन्दुल नामक मच्छ अशुद्ध परिणामी होता हुआ सातवें नरक में उत्पन्न हुआ । ऐसा जानकर हे भव्य जीव ! तू सदा आत्मा में जिनदेव की भावना कर ॥ ८८ ॥

गाथा—बाहिरसंगञ्जात्रो गिरिसरिदरिक्कं दराइ आवासो ।
सयलो एणज्जयणो गिरत्थञ्चो भावरहियाणं ॥ ८९ ॥

छाया—बाह्यसंगत्यागः गिरिसरिदरीकंदरादौ आवासः ।
सकलं ज्ञानाध्ययनं निरर्थकं भावरहितानाम् ॥ ८९ ॥

अर्थ—शुद्ध आत्मा की भावना रहित पुरुषोंका बाह्य परिग्रह त्याग, पहाड़, नदी, गुफा, खोह आदि में रहना और सम्पूर्ण शास्त्रों का पढ़ना आदि व्यर्थ है ॥ ८९ ॥

गाथा—भंजसु इंदियसेणं भंजसु मणोमक्कडं पयत्तेण ।
मा जणरंजणकरणं बाहिरवयवेस तं कुणसु ॥ ९० ॥

छाया—भंगि इन्द्रियसेनां भंगि मनोमर्कटं प्रयत्नेन ।
मा जनरंजनकरणं बहिर्व्रतवेष ! त्वं कार्षीः ॥ ९० ॥

अर्थ—हे मुनि ! तू इन्द्रिय रूपी सेना को नाश कर और मन रूपी बन्दर को यत्नपूर्वक वश में कर, तथा बाह्य व्रत को धारण करने वाले ! तू लोगों को प्रसन्न करने वाले कार्य मत कर ॥ ९० ॥

गाथा—एवणोकसायवग्गं मिच्छत्तं चयसु भावसुद्धीए ।
चेइयपवयणगुरूणां करेहिं भत्तिं जिणाणाए ॥ ९१ ॥

छाया—नवनोकसायवर्गं मिष्यात्वं त्यज भावशुद्धया ।
चैत्यप्रवचनगुरूणां कुरु भक्तिं जिनाज्ञया ॥ ९१ ॥

अर्थ—हे मुनि ! तू शुद्ध परिणामों से [हास्य, रति, अरति, शोक, भय, स्नानि, स्त्रीवेद, पुर्वेद, नपुंसकवेद इन] ६ नोकषाय के समूह को और एकान्त, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान इन ५ प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग कर, तथा जिन भगवान् की आज्ञा से जिन-प्रतिमा, जैनशास्त्र और निर्ग्रन्थगुरु की भक्ति कर ॥ ६१ ॥

गाथा—तिथ्यरभासियत्थं गणधरदेवेहिं गंधियं सम्मं ।

भावहि अणुदिणु अतुलं विसुद्धभावेण सुयणाणं ॥ ६२ ॥

छाया—तीर्थकरभाषितार्थं गणधरदेवैः प्रथितं सम्यक् ।

भावय अनुदिनं अतुलं विशुद्धभावेन श्रुतज्ञानम् ॥ ६२ ॥

अर्थ—हे मुनि ! तू उस अनुपम श्रुतज्ञान का शुद्धभाव से चिन्तन कर, जिसका अर्थ तीर्थकर भगवान् के द्वारा कहा गया है और गणधरदेवों ने भलीभांति जिसकी शास्त्ररूप रचना की है ॥ ६२ ॥

गाथा—पाऊण गाणसंलिलं गिम्महत्तिसडाहसोसउम्मुक्का ।

हूँति सिवालयवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥ ६३ ॥

छाया—प्राप्य ज्ञानसलिलं निर्मध्यवृषादाहाशोपोन्मुक्ता ।

भवन्ति शिवालयवासिनः त्रिभुवनचूडामणयः सिद्धाः ॥ ६३ ॥

अर्थ—श्रुतज्ञानरूपी जल को पीकर जीव सिद्ध होते हैं—जो कठिनता से नारा होने योग्य वृषणा, सन्ताप और शोष (रसरहित होना) आदि रहित हैं मोक्षस्थान में निवास करने वाले हैं, तथा तीनों लोक के चूडामणि हैं ॥ ६३ ॥

गाथा—इस इस दो सुपरीसह सहदि मुणी सयलकाल काएण ।

सुत्तेण अप्पमत्तो संजमघादं पमुत्तूण ॥ ६४ ॥

छाया—दश दश द्वौ सुपरीषहान् सहस्व मुने । सकलकालं कायेन ।

सूत्रेण अप्रमत्तः संयमघातं प्रमुच्य ॥ ६४ ॥

अर्थ—हे मुनि ! तू जैन शास्त्र के अनुसार प्रमादरहित होकर और संयम का घात करने वाली क्रिया को छोड़कर शरीर से सदा बाईस परीषहों को सहन कर ॥ ६४ ॥

गाथा—जह पत्थरो ण भिज्जइ परिट्ठिओ दीहकालमुकएण ।
तह साहू वि ण भिज्जइ उवसग्गपरीसहेहिंतो ॥ ६५ ॥

झाया—यथा प्रस्तरः न भिद्यते परिस्थितः दीर्घकालमुदकेन ।
तथा साधुरपि न भिद्यते उपसर्गपरीषहेभ्यः ॥ ६५ ॥

अर्थ—जैसे पत्थर बहुत समय तक पानी में डूबा हुआ भी अन्दर से गीला नहीं होता है, वैसे ही साधु उपसर्ग और परीषहों से चलायमान नहीं होता है ॥ ६५ ॥

गाथा—भावहि अणुवेक्खाओ अवरे पणवीसभावणा भावि ।
भावरहिएण किं पुण बाहिरलिंगेण कायव्वं ॥ ६६ ॥

झाया—भावय अनुप्रेक्षा अपराः पंचविंशति भावना भावय ।
भावरहितेन किं पुनः बाह्यलिंगेन कर्तव्यम् ॥ ६६ ॥

अर्थ—हे मुनि ! तू अनित्यादि १२ भावनाओं और पांच महाव्रत की २५ भावनाओं का चिन्तन कर, क्योंकि शुद्धभावरहित नग्नवेष से क्या कार्य सिद्ध हो सकता है ॥ ६६ ॥

गाथा—सव्वविरओ वि भावहि णव य पयत्थाइं सत्त तच्चाइं ।
जीवसमासाइं मुणी चउदसगुणठाणणामाइं ॥ ६७ ॥

झाया—सर्वविरतः अपि भावय नव पदार्थान् सप्त तत्वानि ।
जीवसमासान् मुने ! चतुर्दशगुणस्थाननामानि ॥ ६७ ॥

अर्थ—हे मुनि ! तू महाव्रत का धारक होने पर भी ६ पदार्थ, ७ तत्व, १४ जीव-समास और १४ गुणस्थानों का चिन्तन कर ॥ ६७ ॥

गाथा—णवविहवंबं पयद्धहि अब्बंभं दसविहं पमोत्तएण ।
मेहुणसण्णासंतो भमिओसि भवणएवे भीमे ॥ ६८ ॥

झाया—नवविधब्रह्मचर्यं प्रकटय अब्रह्म दशविधं प्रमुच्य ।
मैथुनसंज्ञासक्तः भ्रमितो ऽसि भवार्णवे भीमे ॥ ६८ ॥

अर्थ—हे मुनि ! तू दस प्रकार की काम अवस्था को छोड़कर ६ प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रकट कर, क्योंकि तूने कामसेवन में आसक्त होकर इस भयानक संसार समुद्र में भ्रमण किया है ॥ ६८ ॥

गाथा—भावसहिदो य मुणियो पावइ आराहणाचउक्कं च ।
भावरहिदो य मुणिवर भवइ चिरं दीहसंसारे ॥ ६९ ॥

छाया—भावसहितश्च मुनीनः प्राप्नोति आराधनाचतुष्कं च ।
भावरहितश्च मुनिवर ! भ्रमति चिरं दीर्घसंसारे ॥ ६९ ॥

अर्थ—हे मुनिवर ! शुद्धभावसहित मुनियों का स्वामी दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप इन चार आराधनाओं को पाता है तथा भावरहित मुनि बहुत काल तक इस दीर्घ संसार में भ्रमण करता है ॥ ६९ ॥

गाथा—पावति भावसवणा कल्लाणपरपराइं सोक्खाइं ।
दुक्खाइं ढव्वसवणा णरतिरियकुदेवजोणीण ॥ १०० ॥

छाया—प्राप्नुवन्ति भावश्रमणाः कल्याणपरम्पराणि सौख्यानि ।
दुःखानि द्रव्यश्रमणाः नरतिर्यक्कुदेवयोनी ॥ १०० ॥

अर्थ—भावलिङ्गी मुनि अनेक कल्याणों की परम्परा जिसमें ऐसे तीर्थकरादि के सुखों को पाते हैं । तथा द्रव्यलिङ्गी मुनि मनुष्य, तिर्यञ्च और खोटे देवों की योनि (गति) में दुःख पाते हैं ॥ १०० ॥

गाथा—छायासदोसदूसियमसणं गसिउं अमुद्धभावेण ।
पत्तोसि महावसणं तिरियगईण अणप्पवसो ॥ १०१ ॥

छाया—षट्चत्वारिंशदोषदूषितमशनं प्रसितं अशुद्धभावेन ।
प्राप्तो ऽसि महाव्यसनं तिर्यग्गतौ अनात्मवशः ॥ १०१ ॥

अर्थ—हे मुनि ! तूने अशुद्ध भाव से ४६ दोषों से दूषित आहार ग्रहण किया, जिससे तिर्यञ्चगति में पराधीन होकर बहुत दुःख पाया ॥ १०१ ॥

गाथा—सञ्चित्तभत्तपाणं गिद्धी दप्पेण ऽधी पभुत्तूण ।
पत्तोसि तिक्वदुक्खं अणाइकालेण तं चित्त ॥ १०२ ॥

छाया—सचित्तभक्तपानं गृह्यथा दर्पण अधीः प्रभुष्य ।

प्राप्नो ऽसि तीव्रदुःखं अनादिकालेन त्वं चित्त ॥ १०२ ॥

अर्थ—हे जीव ! तूने अज्ञानी होकर अत्यन्त तृष्णा और घमण्ड के कारण सचित्त (जीवसहित) भोजन व जलादि ग्रहण करके अनादि काल से अत्यन्त कठोर दुःख पाया ॥ १०२ ॥

गाथा—कंदं मूलं बीयं पुष्पं पत्तादि किंचि सच्चित्तं ।

असिऊण माणगव्वं भमिओसि अणंतसंसारे ॥ १०३ ॥

छाया—कन्दं मूलं बीजं पुष्पं पत्रादि किञ्चिन् सचित्तम् ।

अशित्वा मानगर्वे भ्रमितः असि अनन्तसंसारे ॥ १०३ ॥

अर्थ—हे जीव ! तूने कन्द, मूल, बीज, फूल, पत्ते आदि कुछ सचित्त वस्तुओं को मान (स्वाभिमान) और घमण्ड से खाकर इस अनन्त संसार में भ्रमण किया है ॥ १०३ ॥

गाथा—विणयं पंचपयारं पालहि मणवयणकायजोण्ण ।

अविणयणरा सुविहियं ततो मुत्ति न पावन्ति ॥ १०४ ॥

छाया—विनयं पंचप्रकारं पालय मनोवचनकाययोगेन ।

अविनतनराः सुविहितां ततो मुक्तिं न प्राप्नुवन्ति ॥ १०४ ॥

अर्थ—हे मुनि ! तू मन, वचन, काय से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार ५ प्रकार की विनय का पालन कर, क्योंकि अविनयी मनुष्य तीर्थंकर पद और मोक्ष को नहीं पाते हैं ॥ १०४ ॥

गाथा—णियसत्तिण महाजस भत्तीराण्ण णिण्णकालस्मि ।

तं क्खण जिएणभत्तिपरं विज्जावच्चं दसवियप्यं ॥ १०५ ॥

छाया—निजशक्त्या महायशः ! भक्तिरागेण नित्यकाले ।

त्वं कुरू जिनभक्तिपरं वैद्यावृत्त्यं दशविकल्पम् ॥ १०५ ॥

अर्थ—हे महायशवाले मुनि ! तू भक्ति के प्रेम से अपनी शक्तिपूर्वक सदैव जिनेन्द्रदेव की भक्ति में तत्पर करनेवाली दशप्रकार की वैद्यावृत्त्य का पालन कर ॥ १०५ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, रौद्र्य, ग्लाच, गण, कुल, संघ, साधु और मनोह इन १० प्रकार के मुनियों की भक्तिपूर्वक सेवा करना सो १० प्रकार का वैयावृत्य है ॥ १०५ ॥

गाथा— जं किंचि कयं दोसं मणवयकापहिं असुहभावेण ।
तं गरहि गुरुसयासे गारव मायं च मोत्तूण ॥ १०६ ॥

छाया—यः कश्चित् कृतः दोषः मनोवचःकार्यैः अशुभभावेन ।
तं गर्ह गुरुसकाशे गारवं मायां च मुक्त्वा ॥ १०६ ॥

अर्थ—हे मुनि ! तूने अशुभभाव से मन वचन काय के द्वारा जो कोई दोष किया हो, तू गर्व और माया छोड़कर गुरु के समीप उसकी निन्दा कर ॥ १०६ ॥

गाथा—दुज्जणवयराचडक्कं णिट्ठुरकडुयं सहंति सत्पुरिसा ।
कम्ममलणासराट्ठं भावेण य णिम्ममा सवणा ॥ १०७ ॥

छाया—दुर्जनवचनचपेटां निष्ठुरकटुकं सहन्ते सत्पुरुषाः ।
कर्ममलनाशनार्थं भावेन च निर्ममाः श्रमणाः ॥ १०७ ॥

अर्थ—सज्जन मुनीश्वर (सम्यक्त्वभाव से) ममत्व रहित होते हुए दुर्जनों के निर्दय और कठोर वचनरूपी चपेटोंको कर्ममल का नाश करनेके लिए सहते हैं ॥ १०७ ॥

गाथा— पावं खवइ असेसं खमाय परिमंढिओ य मुणिएवरो ।
खेयरअमरणाणां पसंसणीओ धुवं होई ॥ १०८ ॥

छाया—पापं क्षिपति अशेषं क्षमया परिमण्डितः च मुनिप्रवरः ।
खेचरामरनराणां प्रशंसनीयः ध्रुवं भवति ॥ १०८ ॥

अर्थ—जो श्रेष्ठ मुनि क्षमा गुण से भूषित है वह समस्त पापों के समुदाय को नष्ट कर देता है और निश्चय से विद्याधर, देव तथा मनुष्यों के द्वारा प्रशंसा किया जाता है ॥ १०८ ॥

गाथा—इय गाऊण खमागुण खमेहि तिविहेण सयलजीवाणां ।
चिरसंचियकोहसिहिं वरखमसलिलेण सिंचेह ॥ १०९ ॥

छाया— इति ज्ञात्वा क्षमागुण ! क्षमस्व त्रिविधेन सकलजीवान् ।

चिरसंचितक्रोधशिल्पिनं वरक्षमासलिलेन सिंच ॥ १०६ ॥

अर्थ— हे क्षमागुण के धारक मुनि ! ऐसा जान कर मन वचन काय से सब जीवों को क्षमा कर । तथा बहुत समय से इकट्टी की हुई क्रोधरूपी अग्नि को उत्तम क्षमारूपी जल से शान्त कर ॥ १०६ ॥

गाथा— दिक्खाकालाईयं भावहि अविचार दसणविसुद्धो ।

उत्तमबोहिरिणिमित्तं असारसाराणि मुणिकुण ॥ ११० ॥

छाया— दीक्षाकालादीयं भावय अविचार ! दर्शनविशुद्धः ।

उत्तमबोधिनिमित्तं असारसाराणि ज्ञात्वा ॥ ११० ॥

अर्थ— हे विवेकरहित मुनि ! तू सम्यग्दर्शन से पवित्र होता हुआ सार और असार पदार्थों को जान कर श्रेष्ठ रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए, दीक्षाकाल आदि के वैराग्य परिणाम का विचार कर ॥ ११० ॥

गाथा— सेवहि चउबिहलिंगं अब्भंतरलिंगसुद्धिमावण्णो ।

बाहिरलिंगमकज्जं होइ फुडं भावरहियाणं ॥ १११ ॥

छाया— सेवस्व चतुर्विधलिंगं अब्यन्तरलिंगशुद्धिमापन्नः ।

बाह्यलिंगमकार्यं भवति स्फुटं भावरहितानाम् ॥ १११ ॥

अर्थ— हे मुनि ! तू अन्तरङ्ग शुद्धि को प्राप्त होता हुआ केशलोच, वरूत्याग, रत्नान-
त्याग, और पीढ़ी कमण्डलु रखना इन चार बाह्य लिंगों को धारण कर
क्योंकि शुद्धभावरहित जीवों का बाह्यलिंग निश्चय से निरर्थक ही होता
है ॥ ११० ॥

गाथा— आहारभयपरिग्गहमेहुणसण्णाहि मोहिओसि तुमं ।

भमिओ संसारवणे अणाइकालं अणप्पवसो ॥ ११२ ॥

छाया— आहारभयपरिग्रहमैथुनसंज्ञाभिः मोहितोऽसि त्वम् ।

अभितः संसारवने अनादिकालं अनात्मवशः ॥ ११२ ॥

अर्थ— हे मुनि ! तूने आहार, भय, परिग्रह और मैथुन संज्ञाओं से मोहित और पराधीन होकर अनादि काल से संसाररूपी घन में भ्रमण किया है ॥ ११२ ॥

गाथा— बाहिरसयणत्तावणतरूमूलाईणि उत्तरगुणाणि ।

पालहि भावविसुद्धो पूयालाहं ए ईहंतो ॥ ११३ ॥

छाया— बहिःशयनात्तापनतरूमूलादीन् उत्तरगुणान् ।

पालय भावविशुद्धः पूजालाभं न ईहमानः ॥ ११३ ॥

अर्थ— हे मुनि ! तू आत्मभावना से पवित्र होकर पूजा, लाम आदि न चाहते हुए खुले मैदान में सोना, आतापनयोग अर्थात् पर्वत की चोटी पर धूप में खड़े होकर ध्यान लगाना और वृक्ष के नीचे बैठना आदि उत्तर गुणों का पालन कर ॥ ११३ ॥

गाथा— भावहि पढमं तत्त्वं विदियं तदियं चउत्थ पंचमयं ।

तियरणसुद्धो अप्पं अणाइणिहणं तिवग्गहरं ॥ ११४ ॥

छाया— भावय प्रथमं तत्त्वं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं पञ्चमकम् ।

त्रिकरणशुद्धः आत्मानं अनादिनिधनं त्रिवर्गहरम् ॥ ११४ ॥

अर्थ— हे मुनि ! तू मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना से शुद्ध होकर पहले जीव तत्व, दूसरे अजीव तत्व, तीसरे आस्रव तत्व, चौथे बन्धतत्व, पांचवें संवर तत्व और आदि अन्त रहित तथा धर्म, अर्थ, काम इन तीन पुरुषार्थों को हरने वाले मोक्षरूप आत्मा का ध्यान कर ॥ ११४ ॥

गाथा— जाव ए भावइ तत्त्वं जाव ए चित्तेइ चित्तणीयाइं ।

ताव ए पावइ जीवो जरमरणविवज्जियं ठाणं ॥ ११५ ॥

छाया— यावन्न भावयति तत्त्वं यावन्न चिन्तयति चिन्तनीयानि ।

तावन्न प्राप्नोति जीवः जरामरणविवर्जितं स्थानम् ॥ ११५ ॥

अर्थ— जब तक यह आत्मा जीवादि तत्वों की भावना नहीं करता है और चिन्तवन करने योग्य धर्मध्यान, शुक्लध्यान तथा अनुप्रेक्षा (भावना) आदि का चिन्तवन नहीं करता है, तब तक जरामरणरहित स्थान अर्थात् मोक्ष को नहीं पाता है ॥ ११५ ॥

गाथा— पापं हृवइ असेसं पुण्यमशेषं च हृवइ परिणामा ।
परिणामादो बंधो-मुक्त्वो जिणसासणे दिट्ठो ॥ ११६ ॥

छाया— पापं भवति अशेषं पुण्यमशेषं च भवति परिणामात् ।
परिणामाद् बन्धः मोक्षः जिनशासने दिष्टः ॥ ११६ ॥

अर्थ— समस्त पुण्य और पाप परिणाम से ही होते हैं तथा बन्ध और मोक्ष भी परिणाम से ही होते हैं, ऐसा जिन शास्त्र में कहा है ॥ ११६ ॥

गाथा— मिच्छत्त तह कसायाऽसंजमजोगेहिं अमुहलोस्सेहिं ।
बंधइ अमुहं कम्मं जिणवयणपरम्मुहो जीवो ॥ ११७ ॥

छाया— मिथ्यात्वं तथा कषायासंयमयोगैः अशुभलेश्यैः ।
बध्नाति अशुभं कर्म जिनवचनपराङ्मुखः जीवः ॥ ११७ ॥

अर्थ— जिनेन्द्रभगवान् के वचन से पराङ्मुख (विरुद्ध) जीव मिथ्यात्व, कषाय, असंयम, योग और अशुभ लेश्याओं के द्वारा अशुभ कर्म बांधता है ॥ ११७ ॥

गाथा— तन्निवरीओ बंधइ सुहकम्मं भावसुद्धिमावणणो ।
दुविहपयारं बंधइ संत्तेपेणैव वज्जरियं ॥ ११८ ॥

छाया— तद्विपरीतः बध्नाति शुभकर्म भावशुद्धिमापन्नः ।
द्विविधप्रकारं बध्नाति संत्तेपेणैव कथितम् ॥ ११८ ॥

अर्थ— उस पहले कहे हुए मिथ्यादृष्टि जीव से विपरीत सम्यग्दृष्टि जीव भावों की शुद्धता को प्राप्त कर शुभकर्म बांधता है । इस तरह जीव दोनों प्रकार के कर्म बांधता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान् ने संत्तेप से कहा है ॥ ११८ ॥

गाथा— गाणावरणादीहिं य अट्टहिं कम्मेहिं वेट्ठिओ य अहं ।
डहिअण इण्हिं पयडमि अणंत गाणाइगुणचित्तां ॥ ११९ ॥

छाया— ज्ञानावरणादिभिश्च अष्टभिः कर्मभिः वेष्टितश्चाहम् ।
दग्ध्वा इदानीं प्रकटयामि अनन्तज्ञानादिगुणचेतनाम् ॥ ११९ ॥

अर्थ— हे मुनि ! तू ऐसा विचार कर कि मैं ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से ढका

हुआ हूँ । इसलिये अब इनको जला कर अनन्तज्ञानादि गुरुरूप चेतना को प्रगट करूँ ॥ ११६ ॥

गाथा— शीलसहस्रद्वारस चउरासीगुणगणान लक्खाइं ।

भावहि अणुदिणु णिहितं असप्पलावेण किं बहुणा ॥ १२० ॥

झाया— शीलसहस्राष्ट्रदश चतुरशीतिगुणगणानां लक्षणि ।

भावय अनुदिनं निखिलं असत्प्रलापेन किं बहुना ॥ १२० ॥

अर्थ— हे मुनि ! तू प्रतिदिन १८००० प्रकार का शील और ८४००००० प्रकार के गुण इन सब का चिन्तवन कर । व्यर्थ ही बहुत कहने से क्या लाभ है ॥ १२० ॥

गाथा— भायहि धम्मं सुक्कं अट्ट रउहं च भाण मोत्तूण ।

रूहट्ट भाइयाइं इमेण जीवेण चिरकालं ॥ १२१ ॥

झाया— ध्याय धर्म्यं शुक्लं आर्तं रौद्रं च ध्यानं मुक्त्वा ।

रौद्रार्ते ध्याते अनेन जीवेन चिरकालम् ॥ १२१ ॥

अर्थ— हे मुनि ! तू आर्तध्यान और रौद्रध्यान को छोड़ कर धर्म-ध्यान और शुक्ल-ध्यान का चिन्तवन कर, क्योंकि इस जीव ने अनादिकाल से आर्तध्यान और रौद्रध्यान का ही चिन्तवन किया है ॥ १२१ ॥

गाथा— जे केवि दब्बसवणा इंदियसुहआउला ण छिंदंति ।

छिंदंति भावसवणा भाणकुठारेहिं भवरूक्खं ॥ १२२ ॥

झाया— ये केऽपि द्रव्यश्रमणाः इन्द्रियसुखाकुलाः न छिन्दन्ति ।

छिन्दन्ति भावश्रमणाः ध्यानकुठारैः भववृत्तम् ॥ १२२ ॥

अर्थ— जो इन्द्रिय जनित सुखों से व्याकुल द्रव्यलिङ्गी मुनि हैं वे संसाररूपी वृत्त को नहीं काटते हैं, किन्तु जो भावलिङ्गी मुनि हैं वे ही ध्यान रूपी कुल्हाड़ों से संसार रूपी वृत्त को काटते हैं ॥ १२२ ॥

गाथा— जह् दीवो गब्भहरे मारुयबाहाविबज्जिओ जलइ ।

तह् रायानिलरहिओ भरणपईवो वि पज्जलई ॥ १२३ ॥

छाया— यथा दीपः गर्भगृहे मारुतबाधाविषर्जितः ज्वलति ।

तथा रागानिलरहितः ध्यानप्रदीपोऽपि प्रज्वलति ॥ १२३ ॥

अर्थ—जैसे भीतर के घर में रक्त्वा हुआ दीपक हवा की बाधा रहित जलता रहता है, वैसे ही रागभाव रूपी हवा की बाधारहित ध्यानरूपी दीपक भी जलता रहता है अर्थात् आत्मा में प्रकाश करता है ॥ १२३ ॥

गाथा— भायहि पंचवि गुरवे मंगलचउसरणलोयपरियरिए ।

एरसुरखेयरमहिए आराहणणायगे वीरे ॥ १२४ ॥

छाया—ध्याय पंचापि गुरून् मंगलचतुःशरणलोकपरिकरितान् ।

नरसुरखेचरमहितान् आराधनानायकान् वीरान् ॥ १२४ ॥

अर्थ—हे मुनि ! तू पंच परमेष्ठी का ध्यान कर, जो मंगलरूप हैं । तथा अरहन्त, सिद्ध, साधु और धर्म ये चारों शरणरूप हैं, लोक में उत्तम हैं, मनुष्य, देव और विद्याधरों के पूज्य हैं, आराधनाओं के स्वामी हैं और वीर हैं ॥ १२४ ॥

गाथा— णाणमयविमलसीयलसलिलं पाऊण भविय भावेण ।

बाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिवा होंति ॥ १२५ ॥

छाया— ज्ञानमयविमलशीतलसलिलं प्राप्य भव्याः भावेन ।

व्याधिजरामरणवेदनादाहविमुक्ताः शिवाः भवन्ति ॥ १२५ ॥

अर्थ—भव्य जीव सम्यक्त्व रूप भाव के द्वारा ज्ञानमय निर्मल और शीतल जल को पीकर रोग, जरा, मरण, पीड़ा और दाह (मन की जलन) से रहित होते हुए सिद्ध होते हैं ॥ १२५ ॥

गाथा— जह बीयम्मि य दड्ढे णवि रोहइ अंकुरोय महिबीडे ।

तह कम्मबीयदड्ढे भवंकुरो भावसवणाणं ॥ १२६ ॥

छाया— यथा बीजे च दग्धे नापि रोहति अंकुरश्च महीपीठे ।

तथा कर्मबीजदग्धे भवांकुरः भावभ्रमणानाम् ॥ १२६ ॥

अर्थ—जैसे बीज जल जाने पर भूमि पर अंकुर नहीं उगता है, वैसे ही कर्मरूपी

बीज जल जाने पर भावलिङ्गी मुनियों का संसार रूपी अंकुर नहीं उगता है ॥ १२६ ॥

गाथा— भावसवणो वि पावइ सुक्खाइं दुहाइं दव्वसवणो य ।
इय णाउं गुणदोसे भावेण य संजुदो होह ॥ १२७ ॥

छाया— भावभ्रमणः अपि प्राप्नोति सुखानि दुःखानि द्रव्यभ्रमणश्च ।
इति ज्ञात्वा गुणदोषान् भावेन च संयुतः भव ॥ १२७ ॥

अर्थ—भावलिङ्गी मुनि सुखों को पाता है और द्रव्यलिङ्गी मुनि दुःखों को पाता है ।
इस प्रकार गुण और दोषों को जान कर भाव सहित संयमी बनो ॥ १२७ ॥

गाथा— तित्थयरगणहराइं अब्भुदयपरंपराइं सोक्खाइं ।
पावन्ति भावसहिआ संखेवि जिणेहिं वज्जरियं ॥ १२८ ॥

छाया— तीर्थकरगणधरादीनि अभ्युदयपरम्पराणि सौख्यानि ।
प्राप्नुवन्ति भावसहिताः संक्षेपेण जिनैः भणितम् ॥ १२८ ॥

अर्थ— भावलिङ्गी मुनि अनेक ऐश्वर्य वाले तीर्थकर और गणधरादि के सुखों को पाते हैं, ऐसा संक्षेप से जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ १२८ ॥

गाथा— ते धण्णा ताण्ण णमो दंसणवरणाणचरणसुद्धाणं ।
भावसहियाण्ण णिच्चं तिविहेण पणट्टमायाणं ॥ १२९ ॥

छाया— ते धन्याः तेभ्यः नमः दर्शनवरज्ञानचरणशुद्धेभ्यः ।
भाव सहितेभ्यः नित्यं त्रिविधेन प्रणष्टमायेभ्यः ॥ १२९ ॥

अर्थ— वे मुनि धन्य (पुण्यवान्) हैं और उनको सदा मन, वचन, काय से हमारा नमस्कार हो, जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से पवित्र हैं, आत्मानुभवरूप शुद्ध परिणाम सहित हैं तथा छल कपटरहित हैं ॥ १२९ ॥

गाथा— इड्ढिमतुलं विउव्विय किंणरकिंपुरिसअमरखयेरेहिं ।
तेहिं वि ण जाइ मोहं जिणभावणभाविओ धीरो ॥ १३० ॥

छाया— ऋद्धिमतुलां विकृतां किन्नरकिम्पुरुषामरस्वचरैः ।

तैरपि न याति मोहं जिनभावनाभावितः धीरः ॥ १३० ॥

अर्थ—शुद्धसम्यक्स्वरूप भावनासहित धीर मुनि किन्नर, किम्पुरुष, कल्पवासी देव और विद्याधरों के द्वारा विक्रियारूप फैलाई हुई अनुपम (अनोखी) ऋद्धि को देखकर उनके द्वारा भी मोहित नहीं होता है ॥ १३० ॥

गाथा— किं पुण गच्छइ मोहं णरसुरसुक्खाण अप्पसाराणां ।

जाणंतो पस्संतो चिंततो मोक्ख मुणिधवल्लो ॥ १३१ ॥

छाया— कि पुनः गच्छति मोहं नरसुरसौख्यानां अल्पसाराणां ।

जानन् पश्यन् चिन्तयन् मोक्षं मुनिधवलः ॥ १३१ ॥

अर्थ— जो श्रेष्ठ मुनि मोक्ष को जानता है, देखता है और विचार करता है, वह क्या थोड़े सार वाले मनुष्य और देवों के सुखों में मोह को प्राप्त हो सकता है अर्थान् कभी नहीं हो सकता ॥ १३१ ॥

गाथा— उत्थरइ जाण जरओ रोयग्गी जा ण ड्हइ देहउडिं ।

इंदियबलं न वियलइ ताव तुमं कुणहि अप्पहियं ॥ १३२ ॥

छाया— आक्रमते यावन्न जरा रोगाग्निर्यावन्न दहति देहकुटीम् ।

इन्द्रियबलं न विगलति तावत् त्वं कुरु आत्महितम् ॥ १३२ ॥

अर्थ— हे मुनि ! जब तक तेरा बुढ़ापा नहीं आता है और जब तक रोगरूपी अग्नि देहरूपी भोंपड़ी को नहीं जलाती है तथा इन्द्रियों का बल नहीं घटता है तब तक तुम आत्मा का हितसाधन करो ॥ १३२ ॥

गाथा— छज्जीव सडायदणं णिष्णं मणवयणकायजोपहिं ।

कुरु दय परिहर मुणिवर भावि अपुव्वं महासत्त ॥ १३३ ॥

छाया— षड्जीवषडायतनानां नित्यं मनोवचनकाययोगैः ।

कुरु दयां परिहर मुनिवर ! भावय अपूर्वं महासत्त्व ! ॥ १३३ ॥

अर्थ— हे उत्कृष्ट परिणाम के धारक मुनिवर ! तुम मन, वचन, काय से सदा ब्रह्म

काय के जीवों की रक्षा करो और पाप के छह आयतनों (कारखों) का त्याग करो तथा पहले न जानी हुई आत्मभावना का चिन्तन करो ॥१३३॥

गाथा—इसविहपाणाहारो अणंतभवसागरे भ्रमतेण ।

भोगसुहकारणं कदो य तिविहेण सयलजीवाणं ॥ १३४ ॥

छाया—दशविधप्राणाहारः अनन्तभवसागरे भ्रमता ।

भोगसुखकारणार्थं कृतश्चत्रिविधेन सकलजीवानाम् ॥ १३४ ॥

अर्थ—हे मुनि ! अनन्त भवसागर में घूमते हुए तूने मन, वचन, कायसे भोग सम्बन्धी सुखों को पाने के लिये सम्पूर्ण त्रस और स्थावर जीवों के दश प्रकार के प्राणों का आहार किया ॥ १३४ ॥

गाथा—प्राणिवहेहि महाजस चउरासीलक्खजोणिमज्झमि ।

उप्पज्जंत मरंतो पत्तोसि निरंतरं दुक्खं ॥ १३५ ॥

छाया—प्राणिवधैः महायशः ! चतुरशीतिलक्षयोनिमध्ये ।

उत्पद्यमानः म्रियमाणः प्राप्तो ऽसि निरन्तरं दुःखम् ॥ १३५ ॥

अर्थ—हे महायशवाले मुनि ! तुमने जीवों की हिंसा से चौरासी लाख योनियों में उत्पन्न होते और मरते हुए निरन्तर दुःख पाया है ॥ १३५ ॥

गाथा—जीवाणमभयदानं देहि मुणी पाणिभूयसत्ताणं ।

कल्लाणसुहणिमित्तं परंपरा तिविहसुद्धीण ॥ १३६ ॥

छाया—जीवानामभयदानं देहि मुने ! प्राणिभूतसत्वानाम् ।

कल्याणसुखनिमित्तं परम्परया त्रिविधशुद्धया ॥ १३६ ॥

अर्थ—हे मुनि ! तुम परम्परा से तीर्थकरादि के कल्याण सम्बन्धी सुखों को पाने के लिये मन, वचन, काय की शुद्धता से सब जीवों को अभयदान दो ॥१३६॥

गाथा—असियसय किरियवाई अक्किरियाणं च होइ चुलसीदी ।

सत्तट्टी अण्णाणी वेणैया होंति बत्तीसा ॥ १३७ ॥

छाया—अशीतिशतं क्रियावादिनामक्रियाणां च भवति चतुरशीतिः ।

सप्तषष्टिरज्ञानिनां वैनयिकानां भवन्ति द्वात्रिंशत् ॥ १३७ ॥

अर्थ—क्रियावादी मिथ्यादृष्टियों के १८०, अक्रियावादियों के ८४, अज्ञानियों के ६७ और वैनयिकों के ३२ भेद होते हैं ॥ इस प्रकार कुल ३६३ मिथ्यामत संसार में प्रचलित हैं ॥ १३७ ॥

गाथा—ए मुयइ पयडि अभव्वो सुट्ठुवि आयण्णउण जिणधम्मं ।
गुडदुद्धं पि पिबंता ए पयणया णिव्विसा होति ॥ १३८ ॥

छाया—न मुञ्चति प्रकृतिमभव्यः सुष्ठु अपि आकर्ण्य जिनधर्मम् ।
गुडदुग्धमपि पिवन्तः न पन्नगाः निर्विषाः भवन्ति ॥ १३८ ॥

अर्थ—अभव्य जीव जिनधर्म को अच्छी तरह सुनकर भी अपनी प्रकृति अर्थात् मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता है । जैसे गुड़ मिला दूध पीने पर भी सर्प विष रहित नहीं होते हैं ॥ १३८ ॥

गाथा—मिच्छत्तद्धरणदिट्ठी दुद्धीए दुम्मएहिं दोसेहिं ।
धम्मं जिणपण्णत्तं अभव्वजीवो ए रोचेदि ॥ १३९ ॥

छाया—मिथ्यात्वद्वन्द्वदृष्टिः दुर्धिया दुर्मतैः दोषैः ।
धर्मं जिनप्रज्ञप्तं अभव्यजीवः न रोचयति ॥ १३९ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व परिणाम से जिसकी ज्ञान दृष्टि ढकी हुई है, ऐसा अभव्य जीव मिथ्यामतरूपी दोषों से उत्पन्न हुई मिथ्याबुद्धि के कारण जिनेन्द्र भगवान् के उपदेश किए हुए धर्म का श्रद्धान नहीं करता है ॥ १३९ ॥

गाथा—कुच्छियधम्मम्मिरओ कुच्छियपासण्हिभत्तिसंजुत्तो ।
कुच्छियतवं कुण्णतो कुच्छियगइभायणं होई ॥ १४० ॥

छाया—कुत्सितधर्मं रतः कुत्सितपाषण्डभक्तिसंयुक्तः ।
कुत्सिततपः कुर्वन् कुत्सितगतिभाजनं भवति ॥ १४० ॥

अर्थ—जो जीव निन्दित धर्म में लीन है, निन्दित पाषण्डी (ढोंगी) साधुओं की भक्ति करता है और निन्दित (अज्ञानरूप) तप करता है वह खोटी गति का पात्र होता है ॥ १४० ॥

गाथा—इय मिच्छत्तावासे कुणयकुसत्येहिं मोहिञ्चो जीवो ।
भमिञ्चो अणाइकालं संसारे धीर चित्तेहि ॥ १४१ ॥

छाया—इति मिथ्यात्ववासे कुणयकुशास्त्रैः मोहितः जीवः ।
भ्रमितः अनादिकालं संसारे धीर ! चिन्तय ॥ १४१ ॥

अर्थ—इस प्रकार सर्वथा एकान्त रूप मिथ्यानय से पूर्ण शास्त्रों से मोहित हुए जीव ने अनादि काल से मिथ्यात्व के स्थान रूप इस संसार में भ्रमण किया है । सो हे धीर मुनि ! तू इसका विचार कर ॥ १४१ ॥

गाथा—पासंडि त्तिणिण सया तिसट्ठि भेया उमग्ग मुत्तूण ।
रंभहि मणु जिणमग्गे असप्पलावेण किं बहुणा ॥ १४२ ॥

छाया—पाषण्डिनः त्रीणि शतानि त्रिषष्टिभेदाः उन्मार्गं मुक्त्वा ।
रुद्धि मनः जिनमार्गे असत्प्रलापेन किं बहुना ॥ १४२ ॥

अर्थ—हे जीव ! तुम ३६३ भेदरूप पाषण्डियों के मार्ग को छोड़कर जिनमार्ग में अपना मन लगाओ । व्यर्थ बहुत कहने से क्या लाभ है ॥ १४२ ॥

गाथा—जीवविमुक्को सवञ्चो दंसणमुक्को य होइ चलसवञ्चो ।
सवञ्चो लोयअपुज्जो लोउत्तरयन्मि चलसवञ्चो ॥ १४३ ॥

छाया—जीवविमुक्तः शवः दर्शनमुक्तश्च भवति चलशवः ।
शवः लोके अपूज्यः लोकोत्तरे चलशवः ॥ १४३ ॥

अर्थ—इस लोक में जीवरहित शरीर शव (मुर्दा) कहलाता है, वसी प्रकार सम्यग्दर्शनरहित पुरुष चलता हुआ शव होता है । इन दोनों में मुर्दा तो लोक में अपूज्य है अर्थात् जलाया या गाढ़ दिया जाता है और चलता हुआ मुर्दा लोकोत्तर अर्थात् उत्कृष्ट सम्यग्दृष्टी पुरुषों में अपूज्य (अनादर के योग्य) होता है अथवा परलोक में नरकतिर्यङ्गादि नीच गति पाता है ॥ १४३ ॥

गाथा—जह तारयाण चंदो मयराञ्चो मयउत्ताण सव्वाणं ।
अहिञ्चो तह सम्मत्तो रिसिसावय दुविहधम्माणं ॥ १४४ ॥

छाया—यथा तारकाणां चन्द्रः मृगराजः मृगकुलानां सर्वेषाम् ।

अधिकः तथा सम्यक्त्वं ऋषिश्रावकद्विविधधर्माणाम् ॥ १४४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार ताराओं में चन्द्रमा प्रधान है और पशुओं में सिंह प्रधान है, वैसे ही मुनि और श्रावक सम्बन्धी दोनों प्रकार के धर्मों में सम्यग्दर्शन ही प्रधान है ॥ १४४ ॥

गाथा—जह फणिराओ सोहइ फणमणिमाणिक्ककिरणविष्फुरिओ ।

तह विमलदंसणधरो जिणभत्ती पवयणे जीवो ॥ १४५ ॥

छाया—यथा फणिराजः शोभते फणमणिमाणिक्यकिरणविष्फुरितः ।

तथा विमलदर्शनधरः जिनभक्तिः प्रवचने जीवः ॥ १४५ ॥

अर्थ—जैसे फणिराज अर्थात् धरयेन्द्र हजार फणों की मणियों के बीच में स्थित माणिक्य (लाल मणि) की किरणों से शोभायमान होता है, वैसे ही निर्मल सम्यक्त्व का धारक जिनेन्द्रभक्त जीव जैन सिद्धान्त में शोभायमान होता है ॥ १४५ ॥

गाथा—जह तारायणसहियं ससहरबिंबं खमण्डले विमले ।

भाविप तववयविमलं जिणलिंगं दंसणविसुद्धं ॥ १४६ ॥

छाया—यथा तारागणसहितं शशधरबिम्बं खमण्डले विमले ।

भावितं तपोव्रतविमलं जिनलिङ्गं दर्शनविशुद्धम् ॥ १४६ ॥

अर्थ—जैसे निर्मल आकाश मण्डल में ताराओं के समुदाय सहित चन्द्रमा का बिम्ब शोभित होता है, वैसे ही तप और व्रतों से निर्मल और सम्यग्दर्शन से पवित्र जिनलिङ्ग (दिग्म्बर वेष) शोभित होता है ॥ १४६ ॥

गाथा—इय गाउं गुणदोसं दंसणरयणां धरेह भावेण ।

सारं गुणरयणाणां सोवाणां पढम मोक्खस्स ॥ १४७ ॥

छाया—इति ज्ञात्वा गुणदोषं दर्शनरत्नं धरत भावेन ।

सारं गुणरत्नानां सोपानं प्रथमं मोक्षस्य ॥ १४७ ॥

अर्थ—हे भव्य जीवो ! तुम, इस प्रकार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के गुण और दोष को जानकर सम्यक्त्व रूप रत्न को शुद्ध भाव से धारण करो, जो सम्पूर्ण गुणरत्नों में उत्तम है और मोक्षमहल की पहली सीढ़ी है ॥ १४७ ॥

गाथा—कृत्ता भोइ अमुत्तो सरीरमित्तो अणाइण्हरो य ।

दंसणणाणुवओगो णिहिट्ठो जिणवरिदेहिं ॥१४८॥

छाया—कर्ताभोक्ता अमूर्तः शरीरमात्रः अनादिनिधनश्च ।

दर्शनज्ञानोपयोगः निर्दिष्टः जिनवरेन्द्रैः ॥१४८॥

अर्थ—यह जीव शुभ अशुभ कर्मों का अथवा आत्मपरिणामों का कर्ता, कर्मफल का भोक्ता, मूर्तिरहित, शरीर के समान आकार वाला, आदि अन्तरहित, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग सहित है ऐसा जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है ॥ १४८ ॥

गाथा—इंसणणाणावरणं मोहणियं अंतराइयं कम्मं ।

णिट्टवइ भवियजीवो सम्मं जिणभावणाजुत्तो ॥१४९॥

छाया—दर्शनज्ञानावरणं मोहनीयं अन्तरायकं कर्म ।

निष्ठापयति भव्यजीवः सम्यक् जिनभावनायुक्तः ॥१४९॥

अर्थ—भलीभांति जिनभावनासहित भव्यजीव ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिया कर्मों को नाश करता है ॥१४९॥

गाथा—बलसोक्खणाणदंसण चत्तारिवि पायडा गुणा होंति ।

राट्ठे घाइचउक्के लोयालोयं पयासेदि ॥१५०॥

छाया—बलसौख्यज्ञानदर्शनानि चत्वारोऽपि प्रकटा गुणा भवन्ति ।

नष्टे घातिचतुष्के लोकालोकं प्रकाशयति ॥१५०॥

अर्थ—चार घातिया कर्मों का नाश होने पर अनन्त बल, अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन ये चार गुण प्रगट होते हैं । इन गुणों के प्रगट होने पर जीव लोकालोक को प्रकाशित करता है ॥ १५० ॥

गाथा—णाणी सिव परमेष्टी सव्वरू विणहु चउमुहो बुद्धो ।

अणो वि य परमणो कम्मविमुक्कोय होइ फुडं ॥१५१॥

छाया—ज्ञानी शिवः परमेष्ठी सर्वज्ञः विष्णुः चतुर्मुखः बुद्धः ।

आत्मा अपि च परमात्मा कर्मविमुक्तश्च भवति स्फुटम् ॥ १५१ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन के प्रभाव से यह संसारी जीव कर्मबन्धन से छूटकर परमात्मा हो जाता है, जिसको ज्ञानी (केवल ज्ञानी) शिव (कल्याणरूप), परमेष्ठी (परमपद में स्थित) सर्वज्ञ (सब पदार्थों को जाननेवाला) विष्णु (ज्ञान के द्वारा समस्त लोक में व्यापक) चतुर्मुख (सब ओर देखने वाला) बुद्ध (ज्ञाता) आदि कहते हैं ॥ १५१ ॥

गाथा—इय घाइकम्ममुक्को अट्टारहदोसवज्जिओ सयलो ।

तिहुबणभवणपदीवो देऊ मम उत्तमं बोहिं ॥१५२॥

छाया—इति घातिकर्ममुक्तः अष्टादशदोषवर्जितः सकलः ।

त्रिभुवनभवनप्रदीपः ददातु मह्यं उत्तमां बोधिम् ॥ १५२ ॥

अर्थ—इस प्रकार घातिया कर्मों से रहित, १८ दोष रहित, परमौदारिक शरीर सहित, तीनलोक रूपी घर को प्रकाशित करने को दीपक के समान श्रीअरहन्तदेव मुझे रत्नत्रय प्रदान करें। इस प्रकार आचार्य श्रीकुन्दकुन्दस्वामी प्रार्थना करते हैं ॥ १५२ ॥

गाथा—जिणवरचरणंबुरुहं एमंति जे परमभक्तिरायेण ।

ते जन्मवेलिमूलं खणंति वरभावसत्थेण ॥१५३॥

छाया—जिनवरचरणाम्बुरुहं नमन्ति ये परमभक्तिरागेण ।

ते जन्मवल्लीमूलं खनन्ति वरभावशस्त्रेण ॥१५३॥

अर्थ—जो भव्यपुरुष उत्तम भक्ति और अनुराग से जिनभगवान् के चरणकमलों को नमस्कार करते हैं, वे उत्तम भावरूप हथियार से संसाररूप बेल को जड़ से खोद देते हैं अर्थात् मिथ्यात्व का सर्वथा नाश करते हैं ॥ १५३ ॥

गाथा—जह सलिलेण ए लिप्पइ कमलिणिपत्तं सहावपयडीय ।

तह भावेण ए लिप्पइ कसायविसर्पहिं सप्पुरित्तो ॥१५४॥

छाया—यथा सलिलेन न लिप्यते कमलिनीपत्रं स्वभावप्रकृत्या ।

तथा भावेन न लिप्यते कषायविषयैः सत्पुरुषः ॥१५१॥

अर्थ—जैसे कमलिनी का पत्र स्वभाव से ही जल के द्वारा नहीं छुआ जाता है, वैसे ही सम्यग्दृष्टी पुरुष उत्तम भावों द्वारा क्रोधादि कषायों और इन्द्रिय विषयों से लिप्त नहीं होता है ॥ १५४ ॥

गाथा—तेवि य भणामिहं जे सयलकलासीलसंजमगुरोहिं ।

बहुदोसाणावासो सुमलिणचित्तो ए सावयसमो सो ॥१५५॥

छाया—तानपि च भणामि ये सकलकलारीलसंयमगुरौः ।

बहु दोषाणामावासः सुमलिनचित्तः न श्रावकसमः सः ॥ १५५ ॥

अर्थ—श्रीकुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि जो सम्पूर्ण कलाओं और शील, संयम आदि गुणों सहित हैं उन सम्यग्दृष्टि पुरुषों को हम मुनि कहते हैं । तथा जो अनेक दोषों का घर है, अत्यन्त मलिन चित्त है, ऐसा मिथ्यादृष्टि पुरुष श्रावक के समान भी नहीं है, किन्तु वास्तव में मुनि वेषधारी बहुरूपिया है ॥ १५५ ॥

गाथा—ते धीरवीरपुरिसा खमदमखगोण विष्फुरंतेण ।

दुज्जयप्रबलबलुद्धरकषायभट्टाणिज्जिया जेहिं ॥१५६॥

छाया—ते धीरवीरपुरुषाः क्षमादमखङ्गोण विस्फुरता ।

दुर्जयप्रबलबलोद्धरकषायभटाः निर्जिता यैः ॥१५६॥

अर्थ—वे पुरुष धीर वीर हैं जिन्होंने चमकते हुए क्षमा और इन्द्रियों के दमनरूप तलवार से अत्यन्त कठिनता से जीतने योग्य बलवान् और बल से उन्मत्त कषायरूपी योद्धाओं को जीत लिया है ॥ १५६ ॥

गाथा—धण्णा ते भयवंता दंसणणाणग्गपवरहत्थेहिं ।

विसयमयरहरपड्डिया भविया उत्तारिया जेहिं ॥१५७॥

छाया—धन्याः ते भगवन्तः दर्शनज्ञानाग्रप्रवरहस्तेः ।

विषयमकरधरपतिताः भव्याः उत्तारिताः यैः ॥१५७॥

अर्थ—वे पुरुष पुण्यवान् और आदर के योग्य हैं जिन्होंने दर्शन ज्ञानरूपी मुख्य दार्थोंसे विषयरूपी समुद्र में डूबे हुए भव्य जीवोंको पार कर दिया है ॥१५७॥

गाथा—मायावेल्लि असेसा मोहमहातरुम्मि आरूढा ।

विसयविसपुप्फुल्लिय लुण्ठि मुण्णि एणसत्थेहिं ॥१५८॥

छाया—मायावल्लि अशेषां मोहमहातरुवरे आरूढाम् ।

विषयविषपुष्पपुष्पितां लुण्ठन्ति मुनयः ज्ञानराक्षैः ॥१५८॥

अर्थ—दिगम्बर मुनि मोहरूपी बड़े वृक्ष पर चढ़ी हुई और विषय रूपी विष के पुष्प से फूली हुई सम्पूर्ण मायाचार रूपी बेल को सम्यग्ज्ञान रूपी हथियारों से काटते हैं ॥ १५८ ॥

गाथा—मोहमयंगारवेहिं य मुक्का जे करुणाभावसंजुत्ता ।

ते सब्बदुरियखंभं हण्ठि चारित्तखग्गेण ॥१५९॥

छाया—मोहमदगारवैः च मुक्ताः ये करुणाभावसंयुक्ताः ।

ते सर्वदुरितस्तम्भं ध्नन्ति चारित्रखड्गेन ॥१५९॥

अर्थ—जो मुनि मोह, मद और गौरवरहित हैं तथा करुणाभाव सहित हैं, वे चारित्ररूपी तलवार से सम्पूर्ण पापरूपी स्तम्भ (वृक्ष के तने) को काटते हैं ॥ १५९ ॥

गाथा— गुणगणमणिमालाए जिएमयगयणे णिसायरमुण्णिंदो ।

तारावलिपरियरिओ पुण्णिमइंदुव्व पवणपथे ॥१६०॥

छाया— गुणगणमणिमालया जिनमतगगने निशाकरमुनीन्द्रः ।

तारावलिपरिकलितः पूर्णमेन्दुरिव पवनपथे ॥१६०॥

अर्थ—जैसे आकाश में ताराओं के समुदाय से घिरा हुआ पूर्णमासी का चन्द्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही जिनमत रूपी आकाश में मुनीन्द्र रूपी चन्द्रमा मूलगुणों और उत्तरगुणों के समुदाय से शोभायमान होता है ॥१६०॥

गाथा—चक्रधररामकेसवसुखरजिएगणहराइसोक्खाई ।

चारणमुण्णिरिद्धीओ विसुद्धभावा एरा पत्ता ॥१६१॥

छाया— चक्रधररामकेशवसुरवरजिनगणधरादिसौख्यानि ।

चारणमुन्यूद्धीः विशुद्धभावाः नराः प्राप्ताः ॥१६१॥

अर्थ— विशुद्धभावों के धारक मुनिवर चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, इन्द्र, तीर्थकर, गणधरादि के सुखों को और चारणमुनियों की आकाशनामिनी आदि ऋद्धियों को प्राप्त होते हैं ॥१६१॥

गाथा— शिवमजरामरलिंगमणोवममुत्तमं परमविमलमतुलं ।

पत्ता वरसिद्धिसुहं जिणभावणभाविया जीवा ॥१६२॥

छाया— शिवमजरामरलिंगं अनुपममुत्तमं परमविमलमतुलम् ।

प्राप्ता वरसिद्धिसुखं जिनभावनाभाविता जीवाः ॥१६२॥

अर्थ— जिनेन्द्र के स्वरूप की भावना सहित जीव उस उत्तम मोक्ष सुख को पाते हैं, जो कल्याणरूप है, जरामरणरहित होभा जिसका चिह्न है, उपमारहित है, सब से उत्कृष्ट है, सब प्रकार के कर्ममल से रहित है और तुलनारहित है ॥१६२॥

गाथा— ते मे तितुवणमहिया सिद्धा सुद्धा णिरंजणा णिञ्चा ।

दितुं वरभावसुद्धिं दंसण णाणे चरित्ते य ॥१६३॥

छाया— ते मे त्रिभुवनमहिताः सिद्धाः शुद्धाः निरञ्जना नित्याः ।

ददतु वरभावशुद्धिं दर्शने ज्ञाने चारित्रे च ॥१६३॥

अर्थ— वे सिद्ध परमेष्ठी मेरे दर्शन, ज्ञान और चारित्र-गुण में उत्तम भावों की शुद्धता प्रदान करें, जो तीन लोक में पूजनीय, विशुद्ध, कर्ममलरहित और नित्य हैं ॥१६३॥

गाथा— किं जपिण्ण बहुणा अत्थो धम्मो य काममोक्खो य ।

अणोवि य वावारा भावम्मि परिट्ठिया सन्वे ॥१६४॥

छाया— किं जल्पितेन बहुना अर्थो धर्मश्च काममोक्षौ च ।

अन्येऽपि च व्यापाराः भावे परिस्थिताः सर्वे ॥१६४॥

अर्थ— आचार्य कहते हैं बहुत कहने से क्या लाभ है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ तथा अन्य जो कुछ कार्य हैं, वे सब शुद्धभाव के ही आधीन हैं ।

गाथा—इय भावपाहुडमिणं सव्वं बुद्धेहि देसियं सम्मं ।

जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ अबिचलं ठाणं ॥१६५॥

छाया—इति भावप्राभृतमिदं सर्वं बुद्धैः देशितं सम्यक् ।

यः पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति अबिचलं स्थानम् ॥१६५॥

अर्थ—इस प्रकार सर्वज्ञ देव ने इस भावप्राभृत नामक शास्त्र का भलीभांति उपदेश दिया है । जो भव्यजीव इसको उत्तम रीति से पढ़ता है, सुनता है और भावना करता है वह निश्चल स्थान अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १६५ ॥



॥ (६) मोक्ष पाहुड ॥

गाथा—एषामयं अप्पाणं उवलद्धं मेण भडियकम्मेण ।
चइऊण य परदव्वं एमो तस्स देवस्स ॥ १ ॥

छाया—ज्ञानमय आत्मा उपलब्धः येन-क्षरितकर्मणा ।
त्यक्त्वा च परद्रव्यं नमो नमस्तरमै देवाय ॥ १ ॥

अर्थ—कर्मों का क्षय करने वाले जिसने परद्रव्य को छोड़कर ज्ञानरूप आत्मा को प्राप्त किया है, उस देव के लिये नमस्कार हो ॥ १ ॥

गाथा—एमिऊण य तं देवं अणंतवरणाणदंसणं सुद्धं ।
वोच्छं परमप्पाणं परमपयं परमजोईणं ॥ २ ॥

छाया—नत्वा च तं देवं अनन्तवरज्ञानदर्शनं शुद्धम् ।
वक्ष्ये परमात्मानं परमपदं परमयोगिनाम् ॥ २ ॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि मैं अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन को धारण करने वाले तथा १८ दोषरहित सर्वज्ञ बीतराग देव को नमस्कार करके श्रेष्ठ ध्यान वाले मुनियों के लिये, उत्कृष्ट पद के धारक परमात्मा का स्वरूप कहूंगा ॥ २ ॥

गाथा—जं जाणिऊण जोई जोअत्थो जोइऊण अणवरयं ।
अब्बावाहमणंतं अणोवमं लहइ णिब्बाणं ॥ ३ ॥

छाया—यत् ज्ञात्वा योगी योगस्थः दृष्ट्वा अनवरतम् ।
अन्याबाधमनन्तं अनुपमं लभते निर्वाणम् ॥ ३ ॥

अर्थ—जिसको जानकर ध्यान में स्थित (लगत हुआ) योगी सदैव उस परमात्मा का अनुभव करता हुआ बाधा रहित, अविनाशी और उपमारहित मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

गाथा—तिपयारो सो अप्पा परमंतरबाहरो दु हेऊणं ।

तत्थ परो भाइज्जई अंतोवाप्पण चयहि बहिरप्पा ॥ ४ ॥

छाया—त्रिप्रकारः स आत्मा परमन्तः बहिः तु हित्वा ।

तत्र परं ध्यायते अन्तरूपायेन त्यज बहिरात्मानम ॥ ४ ॥

अर्थ—वह आत्मा तीन प्रकार का है—परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा । उनमें बहिरात्मा को छोड़कर अन्तरात्मा अर्थात् भेदज्ञानी होकर परमात्मा का ध्यान किया जाता है । इसलिये हे मुनि ! तू शरीर और आत्मा को अभिन्न मानने वाले बहिरात्मा के परिणामों का त्याग कर ॥ ४ ॥

गाथा—अक्खाणि बहिरप्पा अंतरअप्पा हु अप्पसंकप्पो ।

कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा भएणए देवो ॥ ५ ॥

छाया—अक्षाणि बहिरात्मा अन्तरात्मा स्फुटं आत्मसंकल्पः ।

कर्मकलंकविमुक्तः परमात्मा भयते देवः ॥ ५ ॥

अर्थ—स्पर्शनादि इन्द्रियां तो बहिरात्मा हैं और अन्तरंग में प्रगट अनुभव रूप आत्मा का संकल्प अन्तरात्मा है तथा द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म रूप कलंकरहित आत्मा परमात्मा है, और वही देव है ॥ ५ ॥

गाथा—मलग्गिओ कलचत्तो अण्णिदिओ केवलो विसुद्धप्पा ।

परमेट्ठी परमजिणो सिवंकरो सासओ सिद्धो ॥ ६ ॥

छाया—मलरहितः कलत्यक्तः अनिन्द्रियः केवलः विशुद्धात्मा ।

परमेष्ठी परमजिनः शिवंकरः शाश्वतः सिद्धः ॥ ६ ॥

अर्थ—जो कर्मरहित है, शरीररहित है, इन्द्रिय ज्ञान रहित है, केवल ज्ञानी है, अत्यन्त शुद्ध आत्मा वाला है, परमपद में स्थित (ठहरा हुआ) है, सब कर्मों को जीतने वाला है, जीवों का कल्याण करने वाला है, अविनाशी है और सिद्ध पद को प्राप्त कर चुका है, वह परमात्मा कहलाता है ॥ ६ ॥

गाथा—घारूह्वि अंतरप्पा बहिरप्पा छंडिऊण तिविहेण ।

भाइज्जइ परमप्पा उवइट्ठं जिणवरिदेहिं ॥ ७ ॥

छाया—आरूह्य अन्तरात्मानं बहिरात्मानं त्यक्त्वा त्रिविधेन ।

ध्यायते परमात्मा उपदिष्टं जिनवरेन्द्रैः ॥ ७ ॥

अर्थ—मन वचन काय से बहिरात्मा को छोड़कर और अन्तरात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिये, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ ७ ॥

गाथा—बहिरत्थे फुरियमणो इंदियदारेण गियसरूवचओ ।

गियदेहं अप्पाणं अज्भवसदि मूढदिट्ठीओ ॥ ८ ॥

छाया—बहिरर्थे स्फुरितमनाः इन्द्रियद्वारेण निजस्वरूपच्युतः ।

निजदेहं आत्मानं अध्यवस्यति मूढदृष्टिस्तु ॥ ८ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा स्त्री पुत्रादि बाह्य पदार्थों में मन लगाकर और इन्द्रियों के द्वारा अपने स्वरूप को भूलकर अर्थात् इन्द्रियों को आत्मा समझकर अपने शरीर को ही आत्मा जानता है ॥ ८ ॥

गाथा—गियदेहसरित्थं पिच्छिऊण परविग्गहं पयत्तेण ।

अञ्चयणं पि गहियं भाइज्जइ परमभाएण ॥ ९ ॥

छाया—निजदेहसदृशं दृष्ट्वा परविग्रहं प्रयत्नेन ।

अचेतनं अपि गृहीतं ध्यायते परमभावेन ॥ ९ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टी जीव अपने शरीर के समान दूसरे के शरीर को देखकर उसको अचेतन रूप से ग्रहण करने पर भी बड़े यत्न से दूसरे की आत्मारूप विचार करता है ॥ ९ ॥

गाथा—सपरज्भवसाएणं देहेसु य अविदिदत्थमप्पाणं ।

सुयदाराईविसए मणुयाणं वड्ढए मोहो ॥ १० ॥

छाया—स्वपराध्यवसायेन देहेषु च अविदिताथमात्मानम् ।

सुतदारादि विषये मनुजानां वर्द्धते मोहः ॥ १० ॥

अर्थ—मोही जीव देहादि में अपने और दूसरे की आत्मा का निश्चय करने से आत्मा के असली स्वरूप को नहीं जानता है। इसलिये स्त्री पुत्रादि में मनुष्यों का मोह बढ़ता है ॥ १० ॥

गाथा—मिच्छाणाणोसु रत्रो मिच्छाभावेण भावित्रो संतो ।
मोहोदयेण पुणरवि अंगं सम्मण्णए मणुओ ॥११॥

छाया—मिथ्याज्ञानेषु रतः मिथ्याभावेन भावितः सन् ।
मोहोदयेन पुनरपि अंगं स्वं मन्यते मनुजः ॥११॥

अर्थ—मिथ्याज्ञान में लीन हुआ मनुष्य मिथ्या परिणाम की भावना रखता हुआ
मिथ्यात्व कर्म के उदय से फिर भी शरीर को आत्मा मानता है ॥११॥

गाथा—जो देहे णिरवेक्खो णिहंदो णिम्ममो णिरारंभो ।
आदसहावे सुरओ जोई सो लहइ णिन्वाणं ॥१२॥

छाया—यः देहे निरपेक्षः निर्द्वन्द्वः निर्ममः निरारम्भः ।
आत्मस्वभावे सुरतः योगी स लभते निर्वाणम् ॥१२॥

अर्थ—जो योगी शरीर में उदासीन हैं, रागद्वेषादि कलह रहित हैं, ममत्व रहित हैं,
स्वैती व्यापारादि आरम्भरहित हैं और आत्मा के स्वभाव में पूरी तरह
लीन हैं वह मोक्ष को प्राप्त करता है ॥१२॥

गाथा—परदब्बरओ वज्झदि विरओ मुब्बेइ विविहकम्महिं ।
एसो जिणउवदेसो समासदो बंधमोक्षस्य ॥१३॥

छाया—परद्रव्यरतः बध्यते विरतः मुच्यते विविधकर्मभिः ।
एषः जिनोपदेशः समासतः बन्धमोक्षयोः ॥१३॥

अर्थ—जो जीव शरीरादि पर पदार्थों में राग रखता है वह अनेक प्रकार के कर्मों
से बँधता है, और जो पर पदार्थों में उदासीन रहता है वह अनेक प्रकार
के कर्मों से नहीं बँधता है । इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान् ने संक्षेप से
बन्ध और मोक्ष के स्वरूप का उपदेश दिया है ॥१३॥

गाथा—सहब्बरओ सवणो सम्माइट्ठी हवेइ णियमेण ।
सम्मत्तपरिणओ उण खवेइ दुट्ठकम्माई ॥१४॥

छाया—सहद्रव्यरतः श्रद्धणः सन्त्यग्दृष्टिः भवति नियमेन ।
सन्धक्त्वपरिणतः पुनः क्षपयति दुष्टाष्टकर्मणि ॥१४॥

अर्थ—जो मुनि अपनी आत्मा में लीन है अर्थात् अज्ञान करता है वह नियम से सम्यग्दृष्टि है। तथा वही सम्यक्त्व परिणाम वाला मुनि दुष्ट आठों कर्मों का नाश करता है ॥१४॥

गाथा—जो पुण परद्वरत्रो मिच्छादिद्वी हवेइ सो साहू ।
मिच्छत्तपरिणदो उण वज्झदि दुट्ठकम्मोहिं ॥१५॥

छाया—यः पुनः परद्वरतः मिथ्यादृष्टिः भवति सः साधुः ।
मिथ्यात्वपरिणतः पुनः बध्यते दुष्टाष्टकर्मभिः ॥१५॥

अर्थ—जो मुनि स्त्रीपुत्रादि पर पदार्थों में राग करता है वह मिथ्यादृष्टी होता है। तथा मिथ्यात्व परिणाम वाला वह मुनि दुष्ट आठों कर्मों से बँधता है ॥१५॥

गाथा—परदव्वदो दुग्गइ सदव्वदो हु सग्गई होई ।
इय णाऊण सदव्वे कुणह रई विरय इयरम्मि ॥१६॥

छाया—परद्रव्यात् दुर्गतिः स्वद्रव्यात् सुष्टं सुगतिः भवति ।
इति ज्ञात्वा स्वद्रव्ये कुरुत रतिं विरतिं इतरस्मिन् ॥१६॥

अर्थ—दूसरे पदार्थ में राग करने से खोटी गति में उत्पन्न होता है और अपनी आत्मा में प्रेम करने से अच्छी गति प्राप्त होती है। ऐसा जानकर हे भव्य-जीव ! तुम अपनी आत्मा में प्रेम करो और दूसरे पदार्थों में राग मत करो ॥१६॥

गाथा—आदसहाबादणं सच्चित्ताचित्तमिस्सियं हवइ ।
तं परदव्वं भणियं अवितत्थं सव्वदरसीहिं ॥१७॥

छाया—आत्मस्वभावादव्यत् सच्चित्ताचित्तमिश्रितं भवति ।
तत् परद्रव्यं भणितं अवितथं सर्वदर्शिभिः ॥१७॥

अर्थ—आत्मस्वभाव से भिन्न जो स्त्री पुत्रादि चेतन पदार्थ, धनधान्यादि अचेतन पदार्थ, और आभूषणादि सहित स्त्रीपुत्रादि मिश्र पदार्थ हैं वे परद्रव्य हैं, ऐसा परद्रव्य का सच्चा स्वरूप सर्वज्ञ भगवान् ने कहा है ॥१७॥

गाथा—दुट्ठकम्मरहियं अणोवमं णणविग्गहं णिण्णं ।
सुद्धं जिणोहिं कहियं अण्णणं हवइ सदव्वं ॥१८॥

छाया—दुष्टाष्टकर्मरहितं अनुपमं ज्ञानविग्रहं नित्यम् ।

शुद्धं जिनैः कथितं आत्मा भवति स्वद्रव्यम् ॥१८॥

अर्थ—जो दुखदाई आठों कर्मों से रहित है, उपमारहित है, ज्ञानरूप शरीरवाला है, अविनाशी और शुद्ध है, ऐसा आत्मा जिन भगवान् के द्वारा स्वद्रव्य कहा गया है ॥१८॥

गाथा—जे भायति सद्व्वं परद्व्वपरंमुहा हु सुचरित्ता ।

ते जिणवराण मग्गे अणुलग्गा लहदि णिण्वाणं ॥१९॥

छाया—ये ध्यायन्ति स्वद्रव्यं परद्रव्यपराङ्मुखास्तु सुचरित्राः ।

ते जिनवराणां मार्गं अनुलग्ना लभन्ते निर्वाणम् ॥१९॥

अर्थ—जो मुनि पर पदार्थों का त्यागकर आत्मा का ध्यान करते हैं वे निर्मल चरित्र वाले होते हैं और जिनेश्वरों के मार्ग में लगकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥१९॥

गाथा—जिणवरमयेण जोई भाणे भाएह सुद्धमप्पाणं ।

जेण लहइ णिण्वाणं ए लहइ किं तेण सुरलोयं ॥२०॥

छाया—जिनवरमतेन योगी ध्याने ध्यायति शुद्धमात्मानम् ।

येन लभते निर्वाणं न लभते किं तेन सुरलोकम् ॥२०॥

अर्थ—जिन भगवान् के मत से योगी शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है जिससे मोक्ष पाता है। उस आत्मध्यान से क्या स्वर्गलोक प्राप्त नहीं करता है अर्थात् अवरय प्राप्त करता है ॥२०॥

गाथा—जो जाइ जोयणसयं दियहेणोक्केण लेइ गुरूभारं ।

सो किं कोसद्धं पि हु ए सकण जाहुभुवणयले ॥२१॥

छाया—यः याति योजनशतं दिवसेनैकेन लात्वा गुरूभारं ।

स किं क्रोशार्द्धमपि स्फुटं न शक्नोति यातुं भुवनतले ॥२१॥

अर्थ—जो पुरुष भारी बोझ लेकर एक दिन में सौ योजन जाता है वह क्या भूमि पर आधा कोस भी नहीं चल सकता अर्थात् सरलता से चल सकता है ॥ २१ ॥

गाथा—जो कोट्टिए ण जिप्पइ सुहडो संगामएहिं सब्बेहिं ।

सो किं जिप्पइ इकिंके एरेण संगामए सुहडो ॥२२॥

छाया—यः कोट्या न जीयते सुभटः संग्रामकैः सर्वैः ।

स किं जीयते एकेन नरेण संग्रामे सुभटः ॥२२॥

अर्थ—जो योद्धा लड़ाई में करोड़ योद्धाओं से भी नहीं जीता जाता, क्या वह एक मनुष्य से जीता जा सकता है अर्थान् नहीं ॥२२॥

गाथा—सग्गं तवेण सब्बो वि पावए किंतु ऋणजोएण ।

जो पावइ सो पावइ-परलोये मासयं सोक्खं ॥ २३ ॥

छाया—स्वर्गं तपसा सर्वः अपि प्राप्नोति किन्तु ध्यानयोगेन ।

यः प्राप्नोति सः प्राप्नोति परलोके शाश्वतं सौख्यम् ॥

अर्थ—तप के द्वारा तो सब ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं, किन्तु जो ध्यान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करता है वह परलोक में अविनाशी सुखरूप मोक्ष को पाता है ॥ २३ ॥

गाथा—अइसोहरणजोएणं सुद्धं हेमं हवेइ जह तह य ।

कालाईलद्धीए अप्पा परमप्पओ होई ॥ २४ ॥

छाया—अतिशोभनयोगेन शुद्धं हेम भवति यथा तथा च ।

कालादिलब्ध्या आत्मा परमात्मा भवति ॥ २४ ॥

अर्थ—जैसे शोधने की सुन्दर सामग्री के सम्बन्ध से सुवर्ण पाषाण शुद्ध सोना बन जाता है, वैसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव आदि के सम्बन्ध से संसारी आत्मा परमात्मा हो जाता है ॥ २४ ॥

गाथा—वर वयतवेहिं सग्गो मा दुक्खं होउ णिरइ इयरेहिं ।

छायातवट्टियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं ॥ २५ ॥

छाया—वरं व्रततपोभिः स्वर्गः मा दुःखं भवतु नरके इतरैः ।

छायातपस्थितानां प्रतिपालयतां गुरुभेदः ॥ २५ ॥

अर्थ—व्रत और तप से स्वर्ग प्राप्त होना उत्तम है तथा अव्रत और अतप से नरक में दुःख प्राप्त होना ठीक नहीं है । जैसे छाया और धूप में बैठने वालों में

बहुत भेद होता है, वैसे ही व्रत और अव्रत पालने वालों में बहुत भेद है ॥ २५ ॥

गाथा—जो इच्छइ गिणस्सरिहूँ संसारमहण्णवाउ रुद्धाओ ।
कम्मिंधण्णण डहण्णं सो भायइ अप्पयं सुद्धं ॥ २६ ॥

छाया—यः इच्छति निःसर्तुं संसारमहार्णवान् रुद्रान् ।
कर्मन्धनानां दहनं सः ध्यायति आत्मानं शुद्धम् ॥ २६ ॥

अर्थ—जो मुनि बहुत बड़े संसाररूपी समुद्र से पार होना चाहता है वह कर्मरूपी इन्धन को जलाने वाले आत्मा का ध्यान करता है ॥ २६ ॥

गाथा—सव्वे कसायमुत्तं गारवमयरायदोसवामोहं ।
लोकव्यवहारविरदो अप्पा भाण्ह भाण्णत्थो ॥ २७ ॥

छाया—सर्वान् कषायान् मुक्त्वा गारवमदरागदोषव्यामोहम् ।
लोकव्यवहारविरतः आत्मानं ध्यायति ध्यानस्थः ॥ २७ ॥

अर्थ—ध्यान में स्थित मुनि सब कषायों को तथा गौरव, मद, राग, द्वेष, मोह आदि परिणामों को छोड़कर लोक व्यवहार से विरक्त होता हुआ आत्मा का चिन्तन करता है ॥ २७ ॥

गाथा—मिच्छत्तं अण्णणं पावं पुण्णं चण्वि तिविहेण ।
मोण्णवण्ण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा ॥ २८ ॥

छाया—मिथ्यात्वं अज्ञानं पापं पुण्यं त्यक्त्वा त्रिविधेन ।
मौनव्रतेन योगी योगस्थः शोतयति आत्मानम् ॥ २८ ॥

अर्थ—ध्यानी मुनि मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप, पुण्य आदि को मन, वचन, काय से छोड़कर मौनव्रत से ध्यान में बैठा हुआ आत्मा का चिन्तन करता है ॥ २८ ॥

गाथा—जं मया दिस्सदे रुबं तं ण जाणदि सव्वहा ।
जाण्णं दिस्सदे णं तं तम्हा जंपेमि केण हं ॥ २९ ॥

छाया—यत् मया दृश्यते रूपं तत् न जानाति सर्वथा ।

ज्ञायकं दृश्यते न तत् तस्मात् जल्पामि केन ग्रहम् ॥ २६ ॥

अर्थ—जिस मूर्तिक शरीरादि को मैं देखता हूँ वह अचेतन होने के कारण निश्चय से कुछ भी नहीं जानता । तथा जो मैं ज्ञायक और अमूर्तिक हूँ सो दिखाई नहीं देता, इसलिये मैं किससे बोलूँ । अतः मौन रहना ही उचित है ॥२६॥

गाथा—सन्वासवशिरोहेण कम्मं खवइ संचियं ।

जोयत्थो जाणण जोई जिणदेवेण भासियं ॥ ३० ॥

छाया—सर्वास्रवनिरोधेन कर्म क्षपयति संचितम् ।

योगस्थः जानाति योगी जिनदेवेन भाषितम् ॥ ३० ॥

अर्थ—ध्यान में स्थित योगी सब कर्मों के आस्रव को रोककर पहले बँधे हुए कर्मों का नाश करता है और फिर केवल ज्ञान से सब पदार्थों को जानता है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ ३० ॥

गाथा—जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गण सकज्जम्भि ।

जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे ॥ ३१ ॥

छाया—यः सुप्तः व्यवहारे सः योगी जागर्ति स्वकार्यं ।

यः जागर्ति व्यवहारे सः सुप्तः आत्मनः कार्यं ॥ ३१ ॥

अर्थ—जो मुनि व्यवहार के कामों में सोता (उदासीन) है, वह अपने आत्मध्यान के कार्य में जागता (सावधान) है, तथा जो व्यवहार के कामों में जागता (सावधान) है वह आत्मस्वरूप के चिन्तन में सोता (उदासीन) है अर्थात् अपने स्वरूप को नहीं जानता ॥ ३१ ॥

गाथा—इय जाणिकुण जोई ववहारं चयइ सन्वहा सन्वं ।

भायइ परमप्पाणं जह भणियं जिणवरिदेहिं ॥ ३२ ॥

छाया—इति ज्ञात्वा योगी व्यवहारं त्यजति सर्वथा सर्वम् ।

ध्यायति परमात्मानं यथा भणितं जिनवरेन्द्रैः ॥ ३२ ॥

अर्थ—ऐसा जानकर योगी व्यवहार के सब कामों को बिलकुल छोड़ देता है और
जैसा जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है उसी प्रकार परमात्मा का ध्यान
करता है ॥ ३२ ॥

गाथा—पंचमहव्यजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।
रयणत्तयसंजुत्तो भाणञ्जयणं सदा कुरणह ॥ ३३ ॥

झाया—पंचमहाव्रतयुक्तः पंचसु समितिषु तिसृषु गुप्तिषु ।
रत्नत्रयसंयुक्तः ध्यानाध्ययनं सदा कुरु ॥ ३३ ॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि हे मुनि ! तू पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति
तथा रत्नत्रय को धारण करके ध्यान और अध्ययन (शास्त्र पढ़ना)
का अभ्यास कर ॥ ३३ ॥

गाथा—रयणत्तयमाराहं जीवो आराहओ मुणोयव्वो ।
आराहणाविहाणं तस्स फलं केवलं णाणं ॥ ३४ ॥

झाया—रत्नत्रयमाराधयन् जीवः आराधकः मुनितव्यः ।
आराधनाविधानं तस्य फलं केवलज्ञानम् ॥ ३४ ॥

अर्थ—रत्नत्रय की आराधना करने वाले जीव को आराधक/समझना चाहिये
तथा आराधना करने का फल केवल ज्ञान है ॥ ३४ ॥

गाथा—सिद्धो सुद्धो आदा सव्वण्ह सव्वलोयदरसी य ।
सा जिणवरेहिं भणियो जाण तुमं केवलं णाणं ॥ ३५ ॥

झाया—सिद्धः शुद्धः आत्मा सर्वज्ञः सर्वलोकदर्शी च ।
स जिनवरैः भणितः जानीहि त्वं केवलं ज्ञानम् ॥ ३५ ॥

अर्थ—जो स्वयं सिद्ध है, कर्ममलरहित है, सब पदार्थों को जानने वाला और
देखने वाला है, ऐसा आत्मा का स्वरूप जिनेन्द्रदेव के द्वारा कहा गया
है । हे मुनि ! तू उस आत्मा को केवल ज्ञान जान, अथवा केवल ज्ञान को
आत्मा जान । इस प्रकार अभेद नय से गुण गुणी का वर्णन
किया ॥ ३५ ॥

गाथा—रयणत्तयं पि जोई आराहइ जोहु जिणवरमएण ।

सो म्हायदि अप्पाणं परिहरदि परं ण सन्देहो ॥ ३६ ॥

छाया—रत्नत्रयमपि योगी आराधयति यः स्फुटं जिनवरमतेन ।

स ध्यायति आत्मानं परिहरति परं न सन्देहः ॥ ३६ ॥

अर्थ—जो योगी जिनेन्द्रदेव के मत से रत्नत्रय की आराधना करता है, वह प्रगट रूप से आत्मा का ध्यान करता है, तथा पुद्गल आदि परद्रव्य को छोड़ता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ३६ ॥

गाथा—जं जाणइ तं णाणं जं पिच्छइ तं च दसणं रोयं ।

तं चारित्तं भणियं परिहारो पुण्णपावाणं ॥ ३७ ॥

छाया—यज्जानाति तज्ज्ञानं यत् पश्यति तच्च दर्शनं ज्ञेयम् ।

तच्चारित्रं भणितं परिहारः पुण्यपापानाम् ॥ ३७ ॥

अर्थ—जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वह दर्शन है और जो पुण्य पाप क्रियाओं का त्याग है सो चारित्र है। इस प्रकार अभेदरूप से आत्मा और रत्नत्रय का वर्णन किया ॥ ३७ ॥

गाथा—तच्च रुई सम्मत्तं तच्चग्गहणं च हवइ सएणाणं ।

चारित्तं परिहारो पयप्पियं जिणवरिदेहिं ॥ ३८ ॥

छाया—तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वं तत्त्वग्रहणं च भवति संज्ञानम् ।

चारित्रं परिहारः प्रजल्पितं जिनवरेन्द्रैः ॥ ३८ ॥

अर्थ—जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सो सम्यग्दर्शन है। उन्हीं तत्वों को ठीक २ जानना सो सम्यग्ज्ञान है तथा हिंसादि पाप क्रियाओं का त्याग करना सो सम्यक् चारित्र है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥ ३८ ॥

गाथा—दंसणसुद्धो सुद्धो दंसणसुद्धो लहेइ णिब्वाणं ।

दंसणविहीणपुरिसो ण लहइ तं इच्छियं लाहं ॥ ३९ ॥

छाया—दर्शनशुद्धः शुद्धः दर्शनशुद्धः लभते निर्वाणम् ।

दर्शनविहीनपुरुषः न लभते तं इष्टं लाभम् ॥ ३९ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन से शुद्ध पुरुष ही वास्तव में शुद्ध है, क्योंकि जो सम्यग्दर्शन से शुद्ध है वही मोक्ष प्राप्त करता है। तथा जो पुरुष सम्यग्दर्शन रहित है वह अपने इच्छित लाभ अर्थात् मोक्ष को नहीं पाता ॥ ३६ ॥

गाथा—इय उवणसं सारं जरमरणहरं खु मण्णए जं तु ।
तं सम्मत्तं भणियं समण्णाणं सावयाणं पि ॥ ४० ॥

छाया—इति उपदेशं सारं जरामरणहरं स्फुटं मन्यते यत्तु ।
तत् सम्यक्त्वं भणितं श्रमणानां श्रावकाणामपि ॥ ४० ॥

अर्थ—ऐसा रत्नत्रय का उपदेश बहुत ही उत्तम और बुढ़ापा, मृत्यु आदि का नाश करने वाला है। जो इसका यथार्थ श्रद्धान करता है वह सम्यग्दर्शन मुनियों और श्रावकों के लिये कहा गया है ॥ ४० ॥

गाथा—जीवाजीवविहन्ती जोई जाणेइ जिणवरमण्ण ।
तं सण्णाणं भणियं अबियत्थं सच्चदरिसीहिं ॥ ४१ ॥

छाया—जीवाजीवविभक्तं योगी जानाति जिनवरमतेन ।
तत् संज्ञानं भणितं अबितथं सर्वदर्शिभिः ॥ ४१ ॥

अर्थ—जो योगी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से जीव और अजीव के भेद को जानता है वह सर्वज्ञ देव के द्वारा यथार्थ रूप से सम्यग्ज्ञान कहा गया है ॥ ४१ ॥

गाथा—जं जाणिक्खणं जोई परिहारं कुण्णइ पुण्णपावाणं ।
तं चारित्तं भणियं अबियप्पं कम्मरहियेण ॥ ४२ ॥

छाया—यत् ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पुण्यपयोः ।
तत् चारित्रं भणितं अविकल्पं कर्मरहितेन ॥ ४२ ॥

अर्थ—ध्यानी मुनि जिस जीवाजीव के भेद को जानकर पुण्य व पाप क्रियाओं का त्याग करता है, वह विकल्प रहित यथाख्यात चारित्र है; ऐसा घातिया कर्मों के नाश करने वाले सर्वज्ञदेव ने कहा है ॥ ४२ ॥

गाथा—जो रयणन्तयजुत्तो कुण्डे तवं संजदो ससत्तीए ।
सो पावइ परमपयं भायंतो अप्पयं सुद्धं ॥४३॥

छाया—यः रत्नत्रययुक्तः करोति तपः संयतः स्वशक्त्या ।
सः प्राप्नोति परमपदं ध्यायन् आत्मानं शुद्धम् ॥४३॥

अर्थ—जो संयमी मुनि रत्नत्रय को धारण करके अपनी शक्ति के अनुसार तप करता है, वह शुद्ध आत्मा का ध्यान करता हुआ परमपद अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करता है ॥४३॥

गाथा—तिहि तिण्ण धरवि णिच्चं तियरहिओ तह तियेण परियरिओ ।
दोदोसविप्पमुक्को परमप्पा भायए जोई ॥४४॥

छाया—त्रिभिः त्रीन् धृत्वा नित्यं त्रिकरहितः तथा त्रिकेण परिकरितः ।
द्विदोषविप्रमुक्तः परमात्मानं ध्यायते योगी ॥४४॥

अर्थ—ध्यानी मुनि मन, वचन काय से वर्पा, गर्मी सरदी आदि तीनों कालों में योग (समाधि) धारण करके सदैव माया, मिथ्यात्व, निदान इन तीन शक्तियों का त्याग करता है । तथा रत्नत्रय से सुशोभित और रागद्वेषरूप दोषों से रहित होकर परमात्मा का ध्यान करता है ॥४४॥

गाथा—मयमायकोहरहिओ लोहेण विवज्जिओ य जो जीवो ।
णिम्मलसहावजुत्तो सो पावइ उत्तमं सोक्खं ॥४५॥

छाया—मदमायाक्रोधरहितः लोभेन विवर्जितश्च यः जीवः ।
निर्मलस्वभावयुक्तः सः प्राप्नोति उत्तमं सौख्यम् ॥४५॥

अर्थ—जो जीव मद, माया, क्रोध और लोभरहित है, वह निर्मल स्वभावसहित होकर उत्तम सुख अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करता है ॥४५॥

गाथा—विसयकसाण्हि जुदो रुदो परमप्पभावरहियमणो ।
सो ए लहइ सिद्धिसुहं जिणमुदपरम्मुदो जीवो ॥४६॥

छाया—विषयकषायैः युक्तः रुद्रः परमात्मभावरहितमनाः ।

स न लभते सिद्धिसुखं जिनमुद्रापराङ्मुखः जीवः ॥४६॥

अर्थ—जो जीव विषय कषायों में आसक्त (लीन) है, रुद्र परिणामी है अर्थात् हिंसादि पापों में हृष मानता है, और जिसके मनमें परमात्मा की भावना नहीं है, वह जीव जिनमुद्रा से भ्रष्ट होता है इसलिए मोक्षसुख को नहीं पाता है ॥४६॥

गाथा—जिणमुदं सिद्धिमुहं हवेइ णियमेण जिणवरुद्धिटा ।

सिविणे वि ण रुच्चइ पुण जीवा अच्छंति भवगहणे ॥४७॥

छाया—जिनमुद्रा सिद्धिमुखं भवति नियमेन जिनवरोदिष्टा ।

स्वप्नेऽपि न रोचते पुनः जीवाः तिष्ठन्ति भवगहने ॥४७॥

अर्थ—जिनदेव के द्वारा कही हुई जिनमुद्रा ही निश्चय से मोक्षसुख है अर्थात् परम्परा से मोक्ष का कारण है । जिन जीवों को यह जिनमुद्रा स्वप्न में भी अच्छी नहीं लगती वे संसार रूपी घने बन में रहते हैं ॥४७॥

गाथा—परमप्यय भ्नायंतो जोई मुच्चइ मलदलोहेण ।

णादियदि णवं कम्मं णिद्धिट्ठं जिणवरिदेहिं ॥४८॥

छाया—परमात्मानं ध्यायन् योगी मुच्यते मलदलोभेन ।

नाद्रियते नवं कर्म निर्दिष्टं जिनवरेन्द्रैः ॥४८॥

अर्थ—परमात्मा का ध्यान करता हुआ योगी पाप उत्पन्न करने वाले लोभ से छूट जाता है । तथा लोभरहित मुनि नवीन कर्मों को नहीं बांधता है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है ॥४८॥

गाथा—होऊण दिढचरित्तो दिढसम्मत्तेण भावियमईयो ।

भ्नायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥४९॥

छाया—भूत्वा दृढचरित्रः दृढसम्यक्त्वेन भावितमतिः ।

ध्यायन्नात्मानं परमपदं प्राप्नोति योगी ॥४९॥

अर्थ—इस प्रकार योगी दृढ सम्यक्त्व और चारित्र को मन में धारण करके आत्मा का ध्यान करता हुआ उत्कृष्ट पद अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करता है ॥४९॥

गाथा—चरणं हृदयं सधम्मो धम्मोसो हृदयं अप्पसमभावो ।

सो रागरोसरहिओ जीवस्स अण्णण परिणामो ॥५०॥

छाया—चरणं भवति स्वधर्मः धर्मः सः भवति आत्मसमभावः ।

स रागरोषरहितः जीवस्य अनन्यपरिणामः ॥५०॥

अर्थ—चारित्र आत्मा का धर्म (स्वरूप) है और वह धर्म सब जं वों में समानभाव रखना है । वह रागद्वेषरहित चारित्र जीव का ही अभिन्न परिणाम है ॥५०॥

गाथा—जहफलहमणि विमुद्धो परदव्वजुद्धो हृदयं अण्णं सो ।

तह रागादिविजुत्तो जीवो हृदयि ह्नु अण्णणविहो ॥ ५१ ॥

छाया—यथा स्फटिकमणिः विशुद्धः परद्रव्ययुतः भवत्यन्यः सः ।

तथा रागादिवियुक्तः जीवः भवति स्फुटमन्यान्यविधः ॥ ५१ ॥

अर्थ—जैसे स्फटिकमणि स्वभाव से निर्मल हाता है और रंग बिरंगी दूसरी वस्तु के सम्बन्ध से दूसरे ही रंग का दिखने लगता है । वैसे ही स्वभाव से शुद्ध जीव रागद्वेषादि भावों के सम्बन्ध से दूसरी ही तरह का दिखने लगता है ॥ ५१ ॥

गाथा—देवगुरुम्मि य भत्तो साहम्मि य मंजदेसु अणुरत्तो ।

सम्मत्तमुच्चहंतो भाणरओ होइ जोई सो ॥ ५२ ॥

छाया—देवे गुरौ च भक्तः साधर्मिके च संयतेषु अनुरक्तः ।

सम्यक्त्वमुद्धहन् ध्यानरतः भवति योगी सः ॥ ५२ ॥

अर्थ—देव और गुरु में भक्ति करने वाला, समान धर्म वालों और संयमी मुनियो में सच्चा प्रेम रखने वाला और सम्यक्त्व को धारण करता हुआ योगी ध्यान में लीन होता है ॥ ५२ ॥

गाथा—उग्गतवेण्णणाणी जं कम्मं खवदि भवहि बहुएहिं ।

तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेइ अंतोमुहुत्तेण ॥ ५३ ॥

छाया—उग्रतपसा ऽज्ञानी यत् कर्म क्षपयति भवैर्बहुकैः ।

तज्ज्ञानी त्रिभिः गुप्तः क्षपयति अन्तर्मुहूर्तेन ॥ ५३ ॥

अर्थ—अज्ञानी मुनि कठिन तप के द्वारा करोड़ों जन्म में जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों को ज्ञानी मुनि तीन गुप्तियों के द्वारा अन्तर्मुहूर्त में नाश कर देता है ॥ ५३ ॥

गाथा—सुहजोष्ण सुभावं परद्रव्ये कुण्ड रागदो साह ।

सो तेण हु अण्णणी णणी एत्तो हु विवरीओ ॥ ५४ ॥

छाया—शुभयोगेन सुभावं परद्रव्ये करोति रागतः साधुः ।

सः तेन तु अज्ञानी ज्ञानी एतस्मात्तु विपरीतः ॥ ५४ ॥

अर्थ—साधु इष्टवस्तु के सम्बन्ध से परद्रव्य में रागभाव करता है । उस रागभाव से वह साधु अज्ञानी कहलाता है और इससे उल्टे परिणाम वाला ज्ञानी कहलाता है ॥ ५४ ॥

गाथा—आसवहेद् य तहा भावं मोक्खस्स कारणं हवदि ।

सो तेण हु अण्णणी आदसहावा हु विवरीओ ॥ ५५ ॥

छाया—आस्रवहेत्तुश्च तथा भावः मोक्षस्य कारणं भवति ।

सः तेन तु अज्ञानी आत्मस्वभावात्तु विपरीतः ॥ ५५ ॥

अर्थ—जैसे परद्रव्य में रागभाव आस्रव का कारण कहा गया है, वैसे ही मोक्ष का कारण रागभाव भी आस्रव का कारण होता है । उस रागभाव से वह साधु अज्ञानी हो जाता है जो आत्मा के स्वभाव से विपरीत है ॥ ५५ ॥

गाथा—जो कम्मजादमइओ सहावणाणस्स खंडदूसयरो ।

सो तेण हु अण्णणी जिणसासणदंसगो भण्णितो ॥ ५६ ॥

छाया—यः कर्मजातमतिकः स्वभावज्ञानस्य खण्डदूषणकरः ।

सः तेन तु अज्ञानी जिनशासनदूषकः भणितः ॥ ५६ ॥

अर्थ—जो पुरुष इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान ही को मानता है, वह केवल ज्ञान के खण्ड रूप दोष को पैदा करने वाला है। उस ज्ञान के द्वारा वह पुरुष अज्ञानी तथा जिनमत में दोष लगाने वाला होता है ॥ ५६ ॥

गाथा—णाणं चरित्तहीणं दंसणहीणं तवेहिं संजुत्तं ।
अण्णोसु भावरहियं लिगगहणेण किं सोक्खं ॥ ५७ ॥

छाया—ज्ञानं चारित्रहीनं दर्शनहीनं तपोभिः संयुक्तम् ।
अन्येषु भावरहितं लिगग्रहणेन किं सौख्यम् ॥ ५७ ॥

अर्थ—जहां ज्ञान चारित्र रहित है, दर्शन रहित किन्तु तप सहित है, तथा जहां अन्य आवश्यकदि क्रियाओं में शुद्धभाव नहीं है, ऐसे भेषमात्र को धारण करने वाले मुनि के क्या मोक्ष सुख हो सकता है अर्थात् नहीं हो सकता ॥ ५७ ॥

गाथा—अच्चेयणं पि चेदा जो मण्णइ सो हवेइ अण्णणी ।
सो पुण्ण णणी भण्णो जो मण्णइ च्चेयणे चेदा ॥ ५८ ॥

छाया—अचेतनमपि चेतनं यः मन्यते सः भवति अज्ञानी ।
स पुनः ज्ञानी भणितः यः मन्यते चेतने चेतनम् ॥ ५८ ॥

अर्थ—जो अचेतन को चेतन मानता है वह अज्ञानी है, और जो चेतन को चेतन मानता है वह ज्ञानी कहा जाता है ॥ ५८ ॥

गाथा—तवरहियं जं णाणं णाणविजुत्तो तच्चोवि अकयत्थो ।
तम्हा णाणतवेणं संजुत्तो लहइ णिण्वाणं ॥ ५९ ॥

छाया—तपरहितं यज्ज्ञानं ज्ञानवियुक्तं तपः अपि अकृतार्थम् ।
तस्मान् ज्ञानतपसा संयुक्तः लभते निर्वाणम् ॥ ५९ ॥

अर्थ—तपरहित ज्ञान व्यर्थ है और ज्ञान रहित तप भी व्यर्थ है। इसलिये ज्ञान-सहित तप धारण करने वाला मुनि मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ५९ ॥

गाथा—धुवसिद्धी तिच्छयरो चउण्णणजुदो करेइ तचयरणं ।
णाऊण धुवं कुजा तचयरणं णाणजुत्तो वि ॥ ६० ॥

छाया—ध्रुवसिद्धिस्तीर्थकरः चतुर्ज्ञानयुतः करोति तपश्चरणम् ।

ज्ञात्वा ध्रुवं कुर्यान् तपश्चरणं ज्ञानयुक्तः अपि ॥ ६० ॥

अर्थ—जिसको निश्चय से मोक्ष प्राप्त होगा और जो चार ज्ञान सहित है ऐसा तीर्थकर भी तपश्चरण करता है । ऐसा निश्चय से जानकर ज्ञानवान् पुरुष को भी तपश्चरण करना चाहिये ॥ ६० ॥

गाथा—बाहिरलिंगेण जुद्धो अन्तर् लिंगरहिय परियम्मो ।

सो समचरित्त भट्टो मोक्खपहविणासगो साहू ॥ ६१ ॥

छाया—बाह्यलिंगेन युतः अभ्यन्तरलिंगरहितपरिकर्मा ।

सः स्वकचारित्रभ्रष्टः मोक्षपथविनाशकः साधुः ॥ ६१ ॥

अर्थ—जो बाह्यलिंग (नग्नमुद्रा) सहित है और अभ्यन्तरलिंग (आत्मा के अनुभव) रहित होकर अंगसंस्कार करने वाला है । ऐसा साधु अपने यथाख्यात चारित्र से भ्रष्ट होकर मोक्षमार्ग का नाश करने वाला होता है ॥ ६१ ॥

गाथा—सुहेण भाविदं गणणं दुहे जादे विणस्सदि ।

तम्हा जहाबलं जोई अप्पा दुक्खेहिं भावण ॥ ६२ ॥

छाया—सुखेन भावितं ज्ञानं दुःखे जाते विनश्यति ।

तस्मान् यथाबलं योगी आत्मानं दुःखैः भावयेत् ।

अर्थ—सुख से उत्पन्न होने वाला ज्ञान दुःख पड़ने पर नष्ट हो जाता है । इसलिये योगी को अपनी शक्ति के अनुसार परीपह उपसर्गादि का अभ्यास करना चाहिये ॥ ६२ ॥

गाथा—आहारासण्णिदाजयं च काऊण जिणवरमण्ण ।

भायव्वो णियअप्पा णाऊणं गुरुपसाण्ण ॥६३॥

छाया—आहारासननिद्राजयं च कृत्वा जिनवरमतेन ।

ध्यातव्यः निजात्मा ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥ ६३ ॥

अर्थ—जैन सिद्धान्त के अनुसार आहार आसन और निद्रा को जीत कर तथा गुरु की कृपा से आत्मा को जान कर उसका ध्यान करना चाहिये ॥ ६३ ॥

गाथा— अप्पा चरित्तवंतो दंसणणाणेण संजुदो अप्पा ।
सो भायव्वो णिच्चं णाऊणं गुरुपसाएण ॥ ६४ ॥

छाया— आत्मा चारित्रवान् दर्शनज्ञानेन संयुतः आत्मा ।
सः ध्यातव्यः नित्यं ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥ ६४ ॥

अर्थ— आत्मा चारित्रवान् है तथा ज्ञान और दर्शन सहित है । ऐसे आत्मा को गुरु की कृपा से जान कर हमेशा उसका ध्यान करना चाहिये ॥ ६४ ॥

गाथा— दुक्खे णज्जइ अप्पा अप्पा णाऊण भावणा दुक्खं ।
भावियसहावपुरिसो विसयेसु विरज्जेण दुक्खं ॥ ६५ ॥

छाया— दुःखेन ज्ञायते आत्मा आत्मानं ज्ञात्वा भावना दुःखम् ।
भावितस्वभावपुरुषः विषयेषु विरज्यति दुःखम् ॥ ६५ ॥

अर्थ— आत्मा बड़ी कठिनता से जाना जाता है और आत्मा को जान कर रात-दिन उसके गुणों का चिन्तन करना और भी कठिन है । तथा आत्मा की भावना करने वाला पुरुष भी बड़ी कठिनता से विषयों से विरक्त (उदास) होता है ॥ ६५ ॥

गाथा— ताम ण णज्जइ अप्पा विसण्णु णरो पवट्टए जाम ।
विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥ ६६ ॥

छाया— तावन्न ज्ञायते आत्मा विषयेषु नरः प्रवर्तते यावत् ।
विषये विरक्तचित्तः योगी जानाति आत्मानम् ॥ ६६ ॥

अर्थ— जब तक मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में लगा रहता है तब तक आत्मा को नहीं जानता है । इस लिए विषयों से विरक्त हुआ योगी ही आत्मा को जानता है ॥ ६६ ॥

गाथा— अप्पा णाऊण णरा केई सव्भावभावपरिभट्टा ।
हिंडति चाउरंगं विसयेसु विमोहिया मूढा ॥ ६७ ॥

छाया— आत्मानं ज्ञात्वा नराः केचित् सद्भावभावपरिभ्रष्टाः ।
हिएडन्ते चातुरंगं विषयेषु विमोहिताः मूढाः ॥ ६७ ॥

अर्थ— विषयों में मोहित हुए कुछ मूर्ख पुरुष आत्मा को जान कर भी अपने शुद्धभावों से भ्रष्ट होकर चतुर्गति रूप संसार में घूमते हैं ॥ ६७ ॥

गाथा— जे पुण विषयविरत्ता अप्पा णाऊण भावणासहिया ।

छंडति चाउरंगं तवगुणजुत्ता ण सन्देहो ॥ ६८ ॥

छाया— ये पुनः विषयविरक्ताः आत्मानं ज्ञात्वाभावनासहिताः ।

त्यजन्ति चातुरंगं तपोगुणयुक्ताः न सन्देहः ॥ ६८ ॥

अर्थ— जो मुनि विषयों से विरक्त होकर और आत्मा को जान कर बार २ उसका चिन्तन करते हैं, वे बारह तप और मूलगुण तथा उत्तर गुणसहित होकर चतुर्गति रूप संसार को छोड़ देते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ६८ ॥

गाथा— परमाणुप्रमाणं वा परद्रव्ये रदि हवेदि मोहादो ।

सो मूढो अण्णणी आदसहावस्स विपरीओ ॥ ६९ ॥

छाया— परमाणुप्रमाणं वा परद्रव्ये रतिर्भवति मोहान् ।

सः मूढः अज्ञानी आत्मस्वभावात् विपरीतः ॥ ६९ ॥

अर्थ— जिस मनुष्य के मोह के कारण परद्रव्य में लेशमात्र भी राग होता है, वह मूर्ख अज्ञानी है और आत्मा के स्वभाव से विपरीत है ॥ ६९ ॥

गाथा— अप्पा भायंताणं दंसणमुद्धीण दिद्वचरित्ताणं ।

होदि धुदं णिच्चाणं विसण्णसु विरत्तचित्ताणं ॥ ७० ॥

छाया— आत्मानं ध्यायतां दर्शनशुद्धीनां दृढचारित्राणां ।

भवति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम् ॥ ७० ॥

अर्थ— विषयों से विरक्तचित्तवाले, शुद्ध सम्यग्दर्शन और दृढचारित्र धारण करने वाले तथा आत्मा का ध्यान करने वाले मुनियों को निश्चय से मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ७० ॥

गाथा— जेण रागो परे दव्वे संसारस्स हि कारणं ।

तेणवि जोइणो णिच्चं कुञ्जा अप्पे सभावणा ॥ ७१ ॥

छाया— येन रागः परे द्रव्ये संसारस्य हि कारणम् ।

तेनापि योगी नित्यं कुर्यात् आत्मनि स्वभावनाम् ॥ ७१ ॥

अर्थ— जिस कारण से परद्रव्य में किया हुआ रागभाव संसार का कारण है, इसीलिये योगी को हमेशा आत्मा की भावना करनी चाहिये ॥ ७१ ॥

गाथा— सिंदाए य पसंसाए दुःखे य सुहएसु य ।

सत्तूणं चैव बधूणं चारित्तं समभावदो ॥ ७२ ॥

छाया— निन्दायां च प्रशंसायां दुःखे च सुखेषु च ।

शत्रूणां चैव बन्धूनां चारित्रं समभावतः ॥ ७२ ॥

अर्थ— निन्दा और प्रशंसा में, दुःख और सुख में तथा शत्रु और मित्र में समता परिणाम होने पर यथाख्यात चारित्र होता है ॥ ७२ ॥

गाथा— चरियावरिका वदसमिदिवज्जिया सुद्धभावपठ्भट्टा ।

केई जंपति एरा ए हु कालो भ्राणजोयस्स ॥ ७३ ॥

छाया— चर्यावरिका व्रतसमितिवर्जिताः शुद्धभावभ्रष्टाः ।

केचित् जल्पन्ति नराः नहि कालो ध्यानयोगस्य ॥ ७३ ॥

अर्थ— जिनका चारित्र आवरणरहित है, जो व्रत और समिति रहित हैं तथा शुद्ध भावों से अत्यन्त भ्रष्ट हैं, ऐसे कुछ मिथ्यादृष्टी लोग कहते हैं कि यह पञ्चम काल ध्यानयोग का समय नहीं है ॥ ७३ ॥

गाथा— सम्मत्तणाणरहिओ अभवजीवो हु मोक्खपरिमुक्को ।

संसारसुहे सुरदो ए हु कालो भणइ भ्राणस्स ॥ ७४ ॥

छाया— सम्यक्त्वज्ञानरहितः अभव्यजीवः स्फुटं मोक्षपरिमुक्तः ।

संसारसुखे सुरतः न स्फुटं कालः भणति ध्यानस्य ॥ ७४ ॥

अर्थ— जो जीव सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान रहित है, अभव्य है, मोक्षमार्ग से अलग है तथा संसार के सुख में अत्यन्त आसक्त है वह कहता है कि यह ध्यान का समय नहीं है ॥ ७४ ॥

गाथा— पंचसु महव्वदेसु य पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

जो मूढो अण्णाणी ए हु कालो भणइ भाणत्स ॥ ७५ ॥

छाया— पंचसु महाव्रतेषु च पंचसु समित्तिसु तिसुषु गुत्तिसु ।

यः मूढः अज्ञानी न स्फुटं कालः भणति ध्यानस्य ॥ ७५ ॥

अर्थ— जो जीव पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्तियों के स्वरूप को नहीं जानता है वह ऐसा कहता है कि वास्तव में यह ध्यान का समय नहीं है ॥ ७५ ॥

गाथा— भरहे दुस्समकाले धम्मज्जाणं ह्वेइ साहुत्स ।

तं अप्पसहावटिदे ए हु मण्णइ सो वि अण्णाणी ॥ ७६ ॥

छाया— भरते दुःसमकाले धर्मध्यानं भवति साधोः ।

तदात्मस्वभावस्थिते न हि मन्यते सोऽपि अज्ञानी ॥ ७६ ॥

अर्थ— इस भरतक्षेत्र में पंचम काल में दिगम्बर साधु के धर्मध्यान होता है और वह ध्यान आत्मा की भावना में लगे हुए मुनि के ही होता है, ऐसा जो नहीं मानता है वह पुरुष भी अज्ञानी है ॥ ७६ ॥

गाथा— अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पा भाण्वि लहइ इंदत्तं ।

लोयंतियदेवत्तं तत्थ चुआ णिच्चुदिं जंति ॥ ७७ ॥

छाया— अद्यापि त्रिरत्नशुद्धा आत्मानं ध्यात्वा लभन्ते इन्द्रत्वम् ।

लौकान्तिकदेवत्वं ततः न्युक्त्वा निर्वाणं यान्ति ॥ ७७ ॥

अर्थ— इस पंचम काल में भी मुनि रत्नत्रय से पवित्र होते हैं । वे आत्मा का ध्यान करके इन्द्र का पद तथा लौकान्तिक देवों का पद पाते हैं और वहां से चय कर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ७७ ॥

गाथा— जे पावमोहियमई लिंगं घेत्तण जिणवरिंदाणं ।

पावं कुण्णति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गाम्मि ॥ ७८ ॥

छाया— ये पापमोहितमतयः लिंगं गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणाम् ।

पापं कुर्वन्ति पापाः ते त्यक्त्वा मोक्षमार्गं ॥ ७८ ॥

अर्थ— जो पापबुद्धि वाले मुनि तीर्थकरों की नग्नमुद्रा धारण करके भी पाप करते हैं वे पापी मोक्षमार्ग से च्युत अर्थात् भ्रष्ट हैं ॥ ७८ ॥

गाथा— जे पंचचेलसत्ता गंधगाहीय जायणासीला ।
आधा कम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७९ ॥

छाया— ये पंचचेलसक्ताः प्रन्थप्राहिणः याचनाशीलाः ।
अधः कर्मणि रताः ते त्यक्ताः मोक्षमार्गे ॥ ७९ ॥

अर्थ— जो पांच प्रकार के वस्त्रों में से किसी एक को धारण करते हैं, धनधान्यादि परिग्रह रखते हैं, जिनका मांगने का ही स्वभाव है और जो नीच कार्य में लगे रहते हैं, वे मुनि मोक्षमार्ग से भ्रष्ट हैं ॥ ७९ ॥

गाथा— णिग्गंध मोहमुक्का बावीसपरीसहा जियकसाया ।
पावारंभविमुक्का ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ॥ ८० ॥

छाया— निर्ग्रन्थाः मोहमुक्ताः द्वाविंशतिपरीषहाः जितकषायाः ।
पापारंभविमुक्ताः ते गृहीताः मोक्षमार्गे ॥ ८० ॥

अर्थ— जो परिग्रह रहित हैं, स्त्रीपुत्रादि के मोह से रहित हैं, बाईस परीषहों को सहते हैं, कषायों को जीतने वाले हैं, पापरूप आरम्भ रहित हैं वे मुनि मोक्षमार्ग में ग्रहण किये गये हैं ॥ ८० ॥

गाथा— उद्धद्धमज्जलोये केई मज्जं ण अहयमेगागी ।
इय भावणाण जोई पावन्ति हु सासयं सोक्खं ॥ ८१ ॥

छाया— ऊर्ध्वाधोमध्यलोके केचित् मम न अहकमेकाकी ।
इति भावनया योगिनः प्राप्नुवन्ति हि शाश्वतं सौख्यम् ॥ ८१ ॥

अर्थ— ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। ऐसी भावना के द्वारा योगी लोग निश्चय से अचिनाशी सुख अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करते हैं ॥ ८१ ॥

गाथा— देवगुरुणां भक्ता णिव्वेयपरंपरा विचिंतिता ।
भाणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ॥ ५२ ॥

छाया— देवगुरुणां भक्ताः निर्वंदपरम्परा विचिन्तयन्तः ।
ध्यानरताः सुचरित्राः ते गृहीता मोक्षमार्गं ॥ ५२ ॥

अर्थ— जो देव और गुरु के भक्त हैं, वैराग्य भावना का विचार करते रहते हैं,
ध्यान में लीन रहते हैं और उत्तम चारित्र्य पालते हैं, वे मुनि मोक्षमार्ग में
ग्रहण किये गये हैं ॥ ५२ ॥

गाथा— णिच्छयणयस्स एवं अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो ।
सो हांदि हु मुचरित्तो जोई सो लहई णिव्वाणां ॥ ५३ ॥

छाया— निश्चयनयस्य एवं आत्मा आत्मनि आत्मने सुरतः ।
स भवति स्फुटं मुचरित्रः योगी सः लभते निर्वाणम् ॥ ५३ ॥

अर्थ— निश्चयनय का ऐसा अभिप्राय है कि जो आत्मा आत्मा के लिये आत्मा में
लीन हो जाता है, वह योगी सम्यक् चारित्र्य धारण करने वाला होता है
और वही मोक्ष को पाता है ॥ ५३ ॥

गाथा— पुरिसायारो अप्पा जोई वरणाणदंसणममग्गो ।
जो भायदि सो जोई पावहरो हवदि णिदंदो ॥ ५४ ॥

छाया— पुरुषाकारः आत्मा योगी वरज्ञानदर्शनसमग्रः ।
यः ध्यायति सः योगी पापहरः भवति निर्द्वन्द्वः ॥ ५४ ॥

अर्थ— जो आत्मा पुरुष के आकार है, योगी (गृह त्यागी) है, केवलज्ञान और
केवलदर्शन सहित है । ऐसी आत्मा का जो मुनि ध्यान करता है वह पापों
को दूर करने वाला और रागद्वेष के भगड़ों से रहित है ॥ ५४ ॥

गाथा— एवं जिणोहि कहियं सवणाणं सावयाणं पुण सुणसु ।
संसारविणासयरं सिद्धियरं कारणं परमं ॥ ५५ ॥

छाया— एवं जिनैः कथितं भ्रमणानां श्रावकाणां पुनः शृणुत ।
संसारविनाशकरं सिद्धिकरं कारणं प्रथमम् ॥ ५५ ॥

अर्थ—इस प्रकार जिनेन्द्रदेव ने मुनियों के ध्यान का कथन किया, अब श्रावकों का ध्यान कहते हैं, सो सुनो। वह उपदेश संसार का नाश करने वाला और मोक्ष का उत्कृष्ट कारण है ॥ ५५ ॥

गाथा—गहिऊण य सम्मत्तं सुणिम्मलं सुरगिरीव णिक्कंपं ।
तं भाणे भाइज्जइ सावय ! दुक्खक्खयट्ठाए ॥ ५६ ॥

छाया—गृहीत्वा च सम्यक्त्वं सुनिर्मलं सुरगिरिरिव निष्कम्पम् ।
तत् ध्याने ध्यायते श्रावक ! दुःखक्षयार्थे ॥ ५६ ॥

अर्थ—हे श्रावक। अतीचाररहित और मेरु पर्वत के समान स्थिर अर्थात् चल, मलिन, अगाढ़ दोष रहित सम्यग्दर्शन को धारण करके कर्मों का नाश करने के लिये उसका ध्यान करना चाहिये ॥ ५६ ॥

गाथा—सम्मत्तं जो भायइ सम्माइट्ठी हवेइ सो जीवो ।
सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ दुट्ठकम्मणि ॥ ५७ ॥

छाया—सम्यक्त्वं यः ध्यायति सम्यग्दृष्टिः भवति सः जीवः ।
सम्यक्त्वपरिणतः पुनः क्षपयति दुष्टाष्टकर्मणि ॥ ५७ ॥

अर्थ—जो श्रावक सम्यग्दर्शन का चिन्तन करता है वह जीव सम्यग्दृष्टि है। तथा सम्यक्त्व परिणाम वाला जीव दुष्ट आठों कर्मों का नाश करता है ॥ ५७ ॥

गाथा—किं बहुणा भणिएण जे सिद्धा एरवरा गए काले ।
सिज्झिहहि जेभि भविया तं जाणइ सम्ममाहप्पं ॥ ५८ ॥

छाया—किं बहुना भणितेन ये सिद्धा नरवरा गते काले ।
सेत्स्यन्ति ये ऽपि भव्याः तज्जानीत सम्यक्त्वमाहात्म्यम् ॥ ५८ ॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि बहुत कहने से क्या लाभ है, जो उत्तम मनुष्य भूतकाल में सिद्ध हुए हैं और जो मर्त्य जीव भविष्यत् काल में सिद्ध होंगे, वह सब सम्यग्दर्शन की महिमा जानो ॥ ५८ ॥

गाथा - ते धरणा सुकयन्त्था ते सूरा तेवि पंडिया मणुया ।

सम्मत्तं सिद्धियरं सिवियेवि ए मइलियं जेहिं ॥ ८६ ॥

छाया—ते धन्याः सुवृत्तार्थाः ते शूराः तेऽपि परिडिताः मनुजाः ।

सम्यक्त्वं सिद्धिकरं स्वप्ने ऽपि न मलिनितं यैः ॥ ८६ ॥

अर्थ—जिन मनुष्यों ने मुक्ति को देने वाले सम्यग्दर्शन को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया है, वे पुरुष पुण्यवान् हैं, सफल मनोरथ हैं, शूरवीर हैं और अनेक शास्त्रों को जानने वाले परिडित हैं ॥ ८६ ॥

गाथा—हिंसार हिण्धम्मे अट्टारहदोसवज्जिये देवे ।

गिण्गंथे पन्वयणे सहहणं होइ सम्मत्तं ॥ ६० ॥

छाया—हिंसारहिते धर्मे अष्टादशदोषजितेदेवे ।

निर्धन्थे प्रवचने श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम् ॥ ६० ॥

अर्थ—हिंसारहित धर्म में, अठारह दोष रहित देव में और मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले निर्धन्थ गुरु में श्रद्धान रचना सो सम्यग्दर्शन है ॥ ६० ॥

गाथा— जहजायरुवरुव सुसंजयं सन्वसंगपरिचत्त ।

लिंगं ए परावेक्खं जो मण्णइ तस्स सम्मत्तं ॥ ६१ ॥

छाया— यथाजातरूपरूपं सुसंयतं सर्वमंगपरित्यक्तम् ।

लिंगं न परापेक्षं यः मन्यते तस्य सम्यक्त्वम् ॥ ६१ ॥

अर्थ— नवीन उत्पन्न हुए बालक के रूप के समान जिसका रूप है, जो उत्तम संयम सहित है, सब प्रकार की परिग्रह से रहित है और जिसमें दूसरी वस्तु की अपेक्षा (आवश्यकता) नहीं है, ऐसे निर्धन्थ लिंग को जो मानता है—उसके सम्यग्दर्शन होता है ॥ ६१ ॥

गाथा— कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियलिंगं च बंदये जो दु ।

लज्जाभयगारवदो मिच्छादिट्ठी हवे सो हु ॥ ६२ ॥

छाया— कुत्सितदेवं धर्मं कुत्सितलिंगं च वन्दते यस्तु ।

लज्जाभयगारवतः मिथ्यादृष्टिः भवेत् स स्फुटम् ॥ ६२ ॥

अर्थ— जो मनुष्य खोटे देव, खोटे धर्म और खोटे गुरु को लज्जा, भय और बढ़प्पन के कारण नमस्कार करता है वह निश्चय से मिथ्यादृष्टि है ॥६२॥

गाथा— सपरावेक्त्वं लिंगं राई देवं असंजयं बन्दे ।
माण्ड मिच्छादिदृष्टिं ण हु मरणइ सुद्धसम्मत्तो ॥ ६३ ॥

छाया— स्वपरापेत्तं लिंगं रागिणं देवं असंयतं बन्दे ।
मानयति मिथ्यादृष्टिः न स्फुटं मानयति शुद्धसम्यक्त्वः ॥ ६३ ॥

अर्थ— स्वयं अथवा दूसरे के आग्रह से धारण किये हुए भेष को, रागी और संयमरहित देव को “मैं नमस्कार करता हूँ” ऐसा जो कहता है अथवा उनका आदर करता है वह मिथ्यादृष्टि है। सम्यग्दृष्टी उनका श्रद्धान तथा आदर नहीं करता है ॥ ६३ ॥

गाथा— सम्माइद्री सावय धम्मं जिणदेवदेसियं कुणदि ।
विवरीयं कुब्बंतो मिच्छादिद्री मुण्येव्वो ॥ ६४ ॥

छाया— सम्यग्दृष्टिः श्रावकः धर्मं जिनदेवदेशितं करोति ।
विपरीतं कुर्वन् मिथ्यादृष्टिः ज्ञातव्यः ॥६४॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि श्रावक जिन भगवान् के कहे हुए धर्म को धारण करता है। जो मनुष्य इससे विपरीत धर्म को धारण करता है वह मिथ्यादृष्टी जानना चाहिए ॥६४॥

गाथा—मिच्छादिद्री जो सो संसारे संसरेइ सुहरहिओ ।
जम्मजरमरणपउरे दुक्खसहस्साउले जीवो ॥ ६५ ॥

छाया—मिथ्यादृष्टिः यः सः संसारे संसरति सुखरहितः ।
जन्मजरामरणप्रचुरे दुःखसहस्राकुले जीवः ॥ ६५ ॥

अर्थ—जो जीव मिथ्यादृष्टि है वह जन्म, बुढ़ापा, मरण आदि हजारों दुःखों से परिपूर्ण संसार में दुःख सहित भ्रमण करता रहता है ॥ ६५ ॥

गाथा—सम्म गुण मिच्छ दोसो मण्येण परिभाविअण तं कुणसु ।
जं ते मणस्स रूढइ किं बहुणा पलविण्णं तु ॥ ६६ ॥

छाया—सम्यक्त्वं गुणः मिथ्यात्वं दोषः मनसा परिभाव्य तत् कुरु ।

यत् ते मनसे रोचते किं बहुना प्रलपितेन तु ॥ ६६ ॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि हे भव्य ! सम्यक्त्व गुण रूप है और मिथ्यात्व दोष रूप है । यह बात मन से अच्छी तरह विचारकर जो तेरे मन को अच्छा लगे वही कार्य कर, बहुत कहने से क्या लाभ है अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ ६६ ॥

गाथा—बाहिरसंगविमुक्तो णवि मुक्तो मिच्छभाव णिग्गंथो ।

किं तस्स ठाणमउणं णवि जाणदि अप्पसमभावं ॥ ६७ ॥

छाया—बहिः संगविमुक्तः नापि मुक्तः मिथ्याभावेन निर्ध्रन्थः ।

किं तस्य स्थानमीनं नापि जानाति आत्मसमभावम् ॥ ६७ ॥

अर्थ—जो दिगम्बर वेपथारी जीव बाह्य परिग्रह रहित है और मिथ्यात्व परिणाम का त्यागी नहीं है, उसके कायोत्सर्गादि आसन और मौन धारण करने से क्या लाभ है । तथा वह सब जीवों के समानतारूप परिणाम को नहीं जानता है ॥ ६७ ॥

गाथा—मूलगुणं छित्तूण य बाहिरकम्मं करेइ जो साहू ।

सो ण लहइ सिद्धिसुहं जिणलिंगविराहगोणिच्चं ॥ ६८ ॥

छाया—मूलगुणं छित्त्वा च बाह्यकर्म करोति यः साधुः ।

स न लभते सिद्धिसुखं जिनलिंगविराधकः नित्यम् ॥ ६८ ॥

अर्थ—जो निर्ध्रन्थ मुनि अठाईस मूलगुणों को बिगाड़कर कायोत्सर्गादि बाह्य क्रिया करता है वह मोक्ष सुख नहीं पाता है, क्योंकि वह सदा जिनलिंग को दोष लगाता है ॥ ६८ ॥

गाथा—किं काहिदि बहिकम्मं किं काहिदि बहुविहं च खवणं तु ।

किं काहिदि आदावं आदसहावस्सविबरीदो ॥ ६९ ॥

छाया—किं करिष्यति बहिः कर्म किं करिष्यति बहुविधं च क्षमणं तु ।

किं करिष्यति आतापः आत्मस्वभावात् विपरीतः ॥ ६९ ॥

अर्थ—आत्मा के स्वभाव से विपरीत पठन पाठन आदि बाह्य क्रिया से, बहुत प्रकार के उपवास से, तथा आतृपन योग आदि कायक्लेश से क्या कार्य सिद्ध होगा अर्थात् मोक्षरूप कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ६६ ॥

गाथा—जदि पढदि बहु सुदाणि य जदि काहिदि बहुविहं य चारित्तं ।
तं बालसुदं चरणं हवेइ अप्पस्स विवरीदं ॥ १०० ॥

छाया—यदि पठति बहुश्रुतानि च यदि करिष्यति बहुविधं च चारित्रम् ।
तं बालश्रुतं चरणं भवति आत्मनः विपरीतम् ॥ १०० ॥

अर्थ—जो आत्मा के स्वभाव से विपरीत बहुत से शास्त्रों को पढ़ता है और बहुत प्रकार का आचरण करता है वह सब मूर्खों का शास्त्र ज्ञान और मूर्खों का चारित्र है ॥ १०० ॥

गाथा—वेरगपरो साधू परदव्वपरम्मुहो य जो होदि ।
संसारसुहविरत्तो सगसुद्धसुहेसु अणुरत्तो ॥ १०१ ॥

गुणगणविहूसियंगो हेयोपादेयणिच्छियो साधू ।
भाणज्भयणे सुरदो सो पावइ उत्तमं ठाणं ॥ १०२ ॥

छाया—वैराग्यपरः साधुः परद्रव्यपराङ्मुखश्च यः भवति ।
संसारसुखविरक्तः स्वकशुद्धसुखेषु अनुरक्तः ॥ १०१ ॥

गुणगणविभूषितांगः हेयोपादेयनिश्चितः साधुः ।
ध्यानाध्ययने मुरतः सः प्राप्नोति उत्तमं स्थानम् ॥ १०२ ॥

अर्थ—जो साधु वैराग्य में तत्पर है, पर पदार्थों से विरक्त है, संसार के सुखों से उदासीन है, आत्मा के शुद्ध सुखों में अनुराग रखता है, गुणों के समूह से जिसका शरीर शोभायमान है, त्यागने और ग्रहण करने योग वस्तु का निश्चय करने वाला है और धर्म ज्ञान तथा शास्त्रों के पढ़ने में लीन रहता है, वह उत्तम स्थान अर्थात् मोक्ष पद को प्राप्त करता है ॥ १०१-१०२ ॥

गाथा—एविएहिं जं एविज्जइ भाइज्जइ भाइएहिं अणवरयं ।
थुवतेहि थुण्णिज्जइ देहत्थं किं पि तं मुणह ॥ १०३ ॥

छाया— नतैः यत् नम्यते ध्यायते ध्यातैः अनवरतम् ।

स्तूयमानैः स्तूयते देहस्थं किमपि तत् मनुत ॥ १०३ ॥

अर्थ— जो नमस्कार करने योग्य इन्द्रादि से हमेशा नमस्कार किया जाता है और ध्यान करने योग्य तथा स्तुति करने योग्य तीर्थकरादि से ध्यान किया जाता है तथा स्तुति किया जाता है । ऐसे शरीर में स्थित उस अपूर्व आत्मा के स्वरूप को हे भव्य जीवो ! तुम भली भांति जानो ॥ १०३ ॥

गाथा— अरुहा सिद्धायरिया उज्ज्वाया साहु पंच परमेष्टी ।

तेषु चिद्गृहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ १०४ ॥

छाया— अर्हन्तः सिद्धा आचार्या उपाध्याया साधवः पञ्च परमेष्ठिनः ।

तेऽपि स्फुटं तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा हि भेशरणम् ॥ १०४ ॥

अर्थ— अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांच परमेष्ठी आत्मा में स्थित हैं अर्थात् ये आत्मा की ही अवस्था हैं । इसलिये आचार्य कहते हैं कि ऐसी आत्मा ही निश्चय से मेरे शरणभूत है ॥ १०४ ॥

गाथा— सम्मत्तं मण्णाणं सञ्चारिणं हि सत्तवं चैव ।

चउरो चिद्गृहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ १०५ ॥

छाया— सम्यक्त्वं सज्ज्ञानं सञ्चारित्रं हि सत्तपश्चैव ।

चत्वारः तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा स्फुटं मे शरणम् ॥ १०५ ॥

अर्थ— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और समीचीन तप ये चारों आराधना आत्मा में स्थित हैं अर्थात् आत्मा की ही अवस्था हैं । इस लिये आचार्य कहते हैं कि ऐसी आत्मा ही मेरे शरणभूत है ॥ १०५ ॥

गाथा— एवं जिणपरणत्तं मोक्खस्स य पाहुडं सुभत्तीए ।

जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं सोक्खं ॥ १०६ ॥

छाया— एवं जिनप्रज्ञप्तम् मोक्षस्य च प्राभृतं सुभक्त्या ।

यः पठति शृणोति भावयति सः प्राप्नोति शाश्वतं सौख्यम् ॥ १०६ ॥

अर्थ— इस प्रकार जिन भगवान् के द्वारा कहे हुए मोक्षप्राभृत नामक शास्त्र को जो जीव अत्यन्त भक्तिपूर्वक पढ़ता है, सुनता है और बार २ चिन्तन करता है वह अविनाशी सुख अर्थात् मोक्ष को पाता है ॥ १०६ ॥

(७) लिंगपाहुड़

गाथा—काऊण एमोकारं अरहताणं तद्देवसिद्धाणं ।

बोच्छामि समणलिंगं पाहुडसत्थं समासेण ॥ १ ॥

छाया—कृत्वा नमस्कारं अर्हतां तथैव सिद्धानाम् ।

वक्ष्यामि श्रमणलिंगं प्राभृतशास्त्रं समासेन ॥ १ ॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि मैं अर्हन्तों और सिद्धों को नमस्कार करके मुनियों के लिंग का कथन करने वाले प्राभृत शास्त्र को संक्षेप में कहूंगा ॥ १ ॥

गाथा—धम्मोण हवइ लिंगं ए लिंगमत्तेण धम्मसंपत्ती ।

जाणेहि भावधम्मं किं ते लिंगेण कायव्वो ॥ २ ॥

छाया—धर्मेण भवति लिंगं न लिंगमात्रेण धर्मसंप्राप्तिः ।

जानीहि भावधर्मं किं ते लिंगेन कर्तव्यम् ॥ २ ॥

अर्थ—अन्तरंग वीतराग रूप धर्म के साथ ही मुनि का लिंग (चिन्ह) सार्थक है, केवल बाह्य लिंग से धर्म प्राप्त नहीं होता है। इसलिए है भव्य जीव ! तू आत्मा के शुद्धस्वभावरूप भावधर्म को जान, इस बाह्य लिंगमात्र से तेरा क्या कार्य हो सकता है अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ २ ॥

गाथा—जो पापमोहिदमदी लिंगं घेत्तण जिणवरिंदाणं ।

उवहसइ लिंगिभावं लिंगिम्मि य एारदो लिंगी ॥ ३ ॥

छाया—यः पापमोहितमतिः लिंगं गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणाम् ।

उपहसति लिंगिभावं लिंगिषु च नारदः लिंगी ॥ ३ ॥

अर्थ—जो पापबुद्धि वाला मुनि तीर्थकरों का दिगम्बर रूप ग्रहण करके भी लिंगिपने की हँसी करता है अर्थात् खोटी क्रियायें करता है वह लिंगियों में नारद के समान लिंग धारण करने वाला है ॥ ३ ॥

गाथा—एण्णदि गायदि तावं वायं वाएदि लिंगरूपेण ।

सो पावमोहिदमदी तिरिक्खजोणी ए सो समणो ॥ ४ ॥

छाया—नृत्यति गायति तावत् वाद्यं वादयति लिंगरूपेण ।

सः पापमोहितमतिः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥ ४ ॥

अर्थ—जो मुनि का भेष धारण करके नाचता है, गाता है, और बाजा बजाता है, वह पाप बुद्धि वाला तिर्यञ्च-योनि अर्थात् पशु के समान अज्ञानी है, मुनि कदापि नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

गाथा—सम्मूहदि रक्खेदि य अट्टं भाएदि बहुपयत्तेण ।

सो पावमोहिदमदी तिरिक्खजोणी ए सो समणो ॥ ५ ॥

छाया—समूहयति रक्षति च आर्तं ध्यायति बहुप्रयत्नेन ।

सः पापमोहितमतिः निर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥ ५ ॥

अर्थ—जो मुनि का वेष धारण करके बहुत प्रयत्न से परिग्रह का संग्रह करता है, उसकी रक्षा करता है, उसके लिये आर्तध्यान करना है वह पाप बुद्धिवाला मुनि तिर्यञ्च योनि है अर्थात् पशु के समान अज्ञानी है, मुनि कदापि नहीं हो सकता ॥ ५ ॥

गाथा—कलहं वादं जूवा णिब्बं बहुमाणगव्विअो लिंगी ।

वज्जदि णारयं पाओ करमाणो लिंगिरूपेण ॥ ६ ॥

छाया—कलहं वादं द्यूतं नित्यं बहुमानगर्वितः लिंगी ।

व्रजति नरकं पापः कुर्वाणः लिंगिरूपेण ॥ ६ ॥

अर्थ—जो लिंगी (नग्नवेषधारी) मुनि अधिक मान से गर्वित हुआ सदैव कलह करता है, वादविवाद करता है तथा जूआ खेलता है वह पापी मुनि के वेष से इन खोटी क्रियाओं को करता हुआ नरक में उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥

गाथा—पाओपहदभावो सेवदि य अबंभु लिंगिरूपेण ।

सो पावमोहिदमदी हिंडदि संसारकांतारे ॥ ७ ॥

छाया—पापोपहतभावः सेवते च अब्रह्म लिंगिरूपेण ।

सः पापमोहितमतिः दृश्यते संसारकान्तारे ॥ ७ ॥

अर्थ—पाप से नष्ट हो गये हैं शुद्धभाव जिसके, ऐसा जो मुनि दिगम्बर वेप धारण करके व्यभिचार सेवन करता है वह पापबुद्धि वाला संसार रूपी बन में घूमता है ॥ ७ ॥

गाथा—दंसरण्णाणचरित्ते उवहाणे जइ ण लिंगरूपेण ।

अटं भायदि भाणं अणंतसंसारिओ होदि ॥ ८ ॥

छाया—दर्शनज्ञानचारित्राणि उपधानानि यदि न लिंगरूपेण ।

आर्तं ध्यायति ध्यानं अनन्तसंसारिकः भवति ॥ ८ ॥

अर्थ—जो लिंग (नग्नवेप) धारण करके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र को उपधान न बनाया अर्थात् धारण न किया और आर्तध्यान ही करता रहा तो वह मुनि अनन्त संसारी होता है अर्थात् अनन्त काल तक संसार में घूमता है ॥ ८ ॥

गाथा—जो जोडेदि विवाहं किसिकम्मवणिज्जजीवघादं च ।

वज्जदि णरयं पाओ करमाणो लिंगिरूपेण ॥ ९ ॥

छाया—यः योजयति विवाहं कृषिकर्मवाणिज्यजीवघातं च ।

व्रजति नरकं पापः कुर्वाणः लिंगिरूपेण ॥ ९ ॥

अर्थ—जो मुनि गृहस्थों का विवाह कराता है, खेती, व्यापार, जीवहिंसा आदि करता है। वह पापी मुनि के वेप से खोटी क्रियार्थे करता हुआ नरक में उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥

गाथा—चोराण लाउराण य जुद्ध विवादं च तिन्वकम्मेहिं ।

जंतेण दिन्वमाणो गच्छति लिंगी णरयवासं ॥ १० ॥

छाया—चौराणां लापराणां च युद्धं विवादं च तीव्रकर्मभिः ।

यन्त्रेण दीव्यमानः गच्छति लिंगी नरकवासम् ॥ १० ॥

अर्थ—जो लिंगी (नग्नवेषधारी) मुनि तीव्रकषाय वाले कामों से चोरों और भूठ बोलने वालों की लड़ाई और वादविवाद करता है तथा चौपड़ शतरंज आदि खेलता है वह नरक में उत्पन्न होता है ॥ १० ॥

गाथा—दंसणणाणचरित्ते तवसंजमणियमणिञ्चकम्मम्मि ।

पीडयदि वहमाणो पावदि लिंगी णरयवासं ॥ ११ ॥

छाया—दर्शनज्ञानचारित्रेषु तपः संयमनियमनित्यकर्मसु ।

पीड्यते वर्तमानः प्राप्नोति लिंगी नरकवासम् ॥ ११ ॥

अर्थ—जो लिंगधारी मुनि दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, संयम, नियम और नित्य क्रियाओं को करता हुआ दुःखी होता है वह नरक में उत्पन्न होता है ॥११॥

गाथा—कंदप्पाइय वट्टइ करमाणो भोयणोसु रसगिद्धिं ।

मायी लिंगविवाई तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १२ ॥

छाया—कंदर्पादिषु वर्तते कुर्वाणः भोजनेषु रसगृद्धिम् ।

मायावी लिंगव्यवायी तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥ १२ ॥

अर्थ—जो लिंगधारी मुनि बहुत प्रकार के भोजनों में आसक्त होता हुआ काम-सेवनादि क्रियाओं में प्रधृत होता है, वह मायाचारी तथा लिंग को दूषित करने वाला पशु के समान अज्ञानी है, मुनि कदापि नहीं हो सकता ॥१२॥

गाथा—धावदि पिंडणिमित्तं कलहं काऊण भुंजदे पिंडं ।

अवरूपरुई संतो जिणमग्गि ण होइ सो समणो ॥ १३ ॥

छाया—धावति पिण्डनिमित्तं कलहं कृत्वा भुंक्ते पिण्डम् ।

अपरप्ररूपी सन् जिनमार्गी न भवति सः श्रमणः ॥ १३ ॥

अर्थ—जो मुनि भोजन के लिये दौड़ता है, कलह करके भोजन करता है और दूसरों के दोष कहता है वह मुनि जिनमार्गी नहीं है ॥ १३ ॥

गाथा—गिह्वदि अदत्तदायां परणिदा वि य परोक्खदोसेहिं ।

जिणलिंगं धारंतो चोरेण व होइ सो समणो ॥ १४ ॥

छाया— गृह्णाति अदत्तदानं परनिन्दामपि च परोक्षदूषणैः ।

जिनलिंगं धारंतो चोरेणव भवति सः श्रमणः ॥ १४ ॥

अर्थ—जो मुनि बिना दिया हुआ दान लेता है और पीठ पीछे दोष लगा कर दूसरों की निन्दा करता है, वह जिनलिंग को धारण करता हुआ भी चोर के समान है ॥ १४ ॥

गाथा— उष्पडदि पडदि धावदि पुढवीओ खणदि लिंगरूपेण ।

इरियावह धारंतो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १५ ॥

छाया— उत्पतति पतति धावति पृथिवीं खनति लिंगरूपेण ।

ईर्यापथं धारयन् तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥ १५ ॥

अर्थ— जो मुनि जिनलिंग से ईर्यासमिति धारण कर चलता हुआ उछलता है, गिरता है, दौड़ता है और भूमि को खोदता है वह तिर्यच्योनि है अर्थात् पशु के समान अज्ञानी है, मुनि नहीं है ॥ १५ ॥

गाथा— बंधो णिरओ संतो सस्सं खंडेदि तह य वमुहं पि ।

द्धिदंदि तरुगण बहुसो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १६ ॥

छाया— बन्धं नीरजाः सन् सस्यं खण्डयति तथा च वमुधामपि ।

द्धिनत्ति तरुगणं बहुशः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥ १६ ॥

अर्थ— जो मुनि हिंसा से होने वाले कर्मबन्ध को निर्दोष समझता हुआ धान्य नष्ट करता है, भूमि को खोदता है और अनेक बार वृक्षों को काटता है, वह तिर्यच्योनि है अर्थात् पशु के समान अज्ञानी है, मुनि नहीं है ॥ १६ ॥

गाथा— रागे करेदि णिब्बं महिलावग्गं परं च दूसेइ ।

दंसग्गणाणविहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १७ ॥

छाया— रागं करोति नित्यं महिलावर्गं परं च दूषयति ।

दर्शनज्ञानविहीनः तिर्यग्योनि न सः श्रमणः ॥ १७ ॥

अर्थ— जो मुनि स्त्रियों से निरन्तर प्रेम करता है और दूसरों को दोष लगाता है, वह सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान रहित मुनि तिर्यञ्चयोनि है अर्थात् पशु के समान अज्ञानी है, मुनि नहीं है ॥ १७ ॥

गाथा— पञ्चज्जहीणगहिणं रोहिं सीसम्मि वट्ठे बहुसो ।
आयारविणायहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १८ ॥

छाया— प्रब्रज्याहीनगृहिणि स्नेहं शिष्ये वर्तते बहुशः ।
आचारविनयहीनः तिर्यग्योनिः न सः श्रमणः ॥ १८ ॥

अर्थ— जो मुनि दीक्षारहित गृहस्थ और अपने शिष्य पर बहुत प्रेम रखता है और मुनियों की क्रिया तथा गुरुओं की विनय रहित है, वह तिर्यञ्चयोनि है अर्थात् पशु के समान अज्ञानी है, मुनि नहीं है ॥ १८ ॥

गाथा— एवं सहिओ मुणिवर संजदमज्झम्मि वट्ठे णिच्चं ।
बहुलं पि जाणमाणो भावविणट्ठो ण सो समणो ॥ १९ ॥

छाया— एवं सहितः मुनिवर ! संयतमध्ये वर्तते नित्यम् ।
बहुलमपि जानन् भावविनष्टः न सः श्रमणः ॥ १९ ॥

अर्थ— हे मुनिवर ! ऐसी क्रियाओं सहित जो लिंगधारी सदा संयमी मुनियों के बीच में रहता है और बहुत से शास्त्रों को भी जानता है किन्तु आत्मा के शुद्ध भावों से रहित है इस लिये वह मुनि नहीं है ॥ १९ ॥

गाथा— दंसणणाणचरित्ते महिलावग्गम्मि देहि वीसट्ठो ।
पासत्थ वि हु णियट्ठो भावविणट्ठो ण सो समणो ॥ २० ॥

छाया— दर्शनज्ञानचारित्राणि महिलावर्गं ददाति विश्वस्तः ।
पार्श्वस्थादपि स्फुटं निकृष्टः भावविनष्टः न सः श्रमणः ॥ २० ॥

अर्थ— जो लिंगधारी (दिग्म्बर मुनि) स्त्रियों के समूह में विश्वास उत्पन्न करके उनको दर्शन, ज्ञान और चारित्र देता है अर्थात् उनको सम्यक्त्व का स्वरूप समझाता है, शास्त्र पढ़ाता है और व्रत नियमादि का पालन कराता है, वह भ्रष्ट मुनि से भी नीच है । वह निश्चय से शुद्ध भावों से रहित है, इस लिये मुनि नहीं है ॥ २० ॥

गाथा — पुंच्छलिघरि जो भुंजइ गिण्बं संधुण्णदि पोसए पिंडं ।
पावदि बालसहावं भावविण्णट्टो ए सो समणो ॥ २१ ॥


छाया— पुंश्चलीगृहे यः भुंक्ते नित्यं संस्तौति पुष्पाति पिण्डम् ।
प्राप्नोति बालस्वभावं भावविनष्टः न सः श्रमणः ॥ २१ ॥

अर्थ— जो लिंगधारी व्यभिचारिणी स्त्री के घर भोजन करता है, सदा उसकी बड़ाई करता है तथा शरीर को पुष्ट करता है, वह अज्ञानी है और शुद्ध भावों से रहित है इस लिये मुनि नहीं है ॥ २१ ॥

गाथा— इय लिंगपाहुडमिणं सव्वं बुद्धेहिं देसियं धम्मं ।
पालेइ कट्टसहियं सो गाहदि उत्तमं ठाणं ॥ २२ ॥

छाया— इति लिंगप्राभृतमिदं सर्वं बुद्धैः देशितं धर्मम् ।
पालयति कष्टसहितं सः गाहते उत्तमं स्थानम् ॥

अर्थ— इस प्रकार यह लिंगप्राभृत शास्त्र ज्ञानी गणधरादि के द्वारा उपदेश किया गया है । उस मुनि धर्म को जो बड़े यत्न से पालता है वह उत्तम स्थान अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ २२ ॥



(८) शीलपाहुडं

गाथा— वीरं विसालण्यणं रत्तुप्पलकोमलसमप्पावं ।
तिविहेण पणमिऊणं सीलगुणाणं निसामेह ॥ १ ॥

छाया— वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपादम् ।
त्रिविधेन प्रणम्य शीलगुणान् निशाम्यामि ॥ १ ॥

अर्थ— आचार्य कहते हैं कि मैं समस्त पदार्थों को देखने वाले और लाल कमल के समान कोमल चरण वाले श्रीवर्द्धमान स्वामी को मन वचन काय से नमस्कार करके शील अर्थात् आत्मा के स्वाभाविक गुणों को कहता हूँ ॥ १ ॥

गाथा— सीलस्स य णाणस्स य णत्थि विरोहो बुधेहिं णिहिट्ठो ।
एवरिं य सीलेण विणा विसया णाणं विणासंति ॥ २ ॥

छाया— शीलस्य च ज्ञानस्य च नास्ति विरोधः बुधैः निर्दिष्टः ।
केवलं च शीलेन विना विषयाः ज्ञानं विनाशयन्ति ॥ २ ॥

अर्थ— ज्ञानी पुरुषों ने शील और ज्ञान का विरोध नहीं बताया है । किन्तु इतनी विशेषता है कि शील के बिना इन्द्रियों के विषय ज्ञान को नष्ट कर देते हैं ॥ २ ॥

गाथा— दुक्खेणेयदि णाणं णाणं णाऊण भावणा दुक्खं ।
भाबियमई य जीवो विसण्णु विरज्जण दुक्खं ॥ ३ ॥

छाया— दुःखेनेयते ज्ञानं ज्ञानं ज्ञात्वा भावना दुःखम् ।
भावितमतिश्च जीवः विषयेषु विरज्यते दुःखम् ॥ ३ ॥

अर्थ— ज्ञान बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, और ज्ञान को पाकर भी उसकी भावना करना उससे भी कठिन है । तथा ज्ञान की भावना वाला जीव बड़ी कठिनता से विषयों का त्याग करता है ॥ ३ ॥

गाथा— ताव ए जाणदि णाणं विसयबलो जाव वए जीवो ।
विसए विरत्तमेत्तो ए खवेइ पुराइयं कम्मं ॥ ४ ॥

छाया— तावत् न जानाति ज्ञानं विषयबलः यावत् वर्तते जीवः ।
विषये विरक्तमात्रः न क्षिपते पुरातनं कर्म ॥ ४ ॥

अर्थ— जब तक जीव विषयों के वश में रहता है तब तक ज्ञान को नहीं जानता है, तथा ज्ञान को बिना जाने केवल विषयों का त्याग करने से पहले बांधे हुए कर्मों का नाश नहीं करता है ॥

गाथा— णाणं चरित्तहीणं लिंगगग्रहणं च दंसणविहीणं ।
संजमहीणो य तवो जइ चरइ गिरत्थयं सव्वं ॥ ५ ॥

छाया— ज्ञानं चारित्रहीनं लिंगग्रहणं च दर्शनविहीनम् ।
संयमहीनं च तपः यदि चरति निरर्थकं सर्वम् ॥ ५ ॥

अर्थ— यदि कोई चारित्र रहित ज्ञान धारण करता है, दर्शनरहित मुनि का वेष धारण करता है और संयमरहित तपश्चरण करता है, तो यह सब कार्य निष्फल ही है ॥ ५ ॥

गाथा— णाणं चरित्तसुद्धं लिंगगग्रहणं च दंसणविसुद्धं ।
संजमसहिदो य तवो थोओ वि महाफलो होई ॥ ६ ॥

छाया— ज्ञानं चारित्रशुद्धं लिंगग्रहणं च दर्शनचिशुद्धम् ।
संयमसहितं च तपः स्तोकमपि महाफलं भवति ॥ ६ ॥

अर्थ— चारित्र से पवित्र ज्ञान, दर्शन से पवित्र मुनिवेष का ग्रहण और संयमसहित तपश्चरण यदि थोड़ा भी आचरण किया जाय तो बहुत अधिक फल प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

गाथा— णाणं णाऊण णरा केई विसयाइभावसंसत्ता ।
हिंडति चादुरगदिं विसएसु विमोहिया मूढा ॥ ७ ॥

छाया— ज्ञानं ज्ञात्वा नराः केचित् विषयादिभावसंसक्ताः ।
हिएडन्ते चातुर्गतिं विषयेषु विमोहिता मूढाः ॥ ७ ॥

अर्थ— विषयों में मोहित कुछ अज्ञानी पुरुष ज्ञान को जान कर भी विषयरूप भावों में आसक्त हुए चतुर्गतिरूप संसार में भ्रमण करते हैं ॥ ७ ॥

गाथा— जे पुण विसयविरक्ता णाणं णाऊणभावणासहिदा ।
छिन्दन्ति चादुरगदि तवगुणजुत्ता ण सन्देहो ॥ ८ ॥

छाया— ये पुनः विषयविरक्ताः ज्ञानं ज्ञात्वाभावनासहिताः ।
छिन्दन्ति चातुर्गतिं तपोगुणयुक्ताः न सन्देहः ॥ ८ ॥

अर्थ— विषयों से विरक्त हुए जो मुनि ज्ञान का स्वरूप जान कर निरन्तर उसकी भावना करते हैं, वे तप और मूलगुण तथा उत्तरगुण सहित होकर चतुर्गतिरूप संसार का नाश करते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

गाथा— जह कंचणं विमुद्धं धम्मइयं खडियलवणलेपेण ।
तह जीवो वि विमुद्धं णाणविसल्लिलेण विमलेण ॥ ९ ॥

छाया— यथा कांचनं विशुद्धं धमत् खटकालवणलेपेन ।
तथा जीवोऽपि विशुद्धं ज्ञानविसल्लिलेन विमलेन ॥ ९ ॥

अर्थ— जैसे सोना खडिया (मुहागा) और नमक के लेप से निर्मल और कान्तिवाला हो जाता है, वैसे ही यह जीव भी निर्मल ज्ञानरूपी जल के द्वारा पवित्र हो जाता है ॥ ९ ॥

गाथा— णाणम्म णत्थि दोसो कप्पुरिसाणो विमंदबुद्धीणो ।
जे णाणमच्चिदा होऊणं विसण्णु रज्जन्ति ॥ १० ॥

छाया— ज्ञानस्य नास्ति दोषः कापुरुषस्यापि मन्दबुद्धेः ।
ये ज्ञानगर्विताः भूत्वा विषयेषु रज्जन्ति ॥ १० ॥

अर्थ— ज्ञान का घमण्ड करने वाले जो पुरुष विषयों में आसक्त होते हैं, वह ज्ञान का दोष नहीं है, किन्तु मन्दबुद्धि वाले खोटे मनुष्य ही का दोष है ॥ १० ॥

गाथा— णारणेण दंसणेण य तवेण चरिण्ण सम्मसहियेण ।
होहदि परिणिव्वाणं जीवाण चरित्तसुद्धाणं ॥ ११ ॥

छाया—ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चारित्र्येण सम्यक्त्वसहितेन ।

भविष्यति परिनिर्वाणं जीवानां चारित्र्यशुद्धानाम् ॥ ११ ॥

अर्थ—जब सम्यक्त्व के साथ ज्ञान दर्शन और तपरूप आचरण होता है तब शुद्ध चारित्र्य वाले जीवों को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

गाथा—शीलं रक्त्वताणं दंसणसुद्धाणं दिदचरित्ताणं ।

अत्थि ध्रुवं शिण्वाणं विसएसु विरत्तचित्ताणं ॥ १२ ॥

छाया—शीलं रक्त्तां दर्शनशुद्धानां दृढचारित्र्याणाम् ।

अस्ति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम् ॥ १२ ॥

अर्थ—इन्द्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले, शील की रक्षा करने वाले, सम्यग्दर्शन से पवित्र और दृढ़ अर्थात् अतीचार रहित चारित्र्य को पालने वाले पुरुषों को निश्चय से मोक्ष पद प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

गाथा—विसएसु मोहिदाणं कहियं भग्गं पि इट्ठपरिसीणं ।

उम्मभं दरिसीणं णाणं पि शिरत्थयं तेसिं ॥ १३ ॥

छाया—विषयेषु मोहितानां कथितो मार्गो ऽपि इष्टदर्शिनाम् ।

उन्मार्गं दर्शनां ज्ञानमपि निरर्थकं तेषाम् ॥ १३ ॥

अर्थ—इन्द्रियों के विषयों में आसक्त रहने पर भी जीवों को इष्ट मार्ग अर्थात् विषयों से विरक्त रहने का सच्चा मार्ग दिखाने वाले पुरुषों को तो सच्चा मार्ग प्राप्त हो सकता है। किन्तु जीवों को खोटा मार्ग दिखाने वाले मनुष्यों का ज्ञान प्राप्त करना भी व्यर्थ है ॥ १३ ॥

गाथा—कुमयकुसुदपसंसा जाणांता बहुविहाइं सत्थाइं ।

शीलवदणणरहिदा ण हु ते आराधया होत्ति ॥ १४ ॥

छाया—कुमतकुश्रुतप्रशंसकाः जानन्तो बहुविधानि शास्त्राणि ।

शीलव्रतज्ञानरहिता न स्फुटं ते आराधकाः भवन्ति ॥ १४ ॥

अर्थ—बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानने वाले जो पुरुष खोटे धर्म और खोटे शास्त्र की प्रशंसा करते हैं, वे शील, व्रत और ज्ञान रहित हैं इसलिये निश्चय से वे इन गुणों के आराधक नहीं होते हैं ॥ १४ ॥

[१४०]

गाथा—रूवाभेरिगव्विदाणं जुव्वणलावणकंतिकलिदाणं ।
शीलगुणवज्जिदाणं गिरत्थयं माणुसं जम्म ॥ १५ ॥

छाया—रूपश्रीगर्वितानां यौवनलावण्यकान्तिकलितानाम् ।
शीलगुणवर्जितानां निरर्थकं मानुषं जन्म ॥ १५ ॥

अर्थ—मुन्दरता रूप लक्ष्मी का गर्व करने वाले, युवावस्था की लावण्यता और कान्ति को धारण करने वाले शीलगुणरहित जीवों का मनुष्य जन्म पाना निरर्थक ही है ॥ १५ ॥

गाथा—वायरणद्धंदवइसेसियववहारणायसत्थेसु ।
वेदेऊण सुदेसु य तेसु सुयं उत्तमं सीलं ॥ १६ ॥

छाया—व्याकरणछन्दोवैशेषिकव्यवहारन्यायशास्त्रेषु ।
विदिवा श्रुतं पु च तेषु श्रुतं उत्तमं शीलम् ॥ १६ ॥

अर्थ—व्याकरण, छन्द, वैशेषिक, व्यवहार और न्याय शास्त्रों को तथा जैन शास्त्रों को जान कर भी शील अर्थात् सदाचरण धारण करना ही उत्तम माना गया है ॥ १६ ॥

गाथा—शीलगुणमण्डिदाणं देवा भवियाण वल्लहा होति ।
सुदपरयपउराणं दुस्सीला अप्पिला लोण ॥ १७ ॥

छाया—शीलगुणमण्डितानां देवा भव्यानां वल्लभा भवन्ति ।
श्रुतपागप्रचुराणं दुःशीला अल्पकाः लोके ॥ १७ ॥

अर्थ—शीलरूप गुण से सुशोभित भव्य जीवों को देव भी चाहते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण श्रुतज्ञान के जानने वाले बहुत से पुरुषों में शील रहित पुरुष बहुत थोड़े हैं ॥ १७ ॥

गाथा—सव्वे विय परिहीणा रूवविरूवा वि वदिदसुवयावि ।
सीलं जेसु सुसीलं सुजीविदं माणुसं तेसिं ॥ १८ ॥

छाया—सर्वरूपि परिहीनाः रूपविरूपा अपि पतितसुवयसो ऽपि ।
शीलं येषु सुशीलं सुजीवितं मानुष्यं तेषाम् ॥ १८ ॥

अर्थ—जो सब प्रकार से हीन हैं, कुरूप हैं, सुन्दर अवस्था रहित हैं अर्थात् वृद्ध हो गये हैं। ऐसा होने पर भी जिनका शील उत्तम है अर्थात् जो विषयों में आसक्त नहीं हैं उनका मनुष्य जन्म पाना प्रशंसा के योग्य है ॥ १८ ॥

गाथा— जीवदया दम सच्चं अचोरियं बंभचेरसंतोसे ।
सम्महंसणणाणे तत्रो य सीलस्स परिवारो ॥१९॥

छाया— जीवदया दमः सत्यं अचौर्यं ब्रह्मचर्यसन्तोषौ ।
सम्यग्दर्शनं ज्ञानं तपश्च शीलस्य परिवारः ॥१९॥

अर्थ—जीवों की दया, इन्द्रियों पर विजय, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, सन्तोष, सम्यग्दर्शन, ज्ञान और तप ये सब गुण शील के परिवार हैं अर्थात् शील के होने पर ये सब गुण स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं ॥१९॥

गाथा— सीलं तवो विसुद्धं दंसरणसुद्धीय णाणसुद्धीय ।
सीलं विसयाण अरी सीलं मोक्खस्स सोवाणं ॥२०॥

छाया— शीलं तपो विशुद्धं दर्शनशुद्धिश्च ज्ञानशुद्धिश्च ।
शीलं विषयाणामरिः शीलं मोक्षस्य सोपानम् ॥२०॥

अर्थ— शील ही निर्मल तप है, शील ही दर्शन की शुद्धता है, शील ही ज्ञान की शुद्धता है, शील ही विषयों का शत्रु है और शील ही मोक्षरूपी महल की सीढ़ी है ॥२०॥

गाथा— जह विसयलुद्ध विसदो तह थावर जंगमाण घोराणं ।
सव्वेसिं पि विणासदि विसयविसं दारुणं होई ॥२१॥

छाया— यथा विषयलुब्धः विषदः तथा स्थावरजंगमान् घोराण् ।
सर्वानपि विनाशयति विषयविषं दारुणं भवति ॥२१॥

अर्थ—जैसे विषयों के वश में हुआ जीव विषयों के द्वारा स्वयं ही मारा जाता है, वैसे ही त्रस और स्थावर सभी भयानक जीवों को विषय रूप विष नाश कर देता है। इसलिये विषयों का विष अत्यन्त तीव्र होता है ॥ २१ ॥

- गाथा—वारि एकस्मिन् जन्मे सरिज्ज विसवेयणाहदो जीवो ।
विसयविसपरिहया णं भमन्ति संसारकांतारे ॥ २२ ॥
- छाया—वारे एकस्मिन् च जन्मनि गच्छेत् विषवेदनाहतः जीवः ।
विषयविषपरिहता भ्रमन्ति संसारकान्तारे ॥ २२ ॥
- अर्थ—विष की पीड़ा से मरा हुआ जीव तो एक ही बार दूसरा जन्म पाता है,
किन्तु विषय रूप विष से मरे हुए जीव संसार रूप बन में
ही घूमते रहते हैं ॥ २२ ॥

- गाथा—णरणसु वेयणाओ तिरिक्खण मारणसु दुक्खाइं ।
देवेषु य दोहगं लहन्ति विसयासता जीवा ॥ २३ ॥
- छाया—नरकेषु वेदनाः तिर्यक्तु मानुषेषु दुःखानि ।
देवेषु च दौर्भाग्यं लभन्ते विषयासक्ता जीवाः ॥ २३ ॥
- अर्थ—इन्द्रियों के विषयों में आसक्त होने वाले जीव नरक गति में वेदना सहते
हैं, तिर्यच्छगति और मनुष्यगति में बहुत दुःख भोगते हैं तथा देवगति में
भी दुर्भाग्यपने को प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

- गाथा—तुसधम्मंतबलेण य जह दव्वं ण हि णराण गच्छेदि ।
तवशीलमंत कुसली खपन्ति विसयं विस व खलं ॥ २४ ॥
- छाया—तुषधमदलेन च यथा द्रव्यं न हि नराणां गच्छति ।
तपः शीलमन्तः कुशलाः क्षिपन्ते विषयं विषमिव खलम् ॥
- अर्थ—जैसे तुषों के उड़ाने से मनुष्यों की कोई हानि नहीं होती है, वैसे ही तप
और शील को धारण करने वाले चतुर पुरुष विषय रूप विष को खल के
समान तुच्छ समझकर फेंक देते हैं अर्थात् उनका त्याग कर देते हैं ॥ २४ ॥

- गाथा—वट्टेसु य खंडेसु य भहेसु य विसालेसु अंगेसु ।
अंगेसु य पप्पेसु य सव्वेसु य उत्तमं सीलं ॥ २५ ॥
- छाया—वृत्तेषु च खण्डेषु च भद्रेषु च विशालेषु अंगेषु ।
अंगेषु च प्राप्तेषु च सव्वेषु च उत्तमं शीलम् ॥ २५ ॥

अर्थ—मनुष्य के शरीर में गोल, खण्डरूप (अर्द्धगोल) सरल और विशाल अंग प्राप्त होने पर भी सब अंगों में शील ही उत्तम अंग माना गया है, अर्थात् सुन्दर अंग वाला मनुष्य भी शील के बिना शोभा नहीं पाता है ॥ २५ ॥

गाथा—पुरिसेण वि सहियाए कुसमयमूढेहि विसयलोलेहिं ।
संसारे भमिदव्वं अरयघरटं व भूदेहिं ॥ २६ ॥

छाया—पुरुषेणापि सहितेन कुसमयमूढैः विषयलोलैः ।
संसारे भ्रमितव्यं अरहटघरटं इव भूतैः ॥ २६ ॥

अर्थ—मिथ्याधर्म के श्रद्धान से अज्ञानी और विषयों में आसक्त पुरुष रहट की घड़ी के समान संसार में घूमते हैं तथा उनके साथ रहने वाला दूसरा पुरुष भी अवश्य संसार में घूमता है ॥ २६ ॥

गाथा—आदे हि कम्मगंठी जा बद्धा विसयरागमोहेहिं ।
तं छिन्दन्ति कयत्था तवसंजमसीलयगुणेण ॥ २७ ॥

छाया—आत्मनि हि कर्मप्रन्थिः या बद्धा विषयरागमोहैः ।
तां छिन्दन्ति कृतार्थाः तपः संयमशीलगुणेन ॥ २७ ॥

अर्थ—जो कर्मों की गांठ विषयों की आसक्तता और मोहभाव के कारण आत्मा में बंधी है उसको चतुर पुरुष तप, संयम और शील आदि गुणों से अर्थात् भेद ज्ञान के द्वारा काट देते हैं ॥ २७ ॥

गाथा—उदधीव रदणभरिदो तवविणयं सीलदाणरयणाणं ।
सोहेतो य ससीलो णिब्वाणमणुत्तरं पत्तो ॥ २८ ॥

छाया—उदधिरिव रत्नभृतः तपोविनयशीलदानरत्नानाम् ।
शोभते च सशीलः निर्वाणमनुत्तरं प्राप्तः ॥ २८ ॥

अर्थ—जैसे रत्नों से भरा हुआ समुद्र जल से ही शोभा पाता है वैसे ही आत्मा तप, विनय, शील, दान आदि गुणरूपी रत्नों में शीलसहित ही शोभा पाता है ॥ २८ ॥

गाथा— सुहृणाण गृह्णाण य गोपसुमहिलाण दीसदे भोक्खो ।
जे सोधंति चउत्थं पिच्छिज्जंता जणेहिं सव्वेहिं ॥ २६ ॥

छाया— शुनां गर्दभानां च गोपशुमहिलानां दृश्यते मोक्षः ।
ये साधयन्ति चतुर्थं दृश्यमानाः जनैः सर्वैः ॥ २६ ॥

अर्थ— आचार्य कहते हैं कि क्या कहीं कुत्तों, गर्धों, गाय आदि पशुओं और स्त्रियों को मोक्ष होता देखा गया है अर्थात् नहीं । किन्तु जो चौथे पुरुषार्थ (मोक्ष) को सिद्ध करते हैं वे शीलवान् मनुष्य ही सब लोगों के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते देखे गए हैं ॥ २६ ॥

गाथा— जइ विसयलोलणहिं णाणीहिं हविज्ज साहिदो भोक्खो ।
तो सो सच्चइपुत्तो दसपुव्वीओ वि किं गदो णरयं ॥ ३० ॥

छाया— यदि विषयलोलैः ज्ञानिभिः भवेत् साधितः मोक्षः ।
तर्हि सः सात्यकिपुत्रः दशपूर्विकः किं गतः नरकम् ॥ ३० ॥

अर्थ— यदि विषयों के लोलुपी और ज्ञानी पुरुषों को मोक्ष प्राप्त होना मान लिया जाय तो देश पूर्व का ज्ञानी वह सात्यकिपुत्र नरक में क्यों गया ॥ ३० ॥

गाथा— जइ णारोण विसोहो सीलेण विणा बुहेहिं णिद्धिदो ।
दसपुव्वियम्म भावो य ण किं णिम्मलो जादो ॥ ३१ ॥

छाया— यदि ज्ञानेन विशुद्धः शीलैः विना
दशपूर्विकस्य भावः च न किं निर्मलः जातः ॥ ३१ ॥

अर्थ— यदि बुद्धिमानों ने शील के बिना ज्ञान ही के द्वारा शुद्ध भाव का होना बताया है तो दश पूर्वशास्त्र को जानने वाले रुद्र का भाव निर्मल क्यों नहीं हुआ । इस लिए भावों की शुद्धता में शील ही प्रधान कारण है ॥ ३१ ॥

गाथा— जाए विसयविरत्तो सो गमयदि णरयवेयणा पउरा ।
ता लेहदि अरूहपयं भणियं जिणवड्ढमारोण ॥ ३२ ॥

छाया— यः विषयविरक्तः सः गमयति नरकवेदनाः प्रचुराः ।

तत् लभते अर्हत्पदं भणितं जिनवर्धमानेन ॥ ३२ ॥

अर्थ— जो जीव विषयों से विरक्त है वह बहुत अधिक नरक की पीड़ाओं को कम कर देता है । तथा वहां से निकल कर अर्हन्त पद को पाता है, ऐसा श्री-वर्धमान स्वामी ने कहा है ॥ ३२ ॥

गाथा— एवं बहुष्यारं जिरोहिं पञ्चस्वखाणदरसीहिं ।

शीलेण य मोक्षपथं अस्वातीदं य लोयणारोहिं ॥ ३३ ॥

छाया— एवं बहुप्रकारं जिनैः प्रत्यक्षज्ञानदर्शिभिः ।

शीलेन च मोक्षपदं अज्ञातीतं च लोकज्ञानैः ॥ ३३ ॥

अर्थ— इस प्रकार केवल ज्ञान से लोक के समस्त पदार्थों को देखने वाले और जानने वाले जिनेन्द्र भगवान ने शील के द्वारा प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय सुखरूप मोक्षस्थान का बहुत प्रकार से वर्णन किया है ॥ ३३ ॥

गाथा— सम्मत्तशाणदंसगतववीरियपंचयार मप्पाणं !

जलणो वि पवणसहिदो ड्हंति पोरायणं कम्मं ॥ ३४ ॥

छाया— सम्यक्त्वज्ञानदर्शनतपोवीर्यपंचाचारा आत्मनाम् ।

ज्वलनोऽपि पवनसहितः दहन्ति पुरातनं कर्म ॥ ३४ ॥

अर्थ— सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, तप और वीर्य ये पाँच आचार आत्मा के आश्रय से पूर्व बंधे हुए कर्म को जला देते हैं । जैसे आग हवा की सहायता से पुराने ईंधन को जला देती है ॥ ३४ ॥

गाथा— णिहद्धअट्टकम्मा विसयविरत्ता जिदिंदिया धीरा ।

तवविणयशीलसहिदा सिद्धा सिद्धिं गदिं पत्ता ॥ ३५ ॥

छाया— निर्दग्धाष्टकर्माणः विषयविरक्ता जितेन्द्रिया धीराः ।

तपोविनयशीलसहिताः सिद्धाः सिद्धिं गतिं प्राप्ताः ॥ ३५ ॥

अर्थ— जिन जीवों ने इन्द्रियों को जीत लिया है, जो विषयों से विरक्त हैं, धैर्यवान् हैं, तप, विनय और शीलसहित हैं और मोक्ष को प्राप्त हो गये हैं वे सिद्ध कहे जाते हैं ॥ ३५ ॥

गाथा— लावण्यशीलकुसलो जन्ममहीरुहो जसस सबसास ।

सो सीलो स महत्पा भमित्थ गुणवित्थरं भविए ॥ ३६ ॥

द्वया— लावण्यशीलकुशलः जन्ममहीरुहः यस्य श्रमणस्य ।

सः शीलः स महात्मा भ्रमेत् गुणवित्तारः भवे ॥ ३६ ॥

अर्थ— जिस मुनि का जन्मरूप वृत्त लावण्य (सर्वप्रिय होना) और शील (आत्म-
स्वभाव का अनुभव) धारण करने में चतुर है, वही शीलवान् और
महात्मा है तथा उसके गुणों का विस्तार संसार में फैलता है ॥ ३६ ॥

गाथा— णाण भाणं जोगो दंसणसुद्धी य बीरियायत्तं ।

सम्मत्तदंसणेण य लहंति जिणसासणे बोहिं ॥ ३७ ॥

द्वया— ज्ञानं ध्यानं योगः दर्शनशुद्धिश्च वीर्यायत्ताः ।

सम्यक्त्वदर्शनेन च लभन्ते जिनशासने बोधिम् ॥ ३७ ॥

अर्थ— ज्ञान, ध्यान (मन की स्थिरता), योग (समाधि लगाना) और निरतीचार
सम्यग्दर्शन ये गुण वीर्य के आधीन हैं अर्थात् यथाशक्ति धारण करने
चाहिये। तथा सम्यग्दर्शन से रत्नत्रय प्राप्त होता है ऐसा जिन शासन
में कहा है। यह रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव है, इसी को शील भी कहते
हैं ॥ ३७ ॥

गाथा— जिणवयणगहिदसारा विसयविरत्ता तपोधणा धीरा ।

शीलसल्लिणेण एहादा ते सिद्धालयसुहं जंति ॥ ३८ ॥

द्वया— जिनवचनगृहीतसारा विषयविरक्ताः तपोधना धीराः ।

शीलसल्लिणेन स्नाताः ते सिद्धालयसुखं यान्ति ॥ ३८ ॥

अर्थ— जिन जीवों ने जिनभगवान् के उपदेश से वस्तु का यथार्थस्वरूप जान लिया
है, जो विषयों से विरक्त हैं, तपरूप धन के स्वामी हैं, धैर्यवान् हैं तथा
शीलरूप जल से स्नान कर लुके हैं अर्थात् आत्मा को पवित्र कर लिया है,
वे मोक्ष के अविनाशी सुख को प्राप्त करते हैं ॥ ३८ ॥

गाथा— सव्वगुणस्वीणकम्मा सुहदुक्खविवज्जिया मणविसुद्धा ।

पप्फोडियकम्मरया हवन्ति आराहणा पयद्धा ॥ ३९ ॥

छाया— सर्वगुणक्षीणकर्माणः सुखदुःखविवर्जिताः मनोविशुद्धाः ।

प्रस्फोटितकर्मरजसः भवन्ति आराधनाः प्रकटाः ॥३६॥

अर्थ—जहां मूल गुण और उत्तर गुणों के द्वारा कर्मों को क्षीण (कमजोर) किया जाता है, जो सुख दुःख रहित है, जहां मन पवित्र रहता है और कर्मरूपी धूल नष्ट कर दी जाती है—ऐसी ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप चार आराधना अन्तिम समय शील के द्वारा ही प्रगट होती हैं ॥३६॥

गाथा— अरहन्ते सुहभक्ती सम्मत्तं दंसयोण सुविसुद्धं ।

शीलं विसयविरागो णाणं पुण केरिसं भणियं ॥४०॥


छाया— अर्हन्ति शुभभक्तिः सम्यक्त्वं दर्शनेन सुविशुद्धम् ।

शीलं विषयविरागः ज्ञानं पुनः कीदृशं भणितम् ? ॥४०॥

अर्थ—अर्हन्त भगवान् में उत्तम भक्ति करना सो सम्यक्त्व कहलाता है, वह तत्त्वों के समीचीन श्रद्धान से पवित्र है। तथा इन्द्रिय विषयों से विरक्त होना सो शील है और सम्यक्त्व तथा शील के साथ पदार्थों का ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है। सम्यक्त्व और शील से भिन्न कोई ज्ञान नहीं बताया गया है अर्थात् इनके बिना जो ज्ञान है वह मिथ्याज्ञान कहा जाता है ॥ ४० ॥

भावार्थ—इस प्रकार सम्यग्दर्शन और शील के साथ ज्ञान की महिमा का वर्णन करने से आत्मा के पवित्र गुणों का स्मरण होता है जो निर्वाण पद को प्राप्त कराने वाला है और यही अन्तिम मंगल है। ऐसा उत्तम शील संसार में जयवन्त हो ॥ ।

॥ इति शुभम् ॥





अर्जुन प्रेस, श्रद्धानन्द बाजार, देहली ।



